

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017—वैशाख 15, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-1-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 20 फरवरी 2017 23 फरवरी 2017 तक.	04	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2017 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24, 25 एवं 26 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1(ए)155-95-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2017 तक छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14, 15, 16 एवं 23 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

फा. क्र. 17(ई)43-2009-1331-इक्कीस-ब(एक)-17.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 23, 28, 30, 38, 39, 46, 47, 49, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 75 एवं 76 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	श्री संजीव कटारे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
3.	श्री सिद्धार्थ तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
4.	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	श्री मोहम्मद जफर खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	सेंधवा	बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी
10	श्री मधुसूदन जंघेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
12	श्री कंचन सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
13	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
17.	श्री मनीष अनुरागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर
23	श्री सुधांशु सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	सेवढ़ा	दतिया	सेवढ़ा	सेवढ़ा
28.	श्री अरविंद कुमार बरला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी
30	श्री किशोर कुमार मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	गुना	गुना	गुना	गुना
38	श्री राजकुमार यादव, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39	श्री गुलाबचन्द्र मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
46	श्री नंदराम परमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
47	श्री अजय सिंह यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
49	श्री पंकज जायसवाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
60	श्री मनीष शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सागर	सागर	सागर	सागर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	श्री आतिश टांकले, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
62	श्री नरेश यादव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सतना	सतना	सतना	सतना
66	श्री धर्मेश भट्ट, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
67	श्री रामजीलाल ताप्रकार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
70	श्री आलोक प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
72	श्री अंकित श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
75	श्री प्रशांत शुक्ला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
76.	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली''

F. No. 17(E)43-2009-1331XXI-B(1)-17.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1), dated 10th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 23, 28, 30, 38, 39, 46, 47, 49, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 75 and 76 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2	Shri Sanjeev Katare, Civil Judge, Class-II.	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
3	Shri Siddhartha Tiwari II nd Civil Judge Class-I.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
4	Shri Nitendra SinghTomar, II nd Civil Judge Class-II.	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma
8	Shri Mohammad Zafar Khan, Civil Judge Class-II.	Sendhwa	Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Shri Madhusudan Janghel, Ist Civil Judge Class-II.	Multai	Betul	Multai	Multai
12	Shri Kanchan Saxena. Ist Civil Judge Class-I.	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
13	Shri Pravin Kumar Sinha, VIIth Civil Judge Class-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
17	Shri Manish Anuragi, Ist Civil Judge Class-II.	Bijawar	Chhatarpur	Bijwar	Bijawar
23	Shri Sudhanshu Saxena, IInd Civil Judge Class-II.	Sewdha	Datia	Sewdha	Sewdha
28	Shri Arvid Kumar Barla, Ist Civil Judge Class-II.	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
30	Shri Kishore Kumar Mishra, Civil Judge Class-I.	Guna	Guna	Guna	Guna
38	Shri Rajkumar Yadav, IXth Civil Judge Class-I.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39	Shri Gulabchandra Mishra, Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Patan	Patan	Patan	patan
46	Shri Nandram Parmar, IIIrd Civil Judge Class-I.	Morena	Morena	Morena	Morena
47	Shri Ajay Singh Yadav Civil Judge Class-I.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
49	Shri Pankaj Jaiswal, IInd Civil Judge Class-I.	Gadarwara	Narsingpur	Gadarwara	Gadarwara
60	Shri Manish Sharma, IInd Civil Judge Class-I.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
61	Shri Ashish Tankle, IInd Civil Judge Class-I.	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
62	Shri Nilesh Yadav, IVth Civil Judge Class-I.	Satna	Satna	Satna	Satna
66.	Shri Dharmesh Bhatt, Civil Judge Class-I.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
67	Ramjilal Tamrakar, Civil Judge Class-I.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
70	Shri Alok Pratap Singh Ist Civil Judge Class-I.	Shajapur	Shajapr	Shajapur	Shajapur
72	Shri Ankit Shrivastava, IIIrd Civil Judge Class-I.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
75	Shri Prashant Shukla, IIIrd Civil Judge Class-I.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
76.	Shri Munendra Singh Verma, Civil Judge Class-II.	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi"

फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)1423-2017.—कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का सं. 4) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित न्यायाधीश को उसके कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	जिला	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	जबलपुर	श्री डी. पी. मिश्रा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

F.No. 17(E)17-2016-XXI-B(One)-1423-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the consultation of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the judge mentioned in the column (3) of the table given below to be the Presiding Officer of Commercial Court of district mentioned in the column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No.	District	Name of the Officer and Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Jabalpur	Shri D.P. Mishra, III Additional Sessions Judge, Jabalpur

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-1491-2017.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)16 दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7, 18, 74 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7.	श्री आसिफ अब्दुल्लाह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 से अतिरिक्त न्यायाधीश.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
18	श्री संदीप कुमार पाटिल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
74	श्री शरद कुमार लटोरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा.”

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-1491-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-16, dated 10th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 7, 18, and 74 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Shri Asif Abdullah, Additional Judge, to Ist Civil Judge, Class-I.	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
18.	Shri Sandeep Kumar Patil, IVth Civil Judge, Class-I.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
74.	Shri Sharad Kumar Latoria, Ist Civil Judge, Class-II.	Karera	Shivpuri	Karera	Karera

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक) 3507.—(मेरिट क्र. 67), राज्य शासन सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो पिता स्व. श्री फुलजेन्स टोप्पो को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 फरवरी, 1990 है।

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1-2017-इक्कीस-ब (एक) 1722.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मार्च 2017 को मान्य करते हुए श्री उज्ज्वल उपाध्याय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) इन्दौर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 8 मार्च 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

फा. क्र. 2017-1734-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हेतु राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कटारे, उपचालक,

अभियोजक अधिकारी को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में शासन की ओर से संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1(सी)-1735-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला दमोह के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-1435-2002, दिनांक 16 जुलाई 2002 को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, दमोह को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1860-2017-इक्कीस-ब-(दो).—विभाग के आदेश दिनांक 23 जून 2016 द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को अपने पारिवारिक कारण से स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. एफ 10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम-3 में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रामकिशोर "नानू" कावरे	बालाघाट
2.	श्रीमती अनुपमा नेताम, पत्नि श्री भगतसिंह नेताम	बालाघाट

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. एफ 10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम-3 में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1.	श्री देवीलाल धाकड़	मंदसौर
2.	श्री राधेश्याम पाटीदार	मंदसौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्र. 772-663-2017-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये अतिरिक्त रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, नियुक्त करता है :—

अनु. अधिकारी का नाम	अधिनियम की	क्षेत्र
क्र.	धाराएं	
(1)	(2)	(3)
1 श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं.	6, 7, 10, 11, 12 13, 15, 16, 17 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. बी-15-21-06-चौदह-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल का गठन विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-15-21-06-चौदह-2, दिनांक 2 नवम्बर 2006 एवं 9 जनवरी, 2007 द्वारा किया गया है. उक्त अधिसूचना में संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम 2006 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल के प्रतिनिधि को संस्था के संचालक मण्डल में सदस्य नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 987-भू-अर्जन-17

बरेली, दिनांक 6 अप्रैल 2017

प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा, चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - बन्होरी भुआरी

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बन्होरी भुआरी	बृजबिहारी आ. शंकर सिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी	280/2/1	3.237	0.121	कार्यपालन यंत्री बारना बायी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की जातिर उप नहर हेतु
2		अशुतोष ना.वा. आ. कैलाशानारायण संरक्षक चाचा सुरेन्द्र सिंह नि. ग्राम भू स्वामी	285	1.655	0.212		
3		उमा पत्नि शम्भु सिंह रघु.	280/2/2/2	2.000	0.121		
4		शम्भु सिंह आ. ब्रजबिहारी रघु.	280/2/2/1	7.712	0.267		
5		अशीष कुमार आ. ब्रजबिहारी रघु.	274	0.713	0.106		
6		लोचन सिंह आ. बीरेन्द्र सिंह जाति किरार	273/2/2	1.170	0.126		
7		सुरेन्द्र सिंह आ. भवानीसिंह जाति रघु नि. भू स्वामी	263/2	5.176	0.243		
8		अशुतोष ना.वा. आ. कैलाशानारायण संरक्षक चाचा सुरेन्द्र सिंह नि. ग्राम भू स्वामी	263/1	2.428	0.264		

शिवकुमार आ. महेश कुमार रघु. नि. भू स्वामी	264/1/1	1.214	0.328		
अखिलेश आ. ब्रजविहारी सिंह जाति रघु. निवासी ग्राम भू स्वामी	246/2/1	7.712	0.300		
शांति वाई पत्नि भक्तराज सिंह जाति रघु. निव भू स्वामी	235	2.201	0.192		
राजेन्द्र सिंह आ. हृदयराम जाति रघु. नि. भू स्वामी	234/1/2/1	0.809	0.162		
शिवकान्त ना.वा. आ. राजेन्द्र सिंह संरक्षक माँ सावित्री वाई पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी नि. भू स्वामी	234/3/1	2.251	0.409		
ब्रजेश सिंह आ. रामनाथ जाति रघु. नि. ग्राम भू स्वामी	225/1	1.389	0.153		
रामेतीवाई पत्नि रामनाथ सिंह रघु. नि. ग्राम भू स्वामी	224	1.635	0.279		
गनपत सिंह आ. मशाराम जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	223/1 223/3	0.793 0.809	0.162 0.155		
कमलावाई पत्नि गनपत सिंह किरार नि. भू स्वामी	223/2	1.214	0.264		
धन्नुलाल आ. गोरेलाल जाति रघु. नि. भू स्वामी	220	3.885	0.292		
छोटीवाई आ. नत्थू जाति रघु. नि. उदयपरा कृषक ग्राम भू स्वामी	219/1/1	1.214	0.253		
प्रभावाई पत्नि कमल सिंह जाति रघु. नि. भू स्वामी	200/6	1.821	0.211		
सीताबाई पत्नि जसबत सिंह रघु. नि. ग्राम भू स्वामी	200/5	1.821	0.162		
प्रभावाई वेवा कमलसिंह एवं जीतेन्द्र, मंजू आ. कमल सिंह जाति रघु. नि. भू स्वामी	200/4	1.821	0.336		
शेख नजीर आ. शेख नत्थू जाति मुसलमान नि. बरेली कृषक ग्राम भू स्वामी	199/1	1.416	0.259		
त्रिवेणी वाई पत्नि शंकर सिंह रघु. नि. ग्राम भू स्वामी	196/2	1.870	0.043		

डी. एस. तोमर, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. 26अ-82-16-17-3970

मौजा ग्राम बम्हौरी खुर्द पट. ह. नं.-71, तहसील बण्डा

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की साजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	बण्डा
	3. ग्राम	:	बम्हौरी खुर्द
	4. पट.ह.नं.-	:	71
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	21.41 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नरेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1161/1	0.20	0.05	
2	अच्छेलाल पि. लाडले रामदास पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन सासा	भूमिस्वामी	1161/2	0.32	0.16	
		भूमिस्वामी	1162/5	0.11	0.11	
3	लीलाधर पिता अमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	1161/3	0.05	0.05	
		भूमिस्वामी	1162/3	0.32	0.16	
		भूमिस्वामी	1162/6	0.11	0.11	
4	महरानी पति पंचू काछी सा. सासा	भूमिस्वामी	1161/4	0.20	0.08	
5	रामपाल पि. रज्जन घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	1162/1	0.06	0.03	
6	रगवीर पिता हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/2	0.06	0.03	

7	लीलाधर पिता अमरत रामप्रसाद पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/4	0.13	0.10
8	रामअवतार वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1271/2	0.13	0.06
		भूमिस्वामी	1272/3	0.27	0.27
		भूमिस्वामी	1278/4	1.25	1.25
		भूमिस्वामी	1282/4	1.03	1.03
9	प्रहलाद सिंह व मूरत सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1272/1	0.58	0.58
		भूमिस्वामी	1278/1	0.37	0.37
		भूमिस्वामी	1279	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	1280	0.42	0.42
		भूमिस्वामी	1282/1	0.51	0.51
		भूमिस्वामी	1271/1	0.24	0.12
10	रामकृपाल वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1272/2	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	1273	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1278/3	1.25	1.25
		भूमिस्वामी	1282/3	1.03	1.03
11	राजकुमार वल्द बाबूलाल साकिन सासा	भूमिस्वामी	1274	1.39	1.39
		भूमिस्वामी	1275	0.65	0.65
12	हीरा सींग कल्याण सींग पिता मुन्ना सींग मिट्टू सींग पिता कन्हेदी बड़ी बहु बेवा कन्हेदी दयाबाई शीलाबाई पुत्रियां कन्हेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	1276/1	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	1277/1	1.40	1.40
13	मुन्ना सींग वल्द कन्हेदी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1277/2	0.25	0.25
14	घनश्याम वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1278/2	1.52	1.52
15	लोकपाल वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1282/2	1.52	1.52
16	गजरा बाई कस्तूरी बाई पुत्रियां जीवन सींग साकिन सेमरा दयाराम तुलसीराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	1201/1	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	1202	0.82	0.82
17	दयाराग पिता शंकर साकिन खुर्द	भूमिस्वामी	1205	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1203	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1204	0.47	0.47
		भूमिस्वामी	1209	1.39	0.39
18	रगवीर वल्द भागीरथ सा. डूडा रामदीन वल्द बृजेन्द्रभानसींग साकिन सासा	भूमिस्वामी	1210	1.30	1.30
		भूमिस्वामी	1208	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	1207	1.10	1.10
19	रामदीप पि. बृजेन्द्रभानसींग सा. सासा रामचरन अमोल बलवंत हिल्ले पि. फिरतू सा. खुर्द रगवीर पि. भागीरथ सा. डूडा	भूमिस्वामी	1242/1	0.40	0.30
20	विजेन्द्रभानसींग पि. जगत सिंह घोषी	भूमिस्वामी	1242/2	0.55	0.55
21	रज्जन सिंह वल्द बाबू सिंह घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1247/1	0.02	0.02
22	जस्सू वल्द बनखेड़ी चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	1247/2	0.23	0.08
23	रामचरन वल्द श्यामले विश्वकर्मा सा. सासा	भूमिस्वामी	1201/2	0.32	0.32
24	दयाराम, तुलसीराम पिसरान शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	1217	1.28	0.05
25	नाथूराम पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1242/3	0.48	0.08
26	आजादरानी पत्नि रज्जनसींग सा. सासा	भूमिस्वामी			
योग:-			47 किता	25.16	21.41

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्रमांक 27अ-82-16-17-3970,

मौजा ग्राम मझगुवा, पट. ह. नं.-79, तहसील बण्डा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अर्थात्, यहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सौंजली मध्यम सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : मझगुवां
 4. पट.ह.नं.- : 79
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 8.31 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	8
1	विशाल सिंह पिता मजबूत सिंह निवासी ग्राम तिन्सी तहसील रहली	भूमिस्वामी	619	0.45	0.45	
2	जगत सींग वल्द मंगल सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	622	1.02	1.02	
3	राजकुमार पिता इमरत घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	623	0.04	0.04	
4	प्रकाश प्रमोद बलबीर जाहर पिसरान विश्वनाथ रति पुत्री विश्वनाथ सुरेन्द्र उदय तितेन्द्र पिसरान शंभू गुड्डा धर्मन्द्र पिसरान राजेन्द्र साकिन सासा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	624	0.03	0.03	
5	राजरानी जोजे देव सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	625	0.04	0.04	
6	हिम्मत दयाराम गुपाल पिसरान दरवारी कुसुम गोमती पुत्रिया दरवारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	626	0.09	0.09	
7	दुर्गाबाई बेवा प्रभु जनकाबाई बेवा प्रभु सूरत सींग वल्द गुलाप सा. सासा	भूमिस्वामी	627	0.06	0.06	
8	भागीरथ वल्द चित्तर साकिन सासा	भूमिस्वामी	637	0.28	0.28	
		भूमिस्वामी	628	0.04	0.04	
9	जगत सींग वल्द मंगल सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	642	0.11	0.11	
		भूमिस्वामी	630	0.06	0.06	
10	एहमानसींग सींग वल्द नत्थू सींग, सिंगार बहू बेवी नत्थूसींग, यशवंत सींग वल्द ग्या प्रसाद लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	631	0.12	0.12	
		भूमिस्वामी	633	0.53	0.53	
11	मीराबाई मायाबाई पुत्रिया माधोसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	635	0.26	0.26	
12	लक्ष्मणन सींग वल्द धनसींग	भूमिस्वामी	636	0.15	0.15	
13	कछेदी पि. सूरतसींग रज्जन पिता दाबूलाल सदारानी बेवा सूरतसींग पता सा. सासा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	639	0.08	0.08	
14	तेज सींग पि. फूल सींग जाति घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	646	1.18	0.47	
15	बिजेन्द्र बित्तू हल्के पिसरान तेज सींग घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	646/812	1.18	1.18	
16	धरमदास वल्द श्यामले साकिन सासा	भूमिस्वामी	657/3	0.36	0.16	
17	प्यारेलाल पि. श्यामले अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	653	0.09	0.09	
18	रामरानी जोजे प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	651/6	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	657/2	0.78	0.78	
19	बिदरू सींग पि. फूल सींग घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	654	0.57	0.57	
20	टीकाराम ग्याप्रसाद पिस. मोहनलाल सुनील यशवंत पिसरान नन्देलाल कुसुमरानी बेवा नन्देलाल रजनी पुत्री नन्देलाल अहिरवार सा. रजाखेड़ी	भूमिस्वामी	657/1	1.15	1.15	
21	भोपत सींग वल्द शंकर लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	658	0.24	0.12	
22	खिलान बौर अनंदा अर्जुन पिसरान परसादी तिली पार्वती ननीविन्ना जगरानी पुत्रिया परसादी सा. सासा	भूमिस्वामी	645	0.62	0.20	
योग:-			26 किता	9.76	8.31	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस

कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आवेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है। -

क्रमांक 28अ-82-16-17-3971,

मौजा खुर्द, पट. ह. नं.-69, तहसील बण्डा

चूँकि रागुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन क 16भाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्प्राग्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	खुर्द
4. पट.ह.नं.-	:	69
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	44.96 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	8
1	नन्नु जमना पिसरान खुमान सा. गौराखुर्द	भूमिस्वामी	138/2	0.03	0.03	
			139	0.57	0.57	
			141/1	0.09	0.09	
			141/2	0.09	0.09	
			142	0.47	0.47	
2	उमेदी देवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल	भूमिस्वामी	138/1	0.60	0.60	
3	मोती नंदराम पुनु विश्राम पि. काशीराम उमेदी देवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल नन्नु जमना पिस. बिहारी	भूमिस्वामी	141/3	0.01	0.01	
4	सोनू केशवेन्द्र पिस. अमरसींग सुखवती देवा अमरसींग सा. गोरा खुर्द	भूमिस्वामी	137/1	0.98	0.98	
5	जितेन्द्र भूपेन्द्र पिस. शिशुपाल सविता देवा शिशुपाल साकिन खुर्द	भूमिस्वामी	137/2	0.99	0.99	
6	मोती नंदराम पुनु विश्राम पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	140	1.07	1.07	
7	बसंत सिंह यल्द हम्मीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	143	1.74	1.74	
8	लच्छी सुंदर साहब ईश्वर सलकू पि. हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	145	0.01	0.01	
9	देव जानकी रमण जी मंदिर मौजा देह गुरु श्री राम बालकदास गुरु श्री अर्जुनदास प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	147	25.38	15.10	
			229	1.07	0.50	
			231	10.25	10.25	
			239	0.15	0.15	
			235	0.20	0.20	
			242	1.14	1.14	
			243	1.45	1.45	
			208	0.04	0.04	
			237	0.17	0.17	
			134	0.04	0.04	
			130	0.25	0.06	
10	धनीराम यल्द चुन्नीलाल सा. बगहौरीखुर्द	सेवा खातेदार	219	1.34	0.04	
11	लटोरी पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	222/1	0.07	0.03	
12	दयाराम तुलसीराम पि. शंकर	भूमिस्वामी	222/2	0.90	0.20	
			225	0.22	0.22	
13	शिवरानी जोजे परशोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	223	0.11	0.11	
			240/2	0.88	0.88	
14	हरीराम कोमल पिसरान मुलाम हल्ली देवा मुलाम छोटेलाल नंदराम पिता बारेलाल केशर पुत्री बारेलाल पिस. मुलाम	भूमिस्वामी	232	0.09	0.09	
15	मोहन यल्द मुल्ले सा. गौरा खुर्द सेवा खातेदार	सेवा खातेदार	234	0.32	0.32	
			236	0.08	0.08	
			238	2.69	2.69	
			239	0.49	0.49	

16	पुरुषोत्तम पि. कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	240/1	0.49	0.49
			241	0.17	0.17
17	दयाराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	245	0.02	0.02
			246	0.02	0.02
18	सोवत वल्द गनेश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	206/1	1.16	0.40
19	रामकुमार पि. बद्री प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	136	0.58	0.58
20	वीर सींग विजय सींग पि. सूरत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	131	0.38	0.08
21	राजकुमारी पति रल्ली अहिरवार पता पथरिया हाट सागर	भूमिस्वामी	132/1	0.76	0.76
22	रल्ली पिता हरीराम अहिरवार निवासी पथरिया हाट सागर	भूमिस्वामी	132/3	0.40	0.15
23	उदय सिंह वल्द राम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	133	1.66	1.66
24	अजमेर सिंह वल्द गनेश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	206/2	1.10	0.20
25	सीताबाई पति शंकर काछी साकिन देह	भूमिस्वामी	132/6	0.02	0.02
योग :-			45 किता	60.31	44.96

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8) 2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करके हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्र-विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सात दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 29अ-82-16-17-3969,

मौजा खुर्द, पट. ह. नं.-69, तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	बण्डा
	3. ग्राम	:	गोराखुर्द
	4. पट.ह.नं.-	:	69
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	334.06 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा ह. में	अर्जित रकबा है. में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कोदुलाल वल्द राजाराम नना वल्द महादेव दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम कुर्मी बाबूलाल कोमल राजेश संतोष पिस. रतनचंद पुत्री मुन्नी पुत्रियाँ रतनचंद राजेन्द्र देवेन्द्र अरविन्द्र आमंद वीरेन्द्र पिस. मोतीलाल कौशल्यारानी बेवा मोतीलाल जैन साकिन पचरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	745/1	1.85	1.85	
2	घरुली जगत पुत्रगण फुले संतोष अमोल अशोक पुत्रगण मुरलीधर राठौर		745/2	1.49	1.49	
3	अर्जित कुमार पि. मोतीलाल जैन निवासी ग्राम गौराखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	745/3	0.74	0.74	
		भूमिस्वामी	947/2	0.88	0.88	
4	संतोष पिता मुरलीधर राठौर साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	746/1	0.54	0.54	

5	धनीराम रामचरण सुदामा रामू आशाराम पिता सा. मिठू, मुकेश, भुरे पिता सा. धनश्याम सियारानी बेबा धनश्याम निवासी ग्राम गौराखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	746/2	0.04	0.04	L
6	घसीटे पिता फूले निवासी केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	746/4	0.53	0.53	
7	कलू वल्द रामचरण साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	746/3	0.54	0.54	
		भूमिस्वामी	1329/3	0.80	0.80	
8	रामकली बेबा हरप्रसाद हल्लेभाई बेबा हरप्रसाद साकिन गौराखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	747	0.76	0.76	
		भूमिस्वामी	748	0.03	0.03	
		भूमिस्वामी	749	0.06	0.06	
		भूमिस्वामी	750	0.59	0.59	
		भूमिस्वामी	958/1	0.01	0.01	
9	देवेन्द्र पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	751	0.44	0.44	
		भूमिस्वामी	752/2	0.08	0.08	
10	गोकल वल्द मन्नु अहिरवार निवासी गौराखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	752/1	0.95	0.95	
11	रामचरण झकन्द मुन्ना मन्नु पिस. मूलचंद कृष्णानंद विष्णु प्रसाद पिस. छोटेलाल प्रेमनारायण वल्द गोकुल साकिन नाहरमऊ नरहरि प्रसाद रामाधार बहमानंद सच्चिदानंद पिस. जयनारायण, रामकुमार रामविद्याल पिस. बंदीप्रसाद केशरबाई बेबा बंदीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	927/1	0.18	0.18	
		भूमिस्वामी	753	0.48	0.48	
12	बाबू पिता गुबन्दी अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	753/1	0.16	0.16	
13	महेश बल्द रामचरण राठीर निवासी केवलारी	भूमिस्वामी	753/2	0.32	0.32	
14	गोरिलाल पिता अठैया निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	754/1	0.32	0.32	
15	शीलाबाई पति रंछु अहिरवार नि. गौराखुर्द	भूमिस्वामी	754/2	1.20	1.20	
16	अमोल कमलापत पिस. धनुवा अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	755/1	0.08	0.08	
		भूमिस्वामी	756	0.08	0.08	
		भूमिस्वामी	758	0.64	0.64	
		भूमिस्वामी	776/1	0.25	0.25	
17	काशीराम जीवन निरपत पिस. चिन्नु निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	755/2	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	776/2	0.84	0.84	
		भूमिस्वामी	777	0.15	0.15	
18	भीकम पिता मिम्मा अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	755/3	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	776/3	0.46	0.46	
19	नरीबदास पिता मिम्मा अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	755/4	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	776/4	0.46	0.46	
20	परमानंद बल्द हरप्रसाद, रामकली वेवा हरप्रसाद निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	757	0.33	0.33	
		भूमिस्वामी	899	1.25	1.25	
		भूमिस्वामी	959/3	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	950	0.55	0.55	
21	महेश बल्द विश्वनाथ निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	865	0.42	0.42	
22	चौदा वल्द किशोरा निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	759	1.27	1.27	
23	राजेन्द्र देवेन्द्र अरविंद आनंद वीरेन्द्र पिस. मोतीलाल कैलाशरानी बेबा मोतीलाल जैन	भूमिस्वामी	760	0.56	0.56	
		भूमिस्वामी	761	0.37	0.37	

24	पे. वद अश्वभ कुमारसीन पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	762/1	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	868	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	894/1	1.44	1.44
		भूमिस्वामी	908/1	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	913	0.39	0.39
		भूमिस्वामी	914/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	892	0.52	0.52
25	सुरेन्द्र पिता बाबूलाल जैन साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	762/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	893	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	894/2	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	908/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	914/2	0.06	0.06
26	रामू पिता मिठू चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	763/1	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	798/4	0.13	0.13
27	रामचरण पिता मिठू साकिन देह	भूमिस्वामी	763/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	798/2	0.13	0.13
28	सुदामा वल्द मिठू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	763/4	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	798/3	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	973/2	0.55	0.55
29	आशाराम पिता मिठू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	763/5	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	798/5	0.13	0.13
30	शांतिबाई पति घनश्याम	भूमिस्वामी	763/6	0.05	0.05
31	रमेश भुब्ना पिता गोकुल इन्दु पिता मगन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	764	0.16	0.16
		भूमिस्वामी	765	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	766	0.47	0.47
		भूमिस्वामी	767	1.40	1.40
		भूमिस्वामी	918	1.10	1.10
		भूमिस्वामी	929/ 1381	0.22	0.22
32	नन्हेभाई पिता तुलसीराम कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	768/1	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	800/3	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/7	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	773/1	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	806/2	0.19	0.19
		भूमिस्वामी	813/3	0.30	0.30
33	लोकमन वल्द तुलसीराम कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	768/2	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	800/2	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/8	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	805/1	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	806/3	0.03	0.03
34	नारायण पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	768/4	0.31	0.31
		भूमिस्वामी	773/4	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	800/4	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/6	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	806/1	0.18	0.18

35	कोमल वल्द नना अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	769	0.48	0.48
		भूमिस्वामी	774	0.75	0.75
36	कलू वल्द राजाराम संतोष प्रीतम मुकेश पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	770	0.82	0.82
		भूमिस्वामी	771/2	0.72	0.72
37	बल्ले वल्द हल्कू निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	771/1	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	790	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	791	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	799	0.29	0.29
38	मुलाम सुंदर वल्द हलकाई निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	772	0.84	0.84
39	सीताराम पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	768/3	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	773/3	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	800/1	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/9	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	805/2	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	813/1	0.30	0.30
40	रामदीन पिता बाबूलाल निवासी छपरट	भूमिस्वामी	775	1.44	1.44
41	विजय अमोल पिता हल्कू राजबाई बेबा हल्कू गौंड निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	778	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	1054	0.87	0.87
42	घनीराम कोमल पिस. नना प्यारीबाई बेबा नना दशोदाबाई गौंदाबाई पुत्रियाँ नना अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	779	0.67	0.67
43	श्रीराम वल्द कूरे अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	780/1	0.84	0.84
		भूमिस्वामी	781	0.31	0.31
44	आष्टाराम अमोल वल्द मुरलीधर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	782	0.91	0.91
45	लखन शोभालाल पिस. कल्लेदी ब्रजेश अखिलेश पिस. कल्याण सरसुती रुकमणी ममता पुत्रियाँ कल्याण कौशल्या वेवा कल्याण कृष्णकांत नावा. अनिरागनी नावा. वल्द हरप्रसाद वली व खुद मों अनुराधा वेवा हरप्रसाद अरविंद श्यामशंकर पिस. भुवानीशंकर कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	784	1.07	1.07
		भूमिस्वामी	943	2.45	2.45
		भूमिस्वामी	961	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1083	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	925	1.40	1.40
		भूमिस्वामी	807	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	789	0.11	0.11
46	भोला वल्द ननेशा निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	780/2	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	780/ 1383	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	783	0.58	0.58
47	कोदूलाल पि. राजारामन उमाशंकर घनश्याम राजेश पिस. नंदू दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम लखन भवानीशंकर शोभालाल हरप्रसाद कल्याण पिस. कल्लेदी मगन नरेन्द्र पिस. दीपचंद वीरेन्द्र कुमार पि. कपूरचंद, चंद्रकुमार प्रवीण कुमार, रविकुमार नेमचंद मुलामचंद पिस. नंदकिशोर विमल सुरेश पिस. गोकल चंद्ररामाधार पिता बालचंद्र बाबूलाल उर्फ हरिनारायण पिता विश्वनाथ इन्द्राज पि. रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	785	0.90	0.90
48	सलकन वल्द बल्ले निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	786	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	792	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	793	0.68	0.68

49	छोटे लाल पि. धनीराम गुलाबबाई बेबा धनीराम अगूरीबाई बेबा हरप्रसाद अरविंद देवेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र पिस. हरप्रसाद निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	788	0.50	0.25
		भूमिस्वामी	896	0.78	0.78
50	मगन नरेन्द्र पि. दीपचंद्र वीरेन्द्र पि. कपूरचंद्र चंद्रकुमार मुलामचंद्र जेमचंद्र प्रवीण कुमार रविमुमार पिस. नंदकिशोर रूपचंद्र निर्मल कुमार विमल कुमार सुरेश कुमार पिस. गोकलचंद्र इन्द्रानी वेवा गोकलचंद्र साकिन देह	भूमिस्वामी	794	0.53	0.53
51	धनीराम वल्द मित्तू चदार साकिन देह	भूमिस्वामी	798/1	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	973/1	0.55	0.55
52	जगदीश बल्द शालकराम कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/1	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	802/1	0.16	0.16
		भूमिस्वामी	951/2	0.36	0.36
53	दयाशंकर पिता हरिदास कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/2	0.70	0.70
		भूमिस्वामी	802/2	0.47	0.47
		भूमिस्वामी	968/2	1.20	1.20
54	फूलचंद्र पिता रामसेवक कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/3	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	951/3	0.36	0.36
55	राजकुमार वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	801/4	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	951/4	0.35	0.35
56	ग्याप्रसाद वल्द पुटाई कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	927/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	928/2	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1060	0.77	0.77
		भूमिस्वामी	1239	1.23	1.23
		भूमिस्वामी	926	1.28	1.28
57	विमल कुमार वल्द गोकल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	933	1.21	1.21
58	हीराबाई पति इलीप अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	934/2	1.04	1.04
59	उमाशंकर घनश्याम राजेश पिता धरमदास उर्फ घरभू साकिन देह	भूमिस्वामी	935	1.63	1.63
		भूमिस्वामी	970	0.85	0.85
		भूमिस्वामी	1267	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1269	0.51	0.51
		भूमिस्वामी	1270	0.04	0.04
60	कुंजी पिता जुगरे निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	891	0.62	0.62
		भूमिस्वामी	936	1.26	1.26
61	राजबहादुरसींग वल्द राजेन्द्रसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1091	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	937	1.75	1.75
		भूमिस्वामी	938	0.53	0.53
		भूमिस्वामी	1076	2.45	2.45
		भूमिस्वामी	903	1.46	1.46
62	मजबूत मुन्ना तेज सिंह राजाराम पिता खिलान मंगल कर्नई गोपाल बहादुर कुसुमरानी वेवा बहादुर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	907	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	939	0.50	0.50

63	मोहन वल्लभ नन्हेलाल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	940/1	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	941	0.67	0.67
		भूमिस्वामी	981/1	0.58	0.58
		भूमिस्वामी	1256/1	0.09	0.09
		भूमिस्वामी	1257	0.53	0.53
64	लखनलाल शोभालाल पिता कंछेदी कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	942	1.37	1.37
65	बिहारी प्रमोद संतोष पिता मिट्टू सहोदरा बाई वेवा मिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	944/1	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	945/1	0.33	0.33
66	बालचंद वल्लभ सटोले कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	944/2	0.27	0.27
		भूमिस्वामी	945/2	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	864	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	1251	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1252	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1254/2	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1255/1	0.09	0.09
		भूमिस्वामी	1256/3	0.07	0.07
67	विह्वनाथ वल्लभ छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	944/3	0.27	0.27
		भूमिस्वामी	945/3	0.33	0.33
68	प्रकाश इन्द्राज पिता सेवक सहोदरा वेवा सेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	944/4	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	945/4	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	945/5	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	997/1	0.07	0.07
69	सेवक विह्वनाथ वल्लभ छोटेलाल मिट्टू बालचंद वल्लभ सटोले सिरदार बहु बेबा सटोले साकिन देह	भूमिस्वामी	944/5	1.03	1.03
70	नन्हेलाल पिता महादेव कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	946/2	0.93	0.93
		भूमिस्वामी	1082/2	0.21	0.21
		भूमिस्वामी	1293/1	0.09	0.09
71	कोट्टलाल बल्लभ राजाराम निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	946/1	0.68	0.68
		भूमिस्वामी	946/3	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	981/2	0.59	0.59
		भूमिस्वामी	1293/2	0.08	0.08
72	विनोद कुमार वल्लभ दशरथ महेन्द्र कुमार वल्लभ गोवर्धन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	947/1	3.35	3.35
73	काशीराम दामोदर राजेन्द्र पिता भगवानदास हरीबाई बेबा भगवानदास मोहन भुजबल पिसराम गरीबे सुमतरानी वेवा गरीबे कुर्मी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	948	1.10	1.10
74	परमानंद हल्केआई पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	949	1.35	1.35
		भूमिस्वामी	867	0.68	0.68
		भूमिस्वामी	1335	3.11	3.11
		भूमिस्वामी	897	0.17	0.17
75	रानीबहू जोजे हरिदास निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	951/1	1.08	1.08
76	इन्देव वल्लभ महादेव हरिशंकर बल्लभ वीकल कुर्मी तुलसाबाई बेबा महादेव निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	952	3.50	3.50
		भूमिस्वामी	895	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	909	2.05	2.05

77	बभ्रू सिंह हरिराम मिवरू लखन पिता गुविन्दा रम्बो वेवा गुविन्दा निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	955	1.06	1.06
78	रामकली पतिन हरप्रसाद कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	957	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	958/2	0.16	0.16
79	ईश्वरप्रसाद वल्द गया प्रसाद	भूमिस्वामी	846	0.63	0.63
80	गोपाल वल्द लक्ष्मन कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	959/2	0.80	0.80
81	भवानी शंकर पिता कच्छेदी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	960/1	0.41	0.41
82	द्यालकराम वल्द लक्ष्मन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	960/2	0.80	0.80
83	जगरानी जोजे फूले सा. केवलारी	भूमिस्वामी	960/3	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1329/4	0.60	0.60
84	भगवानदास पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	960/4	0.80	0.80
85	सेवक वल्द लक्ष्मन कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	962/1	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	842/2	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	836/2	0.99	0.99
86	कल्याण मारायण पिता खूबसींग प्रहलाद पिता लक्ष्मी, चमेली पुत्री लक्ष्मी, पिस. खूबसींग हरीसींग कोमल पंचम पिस. परसराम, बतीबाई पुत्री परसराम रूपरानी बेबा परसराम संतोषरानी बेबा जाहर प्रहलाद परम पिता जाहर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	966	0.58	0.58
87	किष्ण सिंह वल्द सुरतसिंह सा. बग्हीरीखुर्द गजराज सुजान सिंह वीरज सिंह पिस. वीरज सिंह राजपूत हमीरसिंह पिता महाराज सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	967	1.15	1.15
88	कैलाश वल्द भगवानदास कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	968/1	1.20	1.20
89	श्री देव राधे जी मंदिर बाकै मीजा खुर्द मु. श्री रामबालकदास गुरू श्री अर्जुनदास भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महीदय सागर	भूमिस्वामी	969	2.40	2.40
		भूमिस्वामी	975	0.70	0.70
		भूमिस्वामी	977	0.25	0.25
90	अनंतराम पिता हरिशंकर इन्द्रदेव पिता महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	971	0.86	0.86
		भूमिस्वामी	901	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	900	1.60	1.60
		भूमिस्वामी	972	1.06	1.06
91	धनीराम वल्द नन्ना अहिरवार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	974	1.09	1.09
92	मिवरू हरिराम लखन पिता गुविन्दा निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	978	1.19	1.19
93	श्री दरबारी पिता दौलत निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	978	1.19	1.19
94	प्रकाश पिता सेवक बालचन्द्र पिता सटोले विश्वनाथ पिता छोटेलाल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	849/2	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	866/2	0.07	0.07
95	सुजानसींग वीरिन्द्र सींग पिस. वीरज सींग निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1002	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1003	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1005	0.96	0.96
96	श्री अम्बिका प्रसाद दुबे वल्द कुंजबिहारी दुबे साकिन देह	भूमिस्वामी	459	1.06	1.06
		भूमिस्वामी	460	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	461	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	462	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	463	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1016	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	983	0.96	0.96

97	सुभान खां उस्मान खां पिस. हसन खां साकिन देह	भूमिस्वामी	1006	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1007	0.43	0.43
		भूमिस्वामी	1008	0.35	0.35
98	हरिनारायण मणीराम पिस. शैलानिया तेजाबाई वेवा शैलानिया साकिन देह	भूमिस्वामी	995	0.17	0.07
		भूमिस्वामी	1040	0.67	0.67
		भूमिस्वामी	1041	0.86	0.86
		भूमिस्वामी	1047	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	1168	0.70	0.45
		भूमिस्वामी	1170	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1171	0.73	0.73
		भूमिस्वामी	1172	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	1174	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	1187	0.95	0.95
		भूमिस्वामी	1188	0.05	0.05
99	कौडूलाल वल्द राजाराम नन्ना बल्द महादेव दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1001	0.15	0.15
100	यशवंत सिंह पिता सरमन सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1004/1	0.47	0.47
101	नजरान सिंह वल्द धीरज सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1004/2	0.48	0.48
102	जगदीश अमान उत्तम पिस. भगवानदास बडी विन्ना पुत्री भगवानदास निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	996	0.31	0.15
		भूमिस्वामी	999	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	1013	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	1014	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1015	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1019	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1020	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1011	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	1012	0.16	0.16
103	राजकुमार जयकुमार पिता रामदास साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	986	0.83	0.83
		भूमिस्वामी	985/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1066/2/2	0.10	0.10
104	रामकुमार पिता बन्नी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	987	0.77	0.77
105	शोभालाल भगवानदास अरविंद रामू पिस. उमेदी बाई बेबा भुजबल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1009	0.18	0.18
106	बोदनसींग तेजसींग पिता छटेलाल विश्रामसींग पिता रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	980	1.45	1.45
107	सोनू केशवेंद्र पिता मुन्ना सिंह सुकवती बेबा मुन्ना सिंह उर्फ अमर सिंह राजपूत निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1023/1	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	1037	0.46	0.46
		भूमिस्वामी	1030/2	0.17	0.17
108	धनीराम परशोत्तम पिता घणू नत्थी पुत्री घणू वर्षा ज्योति पुत्रियां श्रीराम सेन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1027/1	0.75	0.75
		भूमिस्वामी	1066/1	0.42	0.42
109	जयनारायण पिता हरगोविंद साकिन देह	भूमिस्वामी	1017	0.11	0.11

110	अशोक जगदीश पिता गुलजार नत्थू पिता रज्जी रूपसींग देवीसींग मुन्ना संतोष गनेश प्रीतम पिस. भवूदसींग सुवलसींग पिता गुमान दुर्गा दुल्ली पुत्रियां गुमान इंदलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीप सिंह, चंद्रानी वेवा ऊदलसिंह, भगवान सिंह पिता ऊदलसिंह, अशोक, रगवीर, महेश पिता नारायण, जोगाबाई वेवा नारायण, कुलदीप, राजदीप पिता कल्याण सिंह, बसंतसिंह, तेजसिंह पिता हम्मीरसिंह, नत्थूसींग, घूमनसींग पिता शंकरसिंह, सावित्री वेवा अनारसींग, दीपा पुत्री अनारसींग, भूपेन्द्र, जितेन्द्र, पिता शिशुपाल सिंह, सोनू, केशवेन्द्र पिता मुन्नासिंह, सुकवती वेवा मुन्नासिंह, अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्वसिंह, तेजसिंह पिता भबूदसिंह, छत्रपालसिंह, हरपालसिंह, ओमपालसिंह पिता धर्मसिंह, रवि, पवन पिता पितृपाल सिंह, साधना वेवा पितृपाल सिंह अंबिका प्रसाद वल्द कुजबिहारी, नरहरि प्रसाद, रामाघार, बहममानंद, लखिवानंद पिता जयनाथरायण, रामकुमार पिता बहीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1018	0.62	0.62
111	हल्दु उर्फ युसुफ भददू उर्फ हस्माइल गुइहू उर्फ रसीद रमजान अहम उर्फ आदम पिस. हजरत खॉं रुपाबाई बे. हजरत खॉं निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1042	0.69	0.69
112	रूपाबाई बेबा हजरत निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1043	0.64	0.64
113	विशाल सिंह वल्द गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1048/1	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1052/1	0.32	0.32
114	हजरत पिता खेन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	984	0.95	0.95
		भूमिस्वामी	1066/2/1	0.05	0.05
115	इन्दानी उर्फ कालीबाई बेबा चुनमुन बसौर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	985/2	0.92	0.92
116	घूमन सिंह वल्द शंकर सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1033	0.27	0.27
117	भूपेन्द्र जितेन्द्र पिता शिशुपाल सविता बाई बेबा शिशुपाल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1023/2	0.31	0.31
		भूमिस्वामी	1030/1	0.16	0.16
		भूमिस्वामी	1031	0.47	0.47
		भूमिस्वामी	1025	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1036	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1038	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	1039	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1029/1	0.65	0.65
		भूमिस्वामी	1022	0.34	0.34
118	बसंत सिंह मुन्ना सिंह पिता हम्मीर सिंह सावित्री बेबा अनार सिंह दीपा पुत्री अनार सिंह सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविता बेबा शिशुपाल सिंह, घूमनसिंह, नत्थूसिंह पिता शंकरसिंह, राजदीप पिता कल्याण, शारदा वेवा कल्याण, महेश, अशोक, रगवीर पिता नारायण सिंह, जोगाबाई वेवा नारायण सिंह, सावित्री वेवा सुरेन्द्रसिंह, अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह, तेजसिंह पिता भबूदसिंह, छत्रपालसिंह, ओमपाल सिंह, हरपालसिंह पिता धर्मसिंह, रवि, पवन पिता पितृपाल सिंह, साधना वेवा पितृपाल सिंह	भूमिस्वामी	1032	0.37	0.37
		भूमिस्वामी	1098	0.58	0.58
		भूमिस्वामी	1048/2	0.33	0.33
119	गोविन्द सिंह वल्द गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1048/2	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1052/2	0.32	0.32

120	प्रेमनारायण शिवराज नीरज पिस. गुलाबसींग चन्द्रानी बेबा गुलाबसींग कमला प्रियंका पुत्रिया गुलाबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1050	0.04	0.04
121	गफूर बी पुत्री कोटू खॉ साकिन लखरौनी	भूमिस्वामी	1053	0.32	0.32
122	हरप्रसाद वल्द परमू निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1064/1	0.74	0.74
123	बृजरानी बेबा नन्नूसींग कमला पुत्री नन्नू निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1064/2	1.31	1.31
124	परमू वल्द मूलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1065/1	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	997/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1046	0.69	0.69
		भूमिस्वामी	1099/1	0.64	0.64
		भूमिस्वामी	1097/1	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	1181	0.31	0.31
125	राजदीप पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1102	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	1103	3.51	3.51
		भूमिस्वामी	1169	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	998	0.12	0.12
126	बसंत सिंह, मुब्बा सिंह पिता हम्मीरसिंह सावित्री वे. अनसरसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविताबाई वेवा शिशुपाल सोनू केशवेन्द्र पिता मुब्बासिंह सुकवती वेवा मुब्बासिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्रसिंह अजय गब्बर पिस. सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिता गंधर्वसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह पि. गंधर्वसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान शारदा वेवा कल्यान घुमनसिंह नत्थूसिंह पिस. शंकरसिंह महेश अशोक रगवीर पिस. नारायणसिंह जोगोबाई वेवा नारायण निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1088	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1089	0.66	0.66
127	सुवलसींग वल्द गुमानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1073	0.79	0.79
		भूमिस्वामी	1077/1	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1084	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1086	0.41	0.41
		भूमिस्वामी	1079	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	928/1	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	929	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	931	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	1209	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1211	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	1061	0.52	0.52
128	रामविशाल पिता परम साकिन देह	भूमिस्वामी	1066 /2/3	0.27	0.27
		भूमिस्वामी	1027/2	0.74	0.74
129	अलादीन खॉ वल्द भूरे खॉ साकिन देह	भूमिस्वामी	1067	0.70	0.70
		भूमिस्वामी	1069	0.80	0.80
130	वंशी पिता अजुडा साकिन देह	भूमिस्वामी	1068/1	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1068/2	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	1071	0.60	0.60

131	छेदीबाई जोजे मुन्ना खों निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1070	0.43	0.43
132	इन्दलसिंह वल्द महीप सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1072/1	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1081/1	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	1087/1	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1085	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	919/1	0.33	0.33
133	मुन्ना सिंह पिता महीपसींग गौड निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1072/2	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1077/3	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1078	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1087/2	0.31	0.31
		भूमिस्वामी	919/2	0.32	0.32
134	रेखा देवा ऊदल सिंह गौड निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1074	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	1077/2	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1080/1	0.28	0.28
		भूमिस्वामी	1080/2	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	1062	0.53	0.53
135	धूमन सिंह नत्थू सिंह पिस. शंकर सिंह राजपूत निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1075	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1034	1.39	1.39
		भूमिस्वामी	1035	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1044	0.08	0.08
136	सचिन पिता अजित जैन मि. शाहपुर	भूमिस्वामी	1082/1	0.14	0.14
		भूमिस्वामी	745/4	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	947/5	0.40	0.40
137	राजाराम पिता मूलू साहू	भूमिस्वामी	1092	0.46	0.46
		भूमिस्वामी	1058	0.62	0.62
138	राजदीप पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1169	0.45	0.45
139	राजाराम पिस. मूलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1095	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1097/2	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	997/2	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1096	0.69	0.69
140	सरोज जोजे हरपाल सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1105	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1159	0.94	0.94
141	बसंत सिंह मुन्ना सिंह पिस. हम्मीरसिंह नारायण सिंह बल्द तखत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1109	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1111	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	1122	0.14	0.14
		भूमिस्वामी	1125	0.99	0.99
		भूमिस्वामी	1128	0.99	0.99
142	छत्रपालसिंह ओमपाल हरपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपालसिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह वल्द भवृतासिंह गजराज सिंह सरमनसिंह वीरेन्द्रसिंह सुजानसिंह पिस. वीरजसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1112	0.19	0.19
		भूमिस्वामी	1113	0.34	0.34
143	खिलान बेबा मुन्ना मूरत पि. मुन्ना पप्पी पुत्री मुन्ना गौड साकिन देह	भूमिस्वामी	1114	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	1130/1	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1152	0.45	0.45

144	कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान सिंह शारदाबाई वेवा कल्यानसिंह महेश अशोक रगवीर पिस. नारायण जोगोबाई वेवा नारायण सिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्र अजय गब्बर पिस सुरेन्द्र करनसींग पिस. गंधर्वसींग बसंतसिंह वल्द हमीरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1116	0.41	0.41
		भूमिस्वामी	1117	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	1155	0.23	0.23
145	कुलदीप, राजदीप पिस. कल्यानसींग, शारदाबाई वेवा कल्यानसींग, महेश, अशोक, रगवीर पिता नारायण सींग, जोगोबाई वेवा नारायणसींग, सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह, अजय, गब्बर पिता. सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्व सींग, बसंतसींग पिता मुन्नासींग पिस. हमीरसींग, वीरसींग वल्द नारायण सींग, रूपसींग, हमीरसींग, तेजसींग पिस. भबूदसींग, छत्रपाल, हरपाल, ओमपाल, पिस. धरमसींग, रवि, पवन पिस पितृपाल, साधना वेवा पितृपाल सिंह, उबलसिंह, इन्दलसिंह, मुन्नासिंह पिता महीपसिंह, सुबलसिंह वल्द गुमान सिंह, दुर्गा, दुल्ली पुत्रिया गुमान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1118	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	1156	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1160	0.30	0.30
			1161	0.13	0.13
146	मुन्नासिंह उर्फ तेजसिंह पिता हमीरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1119	1.31	1.31
		भूमिस्वामी	1133/1	0.58	0.58
		भूमिस्वामी	1134	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1135	0.95	0.95
		भूमिस्वामी	1136	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1137	0.16	0.16
147	परशोत्तम वल्द कीरत छोटीबहू वेवा कीरत बहादुर व. मांगू भवूतसींग व. जगतसींग सुवल वल्द गुमानसींग दुर्गा रल्ली पुत्री गुमान महीपसींग व. दम्मु मानसींग व. खूबसींग नत्थू व. रज्जी सजली वेवा रज्जी हमीर नारनसिंह नवलसिंह पिस. तखतसिंह अनारसिंह शिशुपालसिंह पिस. जगतसिंह सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह, बसंतसिंह पिता हमीरसिंह धरमसिंह वल्द भवूतसिंह मूलचंद कृष्णानंद विष्णु पिस. छोटेला रामनारायण व. गोकल गोरीबहू वेवा विन्दावन फूलबाई पुत्री घूमसींग नत्थूसींग पिस. शंकरसींग सुमत्राबाई वेवा शंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1120	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1121	0.43	0.43
148	सुवलसिंह वल्द गुमानसिंह परशोत्तम पि. कीरत सिंह मुन्ना सिंह तेजसिंह राजाराम मजबूतसिंह पिस. खिलान सिंह मंगल कनई गुपाल पिस. बहादुर कुसुमरानी वे. बहादुर भगवानसिंह पि. उदलसिंह इंदलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीपसिंह लक्ष्मी वेवा खूबसिंह नत्थू पि. रज्जी बसंतसिंह मुन्नासिंह पिस. हमीरसिंह घुमनसिंह नत्थूसिंह पिता शंकरसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह शारदाबाई वे. कल्यानसिंह महेश अशोक रगवीर पिस. नारायणसिंह जोगोबाई वे. नारायणसिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह साविता वेवा शिशुपालसिंह सावित्री वेवा अनारसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह सोनू केशवेन्द्र पिस. मुन्ना सिंह सुखवती वेवा मुन्नासिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह अजय गब्बर पिस. सुरेन्द्र करनसिंह पिता गंधर्व सिंह छत्रपालसिंह परपालसिंह ओमपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना वेवा पितृपाल सिंह तेजसिंह	भूमिस्वामी	1127	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1127	0.03	0.03

	पि. भवूतसिंह साकिन देह				
149	छत्रपालसिंह ओमपाल सिंह हरपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह वल्द भवूतसिंह सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह मुन्ना सिंह वल्द हम्मीरसिंह वीरसिंह वल्द नारायणसिंह राजपूत सुबल सिंह वल्द गुमानसिंह इन्दल सिंह मुन्नासिंह पिस. महीपसिंह भगवानासिंह वल्द उदलसिंह चन्द्ररानी बेबा उदल सिंह गौड साकिन देह	भूमिस्वामी	1123	0.09	0.09
		भूमिस्वामी	1138	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1141	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1144	0.02	0.02
150	बसंत सिंह वल्द हम्मीरसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1124/1	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1131	0.72	0.72
		भूमिस्वामी	1133/2	0.58	0.58
151	बसंतसिंह मुन्ना सिंह पिस. हम्मीरसिंह नाराज सिंह पिता तखत सिंह सुरेन्द्र सिंह करन सिंह पिस. गंधर्व सिंह सुवलसिंह वल्द गुमानसिंह भगवानसिंह पिता उदलसिंह चंद्रानी वेवा उदलसिंह इन्दलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीपसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1126	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1132	0.62	0.62
152	रवि कुमार पवन कुमार पिस. पितृपाल साधना वेवा पितृपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1139	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1140	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1142	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1143	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1145	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1146/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1147	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1153/1	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1153/3	0.27	0.27
153	शारदा वे. छत्रपाल वर्षा वा. रिमझिम नावा. त्रेधा नावा. पि. छत्रपाल वली माँ शारदा वेवा छत्रपाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	1146/1	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1148/1	0.41	0.41
		भूमिस्वामी	1149/1	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	1153/4	0.03	0.03
154	ओमपाल सिंह वल्द धरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1148/2	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1153/2	0.67	0.67
155	हरपाल सिंह पिता भवूतसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1149/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1150	0.64	0.64
156	छत्रपाल सिंह ओमपाल हरपाल सिंह पिस. धरम सिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना बेबा पितृपाल तेज सिंह वल्द भवूतसिंह महेश, अशोक, रगवीर पिता नारायण, जोगोबाई वेवा नारायण, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह बसंतसिंह पिता हम्मीर सिंह, सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह, अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, कुलदीप, राजदीप पिता कल्याण सिंह शारदा बाई वेवा कल्याणसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1151	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	1154	0.62	0.62
		भूमिस्वामी	1158	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	1161/1382	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1110	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1115	0.31	0.31
157	सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह रूपरानी बे. गंधर्व सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1157	0.26	0.26
158	नरेन्द्र पिता मोहन सिंह घोषी कुलदीप राजदीप पिस. कल्याण सिंह शारदाबाई वे. कल्याण सिंह नवल सिंह वल्द तखत सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1166	0.45	0.45

159	गब्बरसिंह पिस. सुरेन्द्र सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/1	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1163/1	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1100/1	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1101	0.07	0.07
160	करनसिंह वल्द गंधर्व सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/2	1.00	1.00
		भूमिस्वामी	1163/2	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1100/2	0.30	0.30
161	कुलदीप राजदीप पिस. कल्याण सिंह शारदाबाई बेबा कल्याण सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1164/2	0.19	0.19
		भूमिस्वामी	1165/2	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	1099/2	0.63	0.63
162	राजाराम पिस. मूलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1178	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	1179	0.26	0.26
163	राजेश करन मनेश पिस. गुमना शारदा बेबा गुमना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	1180/1	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	1182/1	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	1214/1	0.25	0.25
164	शीलरानी पति कुंजी साकिन रुसल्ला	भूमिस्वामी	1180/2	0.26	0.26
		भूमिस्वामी	1182/2	0.21	0.21
165	लटोरा पुत्र मने अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	1214/2	0.36	0.36
166	रामदास वल्द चेत अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	1183/1	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	1184	0.14	0.14
		भूमिस्वामी	1185	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1186	0.96	0.69
		भूमिस्वामी	1195	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	1196	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1197	0.22	0.22
167	अमान वल्द भगवानदास खगार साकिन देह	भूमिस्वामी	1189	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1207	1.50	1.50
		भूमिस्वामी	1208	0.96	0.96
		भूमिस्वामी	1232	0.40	0.40
168	वनमाली रतीराम प्रकाश पिस. भदई साकिन देह	भूमिस्वामी	1190	0.14	0.14
		भूमिस्वामी	1191	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	1194	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1183/2	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	1292/1	0.53	0.53
169	वनमाली वल्द भदई साकिन देह	भूमिस्वामी	1192	0.79	0.79
		भूमिस्वामी	1224/1	0.80	0.80
170	प्रेमकुमार पिता व्यापसाद गंगाराम नावा. वल्द रामदास वली व स्वयं मों सीतारानी वेवा रामदास	भूमिस्वामी	1201/2	0.10	0.10
171	गगन वल्द वनमाली साकिन देह	भूमिस्वामी	1199	0.85	0.85
		भूमिस्वामी	1200	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1201/1	0.09	0.09
		भूमिस्वामी	1202	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1203	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1204	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1230	0.41	0.41

		भूमिस्वामी	1236	0.16	0.16
172	दशरथ गोवर्धन पिस. रामदयाल ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1229	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1205	0.45	0.45
		भूमिस्वामी	1227/1	0.49	0.49
		भूमिस्वामी	1227/3	0.24	0.24
173	काशीराम भुजबल पिस. बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	1212/1	0.29	0.29
174	विश्राम वल्द काशीराम साहू साकिन देह	भूमिस्वामी	1212/2	0.28	0.28
175	सविता पति विशाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1215/1	1.86	1.86
176	रचना पति गोविन्द सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1215/2	1.87	1.87
177	गंगाराम वल्द रामदास सीतारानी बेबा रामदास कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1210	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1216	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	875	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	921	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	930	0.77	0.77
		भूमिस्वामी	890	1.32	1.32
178	सुदामा पिता कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/1	0.28	0.28
179	गोविन्द सिंह विशाल सिंह पिस. गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/2	0.28	0.28
180	जशरथ वल्द रघु कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/3	0.27	0.27
181	भागबाई बेबा भगवानदास पुष्पेन्द्र हरीदास बन्ती नावा. पिस. भगवानदास बली माँ भागबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/4	0.28	0.28
182	हमरतीबाई पति गधर्व साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/5	0.28	0.28
183	विन्द्रावन वल्द रघु कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1217/6	0.28	0.28
184	किशोर वल्द नथू साकिन देह	भूमिस्वामी	1218/1	0.26	0.26
185	कमलेश वल्द नथू साकिन देह	भूमिस्वामी	1218/2	0.25	0.25
186	अरविन्द वल्द फूलसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1219	1.65	1.65
187	मुकेश रामकेश नावा. पिस. सोनी वली माँ सियाबाई कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1218/4	0.50	0.50
188	रमेश राजेन्द्र देवेन्द्र पिस. सुक्का अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	1221	1.19	1.19
189	रामकुमार पिता बंदी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1222	0.99	0.99
190	जवाहर जयहिन्द पिस. लखनलाल बजेश अखिलेश पिस. कल्याण श्यामशंकर अरविन्द पिस. भवानीशंकर कृष्णकांत नावा. पिस. हरप्रसाद शोभालाल पि. कल्लेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	1223	1.77	1.77
		भूमिस्वामी	1250	1.53	1.53
		भूमिस्वामी	962/2	0.80	0.80
191	पुष्पेन्द्र कुमार पि. वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	1224/2	1.29	1.29
		भूमिस्वामी	1272/1	0.71	0.71
192	भागबाई बे. रमदीना सकुन किरन पुत्रिया रमदीना साकिन देह	भूमिस्वामी	1225	1.22	1.22
193	खुनिया बेबा थोवन साकिन देह	भूमिस्वामी	1226	0.40	0.40
194	बिहारी प्रमोद संतोष पिस. मिठू सहोदराबाई वेवा मिठू साकिन देह	भूमिस्वामी	1227/2	0.50	0.50

195	प्रेमकुमार पि. ग्या प्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1228	2.84	2.84
		भूमिस्वामी	1249	1.54	1.54
		भूमिस्वामी	1263	0.82	0.82
		भूमिस्वामी	1264	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1265	0.81	0.81
		भूमिस्वामी	1237	0.66	0.66
196	श्यामशंकर अरविन्द पिस. भुवानीशंकर वल्द भुदई जवाहर जयहिन्द नावा. पिस. वली लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	1234	0.61	0.61
197	मिहीलाल भगवानदास पिस. कमल अहिरवार पता सा. लखनी	भूमिस्वामी	1235	1.31	1.31
198	दयाशंकर पिता हरिदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास मुन्ना सुरेश पिस. गोकल इन्द्राणी बेबा गोकल चपाबाह चमेली पुत्रियां गोकल इन्द्राणी बेबा रामकृष्ण पिता प्रेमकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	1240	0.72	0.72
		भूमिस्वामी	1241	0.32	0.32
199	रूपचंद वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1242/1	0.21	0.21
		भूमिस्वामी	1243	1.54	1.54
200	दीपचंद वल्द रूपचंद साकिन रामपुरा सागर	भूमिस्वामी	1242/2	0.71	0.71
		भूमिस्वामी	1247	1.05	1.05
201	निर्मल्य पिता दशरथ गौंड साकिन शाहपुर	भूमिस्वामी	1244	0.73	0.73
		भूमिस्वामी	1245	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1246/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1285	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1286	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1291	1.05	1.05
		भूमिस्वामी	982	0.71	0.71
202	इन्द्रानी पुत्री पुन्टे पति गजराज साकिन पातरेकोटा	भूमिस्वामी	1246/1	0.39	0.39
203	कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	1248	0.68	0.68
		भूमिस्वामी	1272/2	0.44	0.44
204	विश्वनाथ व. छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1253	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1254/1	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	1256/2	0.55	0.55
205	ब्रजेश व. अखलेश नावा. पिस. व बली कल्याण शोभालाल हरप्रसाद पिस. कच्छेदी कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1255/2	0.35	0.35
206	कुंजीलाल पिता खिलान साकिन देह	भूमिस्वामी	1258	0.58	0.58
207	कमल पिसरान पुनऊ राजरानी बेबा कनऊ हनमतसींग पिता खुमानसींग अवधरानी वेवा खुमानसींग साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1273	1.00	1.00
		भूमिस्वामी	1274	0.16	0.16
		भूमिस्वामी	1277	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1280	1.07	1.07
		भूमिस्वामी	1289	1.00	1.00
		भूमिस्वामी	1290	1.06	1.06
		भूमिस्वामी	1297	0.55	0.55
		भूमिस्वामी	1356	0.56	0.56
		भूमिस्वामी	1362	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1363	0.24	0.24

7

208	पद्मलख्यान पिस. प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1260	0.80	0.80
209	बनीराम उमराव सुंदर रामचरण हरीशंकर द्वारका पिस. जगन्नाथ सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1261	0.59	0.59
210	गजराज पिता पुष्के साकिन देह	भूमिस्वामी	1262	0.10	0.10
211	राजेन्द्र कुमार महेन्द्र पिस. खूबचन्द्र साकिन मझगुवा	भूमिस्वामी	1266	0.46	0.46
		भूमिस्वामी	1271/1	0.81	0.81
212	मिहीलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1271/2	0.40	0.40
213	हरीसींग लटकनसींग पिस. काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1276	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	1278	0.54	0.54
		भूमिस्वामी	1359/1376	0.43	0.43
214	हनमतसींग पिता खुमानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1279	0.64	0.64
		भूमिस्वामी	1281	0.75	0.75
		भूमिस्वामी	1282/1	0.14	0.14
		भूमिस्वामी	1357/1	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1370/1	0.15	0.07
215	सन्जु लटोरे पिस. पकू सुमतरानी बेबा पकू कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1282/2	0.88	0.88
		भूमिस्वामी	1283	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1357/2	0.04	0.04
216	ईश्वरदास मुकेश पद्म पिस. हनमतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1287	1.30	1.30
		भूमिस्वामी	1288	0.07	0.07
217	भरोसा वा. मडदीना नावा. पिता व बली रम्भू पता सा. बूढाखेरा	भूमिस्वामी	1292/2	0.53	0.53
218	बोदनसींग तेणसींग पिस. छोटेलाल विश्राम सींग पिता रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1294	0.72	0.72
219	चिंता दुर्गा रम्भू पिता कडोरा घारीबहू बेबा कडोरा गंधर्व बाई पुत्री तिनऊ साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1295	0.29	0.29
220	अनंतराम वल्द रतीराम कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1296	0.21	0.21
221	मोती वल्द उद्देत कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1299/1	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1300/1	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1325/2	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1365/1	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1260/1	0.16	0.08
222	बद्री पिता उद्देत कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1299/2	0.17	0.17
		भूमिस्वामी	1300/2	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1355/3	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	1365/2	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1325/4	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1360/2	0.17	0.08
223	परषोत्तम वल्द कमल कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1301	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	1302	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1325/1	0.28	0.28
		भूमिस्वामी	1364/1	0.24	0.24
224	मलखान वल्द पद्म कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1304	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	1309	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1324	0.43	0.43
		भूमिस्वामी	1355/2	0.48	0.48

225	श्यामलाल पिता धीरे सोनेलाल प्रेमनारायण पिता श्यामलाल	भूमिस्वामी	842/1	0.09	0.09
226	जमनाप्रसाद नावा. वल्द बली दयाशंकर वल्द हरीदास कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	842/3	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	836/1	0.99	0.99
227	दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी वेवा हरीदास साकिन देह	भूमिस्वामी	843	1.11	0.55
228	इन्द्रदेव वल्द महादेव हरिशंकर वल्द धोकन कुर्मी तुलसाबाई बेबा महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	847	0.68	0.34
229	परमानंद नावा. वल्द व बली हरप्रसाद वल्द भागीरथ रामकली जोजे हरप्रसाद इन्द्रदेव नावा. वली महादेव वल्द धोकन अनंतराम नावा. वल्द व वली हरिशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	848	0.34	0.34
230	सुदामा पि. कलू वतीबाई वे. शिवराम कमलेश महेश गोविंद पि. शिवराम राजकुमारी पुत्री शिवराम सेन साकिन देह	भूमिस्वामी	849/1	0.36	0.12
		भूमिस्वामी	866/1	0.21	0.21
231	अमान पिता अजुद्री साकिन देह	भूमिस्वामी	803/1	0.39	0.39
		भूमिस्वामी	804/1	0.41	0.41
232	श्याम पिता अजुद्री साकिन देह	भूमिस्वामी	803/2	0.82	0.82
233	कलू पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	804/2	0.63	0.63
234	रतीराम सरमन हरीराम पिस. जोगीलाल भुवानीबाई चिखाबाई पुत्री जोगीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	808	1.63	1.63
		भूमिस्वामी	809	1.67	1.00
		भूमिस्वामी	810	1.41	0.70
235	प्यारीबाई जोजे अजुद्री देवसींग वल्द अजुद्री साकिन देह	भूमिस्वामी	821	0.24	0.24
236	इन्द्र वल्द महादेव तुलसीबाई बेबा महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	823	1.25	0.93
237	जनकरानी जो. चतुर्भुज कुर्मी पुत्री ईश्वरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	831	0.71	0.52
		भूमिस्वामी	841	2.77	2.50
238	शालकराम पिता लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	832	1.41	1.00
239	दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास साकिन देह	भूमिस्वामी	833	1.56	1.20
240	गोपाल पुत्र लक्ष्मण कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	834	0.97	0.97
241	दयाशंकर पिता हरीदास दीपा पुत्री हरीदास कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	835	1.18	1.18
		भूमिस्वामी	838	0.41	0.41
242	भगवानदास पिता लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	837	0.27	0.27
243	राजेश पिता ईश्वर प्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	839	0.10	0.10
244	ओमप्रकाश पिता ईश्वर प्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	840	0.39	0.39
245	प्रकाश, इन्द्राज पिस. सेवक सहोद्रा बाई बेबा सेवक	भूमिस्वामी	797/1	0.07	0.07
246	पिस पिता अजीत जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	797/2	0.19	0.19
247	बालचंद्र पिता पंचमा पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1332/2	0.15	0.15
		भूमिस्वामी	1333	0.21	0.10
248	मनोहर पिता गोविन्द सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1355/1	0.32	0.32
249	फूले पिता कलुदी पता सा. फेवलारी	भूमिस्वामी	1336/1	0.44	0.44
250	अच्छे लाल पिता चेतु धानक साकिन देह	भूमिस्वामी	1329/2	0.75	0.75
251	संतोष वल्द कमल कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1326	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1327	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	1298	0.32	0.32

252	संतोष, अमोल, अशोक पिस. मुरलीधर साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1329/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1331	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	1334	1.09	1.09
		भूमिस्वामी	1330	0.11	0.11
253	जगरानी जोजे फूले साकिन देह	भूमिस्वामी	1329/4	0.60	0.60
254	दरयाव महेश भगवानदास पिता दुर्गा कुर्मी पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1322	0.44	0.44
255	प्रेमनारायण शिवराज नीरज पिस. गुलाबसींग चंद्रानी वे. गुलाबसींग कमला पियंका पुत्रियां गुलाबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1361	0.15	0.15
256	दशरथ गोवर्धन वल्द दयाराम, देशरानी, बेबा गोकल उर्फ कलू रमेश मुन्ना पिता गोकल इन्दु नावा. पिता मगन वली आजी माँ देशरानी साकिन देह	भूमिस्वामी	871	0.22	0.06
257	ईश्वर प्रसाद वल्द गया प्रसाद, राजरानी, बेबा गयाप्रसाद तारा, कस्तुरी, चम्पा, मैना पुत्री काशीराम, मगन, नरेन्द्र पिता दीपचंद्र सा. देह	भूमिस्वामी	872	0.08	0.08
258	दशरथ गोवर्धन पिता दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	873	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	922	1.18	1.18
		भूमिस्वामी	870	0.90	0.90
259	वीरेन्द्र पिता कपूरचंद्र साकिन देह	भूमिस्वामी	920	1.74	1.74
260	कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	924	0.31	0.31
261	भोला वल्द गनेशा साकिन देह	भूमिस्वामी	780/2	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	780/ 1283	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	783	0.58	0.58
262	दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम उमाशंकर घनश्याम पिस. नंदू राजेश वल्द धरम कुर्मी	भूमिस्वामी	1082/3	0.57	0.57
263	ग्याप्रसाद वल्द पुट्टाई सब्बोबाई पुत्री पुट्टाई दयाराम वल्द भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	869	0.47	0.47
264	बोरा रामचंद पिता वंशी कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	889	0.04	0.04
265	भागवती बेबा फगुवा झरका रामेश्वर पिस. फगुवा गुड्डी ललता पुत्री फगुवा अहिरवार पता हिनोती	भूमिस्वामी	904	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	905	0.31	0.31
266	भागवती जोजे फगु	भूमिस्वामी	906	0.85	0.85
267	पिस पिता अजित जैन साकिन शाहपुर	भूमिस्वामी	797/2	0.19	0.19
		भूमिस्वामी	947/3	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	959/1	0.11	0.11
268	गुड्डू पिता हरिशंकर इन्द्रदेव पिता महादेव तुलसा वे. महादेव कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	910	0.21	0.21
269	सुरेश चंद वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	911/1	0.70	0.70
270	पदम कुमार वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	911/2	0.70	0.70
271	रूपचंद निर्मल सुरेश पदम विमल पिस. गोकल चमेली पुत्री गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	912	0.34	0.34
272	जवाहरलाल वल्द लखनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	915	1.84	1.84
273	हरप्रसाद पिस. कच्छेदीलाल बजेश अखिलेश पिस कल्याण सरसुती रुकमणी ममता पुत्रिया कल्याण कौशिल्या वेवा कल्याण, कृष्णकांत नाबालिन अनिल, रागनी नाबालिन वल्द हरप्रसाद वली व खुद माँ अनुराधा वेवा हरप्रसाद, अरविन्द, श्यामशंकर पिस. भुवानीशंकर, कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर, सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	916	1.88	1.88

274	चंद्रकुमार पि. नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/1	0.57	0.57
275	प्रवीण कुमार पिता नंदकिशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/2	0.57	0.57
276	रवि पिता नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/3	0.57	0.57
277	मुलामचंद पितल नंदकिशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/4	0.57	0.57
278	नेमीचंद पिता नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/5	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	917/6	0.01	0.01
279	लखनलाल वल्द कच्छेदी कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	963	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	964/1	0.78	0.78
		भूमिस्वामी	964/2	0.80	0.80
280	हरिबाई बेबा दलीपा साकिन देह	भूमिस्वामी	934/1	0.06	0.06
281	नत्कीबाई पति कोदूलाल कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	940/2	0.77	0.77
282	परमू वल्द मुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1045	0.46	0.46
		भूमिस्वामी	1046	0.69	0.69
		भूमिस्वामी	1097/1	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	997/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	1099	0.64	0.64
283	साक्षी पति कुलदीप सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1055	0.83	0.83
		भूमिस्वामी	1059	0.98	0.98
284	रामचरण पिता कच्छेदी नि. केवलारी	भूमिस्वामी	1336/2	0.44	0.44
285	संतोष अमोल अशोक पिस. मुरलीधर पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1329/1	0.07	0.07
286	अच्छेदलाल पिता: चेतू धानक साकिन देह	भूमिस्वामी	1329/2	0.75	0.75
287	धूमन सिंह पिता शंकर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1065/2	1.15	1.15
288	हन्दलसींग, मुब्नासिंह पिता महीपसींग, भगवान सिंह वल्द ऊदलसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1080/3	0.02	0.02
289	अजय पिता सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1100/3	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1162/3	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	1163/3	0.10	0.10
290	सुशीला वेवा सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1100/4	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1162/4	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1163/4	0.08	0.08
291	अवधरानी वेवा भबूतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1130/2	0.18	0.18
292	राजाराम, नन्हेभाई, हेमराज पिता हरिदास साकिन पिपरिया पचरा	भूमिस्वामी	1358	0.10	0.10
293	परमू, राजाराम पिता मुलू, भागबाई पुत्री मुली साकिन देह	भूमिस्वामी	1165/1	0.12	0.12
294	अमोल पिता मुरलीधर, साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1336/3	0.32	0.16
295	मकुंदी, परषोत्तम, संतोष पिस. कमलापत साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1354/3	0.13	0.13
296	सब्बू, लटोरे पिस पकू, केवलारी, हरिशंकर पिता धोकल, इन्द्रदेव नाबालिग वल्द महादेव वली व स्वयं मी तुलसाबाई वेवा महादेव साकिन देह, सुन्दरसींग पिता हरवंश, पूरन, हरिया पिता पुजारी	भूमिस्वामी	1359	0.12	0.12
297	मकुंदी वल्द कमल कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1364/2	0.36	0.36
298	दरभय पिता दुर्गा कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1318	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1320/1	0.12	0.12
योग:-			690 कित्ता	339.84	334.06

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. भू-अर्जन-2017-55-56

अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार, अधिनियम 2013:-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	कालापीपल	ढाबला हुसैनपुर	2.670	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	अरनियाकलों से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	पूरण पिता श्रीलाल मानूबाई बैवा श्रीलाल व अन्तरबाई, दीपाबाई पुत्रियां श्रीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	147/1	0.380	-	0.380
2	सवाईसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	124/1/4	0.102	-	0.102
3	पूरण पिता श्रीलाल मानूबाई बैवा श्रीलाल व अन्तरबाई, दीपाबाई पुत्रियां श्रीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	120/2, 121, 122/3, 123/2	0.250	-	0.250
4	दयाराम पिता गोरेलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	123/1/2 & 125/1	0.150	-	0.150
5	मधुकरराव, अशोकराव, रविन्द्रकुमार, दिलीवकुमार पिता मोतीराव, सुनीताबाई, सरलाबाई व कमलाबाई पुत्रियां मोतीराव जाति मराठा नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	99/1	0.730	-	0.730
6	मांगीलाल, रामप्रसाद पिता घीसीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	86/1	0.021	-	0.021
7	मिश्रीलाल, श्रीलाल, दयाराम पिता गोरेलाल, भवरीबाई, बैवा गोरेलाल हि.3/11 फुदीलाल पिता जमुरसिंह हि.4/11 व घीसीलाल, कंजीलाल, सवाईसिंह पिता खुशीलाल हि.4/11 जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	113, 114/4	0.175	-	0.175
8	बनेसिंह, सीताराम पिता श्रीलाल व सरदारसिंह, शारदाबाई, बैवा देवीसिंह व पूनमचन्द्र पिता किशनलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	155/1	0.205	-	0.205
9	गोकुलबाई पति रामप्रसाद जाति नि.ग्राम हरिसिंह पिता राजाराम भवरबाई बैवा राजाराम जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	104/1, 104/2	0.021	-	0.021
10	मांगीलाल पुत्र घीसीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	94/2	0.100	-	0.100
11	बल्देवसिंह पति रतनसिंह जाति पूरबियां राजपूत नि.ग्राम अकोदी	119/2	0.040	-	0.040

12	बल्देवसिंह पति रतनसिंह जाति पूरबियां राजपूत नि.ग्राम अकोदी भूमि स्वामी	126	0.176	-	0.176
13	घीसीलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	124/1/3	0.082	-	0.082
14	देवीसिंह पिता चन्द्रसिंह हि.1/3 मांगूबाई पुत्री करणसिंह हि.1/3 भेरूसिंह पुत्र सूरजसिंह हि.1/3 जाति राजपूत नि.ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी	102	0.052	-	0.052
15	पूरणसिंह पिता श्रीलाल व मानूबाई बैवा श्रीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी	124/1/1	0.088	-	0.088
16	दयाराम पिता गोरेलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम	124/1/2	0.088	-	0.088
			2.670	-	2.670

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2017-57-58

-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता**अधिकार, अधिनियम 2013::-**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	कालापीपल	अकोदी	2.609 निजी 0.386 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	अरनियाकलों से कालापीपल ब्याया अकोदी मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	7	8	9
1	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	282/1	0.105	-	0.105
2	हिन्दुसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	282/3 276/5	0.021 0.150	-	0.021 0.150
3	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	282/5	0.115	-	0.115
4	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	276/3	0.073	-	0.073
5	चांदसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	266/2	0.021	-	0.021
6	उत्तमसिंह, माधोसिंह, समन्दरसिंह, बापूसिंह पिता कशीराम जाति राजपूत नि.ग्राम	276/2	0.063	-	0.063
7	प्रकाशराव, दिलीपाराव, डा. विनोद कुमार, सुरेशराव, रमेशराव, संजयराव पिता भास्करराव जाति मराठा नि.ग्राम	248/1, 249/1, 259/3/1, 268/1, 253/2,	0.042, 0.239	-	0.042, 0.239
8	रामेश्वर पिता हुकमसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	248/2, 249/2, 259/3/2, 268/2	0.105	-	0.105
9	जगन्नाथ पिता भवरजी हि.1/4 कुन्जीलाल पिता गिस्धारी हि.1/4 हरिसिंह, राजाराम, भवरीबाई बैया राजाराम हि.1/4 जाति भील नि.ग्राम	280/2	0.100	-	0.100
10	हरिसिंह पिता राजाराम भवरबाई बैया राजाराम जाति भील नि.ग्राम	277/4, 281/2	0.147	-	0.147
11	शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति भील नि.ग्राम	277/1, 281/1	0.072	-	0.072
12	लीलाबाई पति नाथूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	265/1	0.157	-	0.157
13	नारायणसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	261/1, 262/2	0.188	-	0.188
14	लीलाबाई पति नाथूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	263	0.105	-	0.105
15	बलदेवसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	260/2	0.209	-	0.209
16	मोरसिंह, जयसिंह पिता गंगाराम जाति गैहलोद नि.ग्राम	256/2, 259/2	0.157	-	0.157
			2.069	-	2.069

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2017-59-60

-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013::-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	कालापिपल	अरनियाकलॉ	4.776 निजी 4.369 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	अरनियाकलॉ से कालापिपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1033/3	0.032	-	0.032
2	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1115/3	0.018	-	0.018
3	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1123/4	0.004	-	0.004
4	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1124/3	0.031	-	0.031
5	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	194/4	0.011	-	0.011
6	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	195/4	0.011	-	0.011
7	अनिलकुमार पिता बाबुलाल जाति खाती नि.ग्राम	209/1/2	0.021	-	0.021
8	अशोककुमार पिता अनोखीलाल जाति खाती नि.ग्राम	209/1/1/2	0.021	-	0.021
9	अनोखीलाल पिता रणजीतसिंह जाति खाती नि.ग्राम	367/2/1	0.076	-	0.076
10	अनोखीलाल पिता रणजीतसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1101	0.094	-	0.094
11	अशोककुमार, मनोजकुमार पिता नन्लाल जाति खाती नि.ग्राम	195/2	0.261	-	0.261
12	आनन्दीलाल पिता कोदरमल जाति खाती नि.ग्राम	1069	0.021	-	0.021
13	आनन्दीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	224/1	0.021	-	0.021
14	आनन्दीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	227/4	0.011	-	0.011
15	आनन्दीलाल, प्रेमसिंह, बाबुलाल विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाव गोकलबाई वि. नन्लाल सुलोचनाबाई पु. नन्लाल सुनीताबाई अनीताबाई मोहनलाल मागीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेशकुमार दिनेशकुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई लीलाबाई मुन्नीबाई शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि.ग्राम	197	0.052	-	0.052
16	आनन्दीलाल, प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाव गोकलबाई वि. नन्लाल सुलोचनाबाई पु. नन्लाल अनीताबाई, मोहनलाल, मागीलाल, विक्रमसिंह, हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण, महेशकुमार, दिनेशकुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई, लीलाबाई, मुन्नीबाई, शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि.ग्राम	200	0.031	-	0.031
17	आनन्दीलाल, प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाव गोकलबाई वि. नन्लाल सुलोचनाबाई पु. नन्लाल सुनीताबाई, अनीताबाई पिता मोहनलाल, मागीलाल, विक्रमसिंह, हरिनारायण पिता रामबक्ष, शिवनारायण, महेशकुमार, दिनेशकुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई, लीलाबाई, मुन्नीबाई, शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि.ग्राम	201	0.052	-	0.052
18	इन्दरबाई पिता भगवतसिंह जाति खाती नि.ग्राम	195/6	0.261	-	0.261

19	इश्वरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति खाती नि.ग्राम	367/3	0.076	-	0.076
20	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम	194/3	0.060	-	0.060
21	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम	195/3	0.073	-	0.073
22	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम	1029	0.063	-	0.063
23	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम	1115/2	0.037	-	0.037
24	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम	1123/3	0.008	-	0.008
25	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	194/2/6/2	0.047	-	0.047
26	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	367/1/2	0.039	-	0.039
27	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	369/2/2/2	0.177	-	0.177
28	केलाशनारायण पिता गंगाधर जाति खाती नि.ग्राम	221/2	0.052	-	0.052
29	कृष्णाबाई पिता देवीप्रसाद जाति खाती नि.ग्राम	364/11	0.084	-	0.084
30	कृष्णाबाई पिता देवीप्रसाद जाति खाती नि.ग्राम	232/2	0.084	-	0.084
31	महेशकुमार पिता गोपालसिंह सौरमदेवी बेवा गोपालसिंह, राजाराम, कमोदसिंह पिता जगन्नाथ 4.240 स भा कचरुलाल पिता रामप्रसाद मिशरबाई बेवा रामप्रसाद मोतीलाल, धुलजी पिता नाथू, कमलाबाई राजूबाई, पु.नाथू 5.258 सभा जाति खाती नि.ग्राम	1034/1	0.063	-	0.063
32	महेशकुमार पिता गोपालसिंह सौरमदेवी बेवा गोपालसिंह राजाराम कमोदसिंह पिता जगन्नाथ 4.240 स भा कचरुलाल पिता रामप्रसाद मिशरबाई बेवा रामप्रसाद मोतीलाल धुलजी पिता नाथूलाल कमलाबाई राजूबाई पु.नाथू 5.258 सभा जाति खाती नि.ग्राम	1034/2	0.063	-	0.063
33	गीताबाई पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	1122	0.078	-	0.078
34	गोविन्दसिंह पिता गोपालसिंह जाति खाती नि.ग्राम	188/1	0.005	-	0.005
35	गोविन्दसिंह पिता गोपालसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1093/1	0.010	-	0.010
36	गंगाबाई बेवा धीसीलाल, धरमसिंह, प्रेमसिंह, रमेशचन्द्र पिता धीसीलाल 1/3 बंशीलाल हजारीलाल पिता विजयसिंह 2/3 जाति खाती नि.ग्राम भूमि स्वामी	196/1	0.209	-	0.209
37	धीसीलाल, हेमराज, रमेश पिता दयाराम जाति खाती नि.ग्राम	1075/1	0.021	-	0.021
38	जगन्नाथ पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	227/1/2	0.011	-	0.011
39	जगन्नाथ पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	224/4	0.021	-	0.021
40	जगन्नाथ पु.भवानीसिंह ¼ प्रेमसिंह पु. जगन्नाथ ¼ ताराबाई बेवा भारत ¼ विक्रमसिंह, हेमराज, आत्माराम पिता भागीरथ हरकूबाई बेवा भागीरथ राजूबाई पिता भागीरथ जाति खाती नि.ग्राम	214/2	0.042	-	0.042
41	जगन्नाथ पु.भवानी, प्रेमसिंह पु. जगन्नाथ जाति खाती नि.ग्राम	214/1	0.042	-	0.042
42	जगदीशप्रसाद रामेश्वर पिता धुलजी जाति खाती नि.ग्राम	185	0.036	-	0.036
43	जितेन्द्र पिता भगवतसिंह जाति खाती नि.ग्राम	232/6	0.021	-	0.021
44	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह	217/1	0.125	-	0.125
45	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह	224/5	0.021	-	0.021
46	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह	227/1/1	0.011	-	0.011
47	धुलुनाथ पिता देवनाथ, हीराबाई पति धुलुनाथ, मोतीनाथ पिता धुलुनाथ, श्यामाबाई पति मोतीनाथ जाति कालबेलिया नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार शासन	213/2	0.021	-	0.021
48	धरमसिंह पिता गंगाधर जाति खाती नि.ग्राम	221/1	0.052	-	0.052
49	धर्मन्द्र पु बालमकुन्द जगदीश पिता मोहनलाल, गोपाल पु मदन ना बा सरपरस्त पिता स्वयंही 1/2 गोविन्द गंगाधर, गिरधारी पिता तुलसीराम हि 3/12 जाति खाती नि.ग्राम	230/3	0.011	-	0.011
50	पंकज पिता केलाशनारायण जाति खाती नि.ग्राम	209/2/2/2	0.011	-	0.011
51	प्रेमनारायण पु गिरधारी जाति खाती नि.ग्राम भूमि स्वामी	1080	0.021	-	0.021
52	प्रेमनारायण पु गिरधारी जाति खाती नि.ग्राम भूमि स्वामी	1081	0.026	-	0.026
53	प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाति खाती नि.ग्राम	221/3	0.052	-	0.052
54	बाबुलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	227/5	0.011	-	0.011
55	बाबुलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	224/3	0.021	-	0.021
56	बद्रीप्रसाद पिता रामनारायण जाति खाती नि.ग्राम	209/2/1	0.021	-	0.021
57	बापूनाथ पिता गिरवरनाथ, सीताबाई पति गिरवरनाथ, मैनाबाई पति शंकरनाथ, बालुनाथ पिता कालुनाथ कमलाबाई पति शंकरनाथ जाति कालबेलिया नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार शासन बंदिता भूमि	216/1	0.021	-	0.021
58	मुरारीलाल, रमेशचन्द्र, किशोर पिता रामचरण जाति खाती नि.ग्राम	1098	0.012	-	0.012
59	मनोजकुमार पिता केलाशनारायण जाति खाती नि.ग्राम	209/2/2/1	0.011	-	0.011
60	मांगीलाल पिता रामबक्ष जाति खाती नि.ग्राम	207	0.021	-	0.021
61	मांगीलाल पिता रामबक्ष जाति खाती नि.ग्राम	224/2	0.021	-	0.021
62	मंगलेशकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1115/1/2	0.019	-	0.019

63	रंगलेशकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1028/3/2	0.062	-	0.062
64	राजेन्द्रकुमार पिता अनोखीलाल जाति खाती नि.ग्राम	209/1/1/1	0.011	-	0.011
65	रमेशचन्द्र पिता जगन्नाथ जाति खाती नि.ग्राम	187/2	0.042	-	0.042
66	रमेशचन्द्र पिता जगन्नाथ जाति खाती नि.ग्राम	1093/2	0.026	-	0.026
67	लक्ष्मीनारायण पिता रणछोडसिंह हि. 1/4 प्रेमनारायण द.पु.भागीरथ हि. 1/4 जमनाप्रसाद, भवानीसिंह, प्रेमसिंह पु. गिरधारी, बिन्दाबाई, राजूबाई, सोरमबाई पु. गिरधारी रामचरण पु. नाना हि. 1/2 जाति खाती नि.ग्राम	1070	0.021	-	0.021
68	विजयसिंह, मोडसिंह, बाबुलाल पिता बक्षी जाति खाती नि.ग्राम	227/2	0.021	-	0.021
69	विजयसिंह, मोडसिंह, बाबुलाल पिता बक्षी जाति खाती नि.ग्राम	226	0.126	-	0.126
70	विनोदकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1115/1/1	0.018	-	0.018
71	विनोदकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1028/3/1	0.063	-	0.063
72	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	194/5	0.057	-	0.057
73	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	195/5	0.037	-	0.037
74	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1124/4	0.031	-	0.031
75	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1123/5	0.004	-	0.004
76	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1115/4	0.019	-	0.019
77	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1133/4	0.033	-	0.033
78	सुरेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	367/1/1	0.039	-	0.039
79	सुरेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम	369/2/2/1	0.178	-	0.178
80	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि.ग्राम	227/3	0.011	-	0.011
81	सुमनबाई वि. अनोपसिंह, शुष्माबाई पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	194/1	0.046	-	0.046
82	सुमनबाई वि. अनोपसिंह, शुष्माबाई पिता अनोपसिंह जाति खाती नि.ग्राम	196/2/1	0.110	-	0.110
83	सोरमबाई पति बाबुलाल जाति खाती नि.ग्राम	230/2	0.011	-	0.011
84	समरथबाई पति नन्नुलाल जाति खाती नि.ग्राम	365	0.272	-	0.272
85	हेमराज पु. बलदेवसिंह छीतीबाई पुत्री बलदेवसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1075/2	0.021	-	0.021
86	हेमराज पु. बलदेवसिंह छीतीबाई पुत्री बलदेवसिंह जाति खाती नि.ग्राम	1076/1	0.024	-	0.024
87	श्यामूबाई पति बाबुलाल जाति खाती नि.ग्राम	232/3/2	0.031	-	0.031
88	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/6 दिलीपसिंह घासीराम पिता जगन्नाथ रणजीत अनोखीलाल प्रेमसिंह बाबुलाल विष्णुचरण पु दरयाव राजलबाई वि दरयाव गीताबाई पिता दरयाव गोकलबाई सुलोचनाबाई अनीताबाई पु नन्नुलाल सुनीताबाई पु मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेश दिनेश पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई, लीलाबाई, फुन्दीबाई, शिप्राबाई पु देवीप्रसाद अनारीबाई पिता गणपत कैलाश हरिओम महेश पिता भंवरलाल ललताबाई वि भंवरलाल प्रहलाद राधेश्याम पिता राजाराम रेशमबाई वि राजाराम जयराम पिता गंगाधर अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनलाल हि 1/4 प्रेमनारायण द पु भागीरथ जमनाप्रसाद भवानीसिंह पिता गिरधारी बिन्दाबाई राजूबाई सोरमबाई पु गिरधारी रामचरण पिता नाना हि 2/3 लक्ष्मीनारायण पिता रणछोड हि 2/32 मीरबाई पति दयाराम हेमराज पिता बलदेव छीतीबाई पु बलदेव हि 1/8 विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 124 आनन्दीलाल पु. दयाराम श्यामलताबाई वि बाबुलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु दयाराम धीसीलाल हेमराज रमेश पिता दयाराम जाति खाती नि. ग्राम	231	0.078	-	0.078
89	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/8 नन्नुलाल पु. भागीरथ हि 7/12 जगन्नाथ पु. गणपत आनन्दीलाल प्रेमसिंह प्रेमसिंह बाबुलाल विष्णुचरण पु दरयाव राजलबाई वि दरयाव गीताबाई पु दरयाव गोकलबाई वि नन्नुलाल सुलोचनाबाई पु नन्नुलाल सुनीताबाई अनीताबाई पु मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेश दिनेश पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई लीलाबाई फुन्दीबाई शिप्राबाई पिता देवीप्रसाद अनारीबाई पु गणपत कैलाश हरिओम महेश पिता भंवरलाल ललताबाई वि भंवरलाल प्रहलाद राधेश्याम पिता राजाराम रेशमबाई वि राजाराम जयरामसिंह पिता गंगाधर अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनसिंह हि 1/64 स भा लक्ष्मीनारायण पु रणछोड प्रेमनारायण द पु भागीरथ जमनाप्रसाद भवानीसिंह पु गिरधारी रामचरण पु नाना हि 1/16 हेमराज पु बलदेवसिंह हि 1/16 स भा सम्पतबाई बेवा गोपालसिंह राकेश पिता गोपालसिंह सुनीताबाई अनीताबाई रेखाबाई पिता गोपालसिंह श्रीकिशन बाबुलाल पिता पन्नालाल सीताराम पिता नरबत बीजा पिता खुबा अनोखीलाल पु बिंदा खबुबाई वि कोदी भागीरथ पिता गणपत माखन पिता हमीर अंबाराम रामसिंह सिंगाराम पिता गोरधन रामप्यारी वि गोरधन हि 1/16 स भा विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 1/16 धीसीलाल हेमराज रमेश पु दरयाव गोकलबाई वि नन्नुलाल सुलोचनाबाई पु नन्नुलाल सम्पतबाई मोहनलाल सुनीताबाई अनीताबाई पु मोहनलाल आनन्दीलाल पु दरयाव श्यामलताबाई वि बाबुलाल सुनील अनील पु. बाबुलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु. दरयाव जाति खाती नि.ग्राम आदि नि.ग्राम	232/1	0.084	-	0.084
90	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/6 दिलीपसिंह घासीराम पिता जगन्नाथ, आनन्दीलाल, प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण	1077	0.006	-	0.006

	पु.दरियाव राजलबाई वि.दरियाव गीताबाई पु दरियाव गोकलबाई वि. नन्लाल सुलोचनाबाई अनीताबाई पु नन्लाल, सुनीताबाई, पु मोहनलाल, मांगीलाल, विक्रमसिंह, हरिनारायण पिता रामबख्ख देवी पु गणपत अनारीबाई अन्तरबाई पुनीयां गणपत गंगाधर पिता बोदा अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनसिंह हि 1/4 प्रेमनारायण द.पु.जमानाप्रसाद भवानीसिंह पु गिरधारी बिंदाबाई राजुबाई सोरमबाई पु गिरधारी रामचरण पु नाना हि 2/3 लक्ष्मीनारायण पु रणछोड हि 2/32 मीरबाई पति दयाराम हेमराज पु बलदेव छीतीबाई पु बलदेव हि 1/8 विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 1/4 गोकलबाई वि.नन्लाल आनन्दीलाल पु दयाराम श्यामलताबाई वि बाबूलाल सुनील अनील पु बाबूलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु दरियाव घीसीलाल हेमराज रमेश पु दयाराम जाति खाती नि.ग्राम				
91	सम्पतबाई बेवा गोपालसिंह राकेश पिता गोपालसिंह,सुनीताबाई,अनीताबाई,रेखाबाई पिता गोपालसिंह श्रीकिशन बाबूलाल पिता पन्नालाल सीताराम पिता नरबत हि 1/6 नन्लाल भगवती कंचनबाई पु भागीरथ 1/6 देवीप्रसाद पिता भागीरथ हि 1/6 राधाकिशन पिता विजयसिंह घीसीलाल पिता विजयसिंह पारवतीबाई पु विजयसिंह हि 1/24 आनन्दीलाल पिता कोदा 1/19 बाबूलाल धरमसिंह कुन्ताबाई मानकुंवरबाई बेवा गोरधनसिंह रामसिंह सिंगाराम पिता गोरधनसिंह कमलाबाई बेवा अम्बाराम धर्मेन्द्र जितेन्द्र ना बा पिता अम्बाराम सरपरस्त माता कमलाबाई हि 1/4 नन्लाल पिता भागीरथ हि रकबा 0.209 हे. जाति खाती नि.ग्राम	364/13.	0.324	-	0.324
92	राधाकिशन पुत्र गणपत हि. 1/2 घीसा बीजा पुत्र पारवती हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम	1067	0.010	-	0.010
			4.776	-	4.776

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2017-61-62

:- अधिसूचना भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार,अधिनियम 2013:-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	कालापीपल	सिलोदा	3.008 निजी 2.624 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शाजापुर	अरनियाकलों से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	मोहनसिंह पिता केशरसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	4/1/5/2, 3/1/5	0.063, 0.052	-	0.063, 0.052
2	सुभागसिंह पिता केशरसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	4/1/6/2, 3/1/6	0.063, 0.052	-	0.063, 0.052
3	गजराजसिंह, नमीनसिंह पिता शिवनारायण, गंगाबाई बेवा शिवनारायण जाति गैहलोद नि.ग्राम	3/1/7	0.052	-	0.052
4	एलकार पिता नन्लालसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	4/1/2	0.052	-	0.052
5	बालकृष्ण पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि. चाकरोद	4/1/3	0.021	-	0.021

6	सियाराम पिता परवत सिंहजाति कुल्मी नि. चाकरोद	4/1/4	0.021	-	0.021
7	मनोहर पिता नन्लाल जाति गैहलोत नि.ग्राम	5/2 6/3	0.021, 0.053	-	0.021, 0.053
8	लखनसिंह पिता नन्लाल जाति गैहलोत नि.ग्राम	5/3	0.021	-	0.021
9	इन्दरबाई बेवा नन्लाल जाति गैहलोत नि.ग्राम	5/4	0.021	-	0.021
10	बाबूलाल,मनोहर पिता नन्सिंह जाति गैहलोत नि.ग्राम	21	0.147	-	0.147
11	रामचरण,रूपसिंह पिता नरसिंह व हरनाथसिंह पिता हनुमतसिंह नाबासर पा.मातास्थल पार्वतीबाई बेवा हनुमतसिंह जाति गैहलोत नि. रोसी वना 17 भूमि स्वामी	19, 17/2	0.021, 0.005	-	0.021, 0.005
12	वन्दना चोहान पति मेहताबसिंह जाति राजपूत नि.भोपाल	24/1 22	0.073, 0.005	-	0.073, 0.005
13	बताथबाई पति छीतूसिंह जाति गैहलोद नि.मोहम्मदखेडा	24/2	0.083	-	0.083
14	बनेसिंह पिता फून्दीलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम वन 11/2	27	0.105	-	0.105
15	जगदिश पिता बिहारीलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम वन 12/1	25/1 26/1	0.011 0.031	-	0.011 0.031
16	बनेसिंह,सीताराम पिता श्रीलाल व सरदारसिंह,राजेशसिंह पिता देवीसिंह शारदाबाई बेवा देवीसिंह व पूनमचन्द पिता किशनलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम वन 12/2 भूमि स्वामी	25/2 26/2	0.010 0.031	-	0.010 0.031
17	नरायणसिंह पिता नन्लाल जाति गैहलोत नि.ग्राम वन 5/1 भूमि	47/2	0.031	-	0.031

	स्वामी	5/1/2 6/2/2	0.021 0.053		0.021 0.053
18	राजेश कुमार पिता कैलाशनारायण सिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	48	0.105	-	0.105
19	देवीसिंह पिता हजारीलाल जाति गैहलोत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51 50 29/1	0.073, 0.123, 0.073	-	0.073, 0.123, 0.073
20	बाबूलाल पिता नन्लाल जाति गैहलोत नि.ग्राम वन 3/2	47/1 6/1/2	0.031, 0.053	-	0.031, 0.053
21	भगवतीबाई पुत्री भेरूसिंह हि.1/3 जसोदाबाई बेवा खुशीलाल, प्रेमानारायण नाबा.कैलाशनारायण नाबा.पुत्र खुशीलाल समभाग भूमि स्वामी हि.1/3 सर.पर.माता स्वमं जाति लूहार नि.ग्राम	54	0.123	-	0.123
22	धीसीलाल, रमेशचन्द्र पिता हीरालाल जाति लूहार नि.ग्राम	56/1	0.011	-	0.011
23	श्यामलाल,सुमेरसिंह,करणसिंह पिता बिहारीलाल व गोदावहीबाई विधवा बिहारीलाल जाति गैहलोत नि.ग्राम वन 137	155/3/2	0.052	-	0.052
24	फरीदा बी पति मोहम्मद बशीरशेख जाति मुसलमान	52/1	0.042	-	0.042
25	फिरोजशेख पिता मोहम्मद बशीरशेख जाति मुसलमान बन. 3/1/8	52/2	0.042	-	0.042
26	अमरसिंह,राजेन्द्रसिंह,जगदीश पिता टीकाराम जाति गैहलोद नि.ग्राम	171/4	0.043	-	0.043
27	धीसीलाल पिता बक्षीलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम बन. 148/1	155/1	0.052	-	0.052
28	रामसिंह,रमेशचन्द्र पिता बंशीलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम बन. 5/5	155/2, 5/5/1	0.052, 0.021	-	0.052, 0.021
29	धनसिंह पिता गणपतसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	156/2	0.063	-	0.063
30	मंगलसिंह पिताधीसीलाल जाति गैहलोद नि.ग्राम	171/1	0.053	-	0.053
31	प्रेमसिंह पिता धीसूसिंह जाति गैहलोद नि.ग्राम	171/2	0.043	-	0.043
32	गोरधनसिंह पिता धीसूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम बन.167/2	171/3	0.043	-	0.043
33	नधूबाई पुत्री जगन्नाथसिंह जाति गैहलोत नि.ग्राम	196/1 210	0.021, 0.073	-	0.021, 0.073
34	ललताबाई पिता सुखराम जाति भंवरजी	196/2	0.011	-	0.011
35	सोहनलाल व रामचरण,केशरसिंह पिता भंवरजी व जूगीबाई बेवा भंवरजी जाति गैहलोत नि.ग्राम	188/2	0.053	-	0.053
36	जसमतसिंह,नारायणसिंह पिता जगन्नाथसिंह,सुखियाबाई बेवा जगन्नाथसिंह जाति गैहलोत नि.ग्राम बन.14 भूमि स्वामी	193/1 194/1 189/1 188/1/1	0.021, 0.021, 0.063, 0.053	-	0.021, 0.021, 0.063, 0.053
37	बनेसिंह पिता सेवाराम जाति गैहलोत नि.ग्राम बन.188/1/2	193/2 194/2 189/2 188/1/2/2	0.011, 0.011, 0.063, 0.053	-	0.011, 0.011, 0.063, 0.053
38	धीसीलाल पिता जगन्नाथ जाति लूहार नि.ग्राम	172	0.073	-	0.073
39	रामबाबू पिता देवीसिंह आदि जाति गैहलोत नि.ग्राम	217/6	0.011	-	0.011

40	सोहनलाल पिता भवरलाल जाति गैहलोत नि.ग्राम	217/7	0.011	-	0.011
41	मानसिंह पिता उमरावसिंह जाति गैहलोत नि.ग्राम	217/8	0.011	-	0.011
42	सिद्धीबाई सोरमबाई, पुत्रीयां बलवंतसिंह हि.1/8 व घनश्याम, मनोहर पिता मन्दसपसिंह हि.1/16 जाति गैहलोत नि.ग्राम व रतनबाई बैवा करप्परसिंह हि.1/8 जाति राजपूत व विहारीलाल सिलोदा उमरावबाई बैवा देवा हि.1/8 व मानसिंह मिश्रीलाल पिता उमरावसिंह हि.रकबा 0037 व नारायणसिंह माखनसिंह, देवीसिंह पिता गोरीलाल रकबा 0199 हि.1/9 जाति गैहलोत नि.ग्राम	217, 575/1, 217, 575/2/2, 217, 575/3/1	0.261	-	0.261
			3.037	-	3.037

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 11 अप्रैल 2017

प्रकरण क्रमांक 351-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - खाखरापाडा		तहसील - पेटलावद		
स.क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि जाम्बुपाड़ा सब माईनर	0.47	0.19	0.66

अनुसूची (2)

स. क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धुलिया पिता रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी	133/4	0.020	-	0.020	0.020	-	0.020
2	रमेश पिता रणछोड पुनीबाई पति स्व0 रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी	133/5	0.020	-	0.020	0.020	-	0.020
2	जालु, बालु, भीलजी, बद्री, सुगना पिता प्रभु मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141	0.180	-	0.180	0.040	-	0.040

3	मन्ना सुकला पिता लाला गंगली बैवा लाला मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142	0.290	-	0.290	0.040	-	0.040
4	मावजी दित्यापिता तेल्या मैडा जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी . गवरीबेवा तेल्या जाति मोरी भील पता निग्राम भूमि स्वामी.	143	0.330	-	0.330	0.040	-	0.040
5	नारजी पिता वेलजी जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	144	0.260	-	0.260	0.020	-	0.020
		294	0.110	-	0.110	0.010	-	0.010
		296	0.450	-	0.450	0.030	-	0.030
		298	0.810	-	0.810	0.070	-	0.070
7	जबरिया पिता हमीरा, नानजी, वरसिंग, दित्या, भीरा, भूरी पिता कवरिया, चम्पा पति स्व. कवरिया मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	293	1.370	-	1.370	0.110	-	0.110
		304	-	0.320	0.320	-	0.050	0.050
8	देवला पुत्र वेलजी जाति निनामा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	295	0.110	-	0.110	0.060	-	0.060
		303	-	0.440	0.440	-	0.140	0.140
8	वरसिंग पिता नग्गा मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	300	0.660	-	0.660	0.010	-	0.010
योग :-			4.670	0.760	5.430	0.470	0.190	0.660

प्रकरण क्रमांक 353-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	तहसील - पेटलावद		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ माईनर नहर	0.03	-	0.03

अनुसूची (2)

स. क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	वालचंद पिता रादु गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व मोईचारणी	260/1	0.08	-	0.08	0.03	-	0.03
योग :-			0.08	-	0.08	0.03	-	0.03

प्रकरण क्रमांक 355-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - गंगाखेड़ी		तहसील - पेटलावद		
स.क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि बडलीपाड़ा सब माईनर नहर	0.02	-	0.02

अनुसूची (2)

स. क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्री परमानन्द पिता दयाराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	446	0.80	-	0.80	0.02	-	0.02
	योग	1	0.80	-	0.80	0.02	-	0.02

प्रकरण क्रमांक 357-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - बोरियापाड़ा		तहसील - पेटलावद		
स.क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि कोटड़ा माईनर नहर	1.32	0.26	1.58

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सकरु पिता हेमा जाति मोरी पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	145	0.350		0.350	0.110		0.110
2	शान्तु हद्द भुरा पिता रायजी व फुन्दी बैवा रायजी मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.370		0.370	0.060		0.060
3	कालु पिता लुन्जा जाति कटारा पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	147	0.100		0.100	0.040		0.040
4	नाथा पिता रूपा कटारा जाति भील पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	151	0.390		0.390	0.040		0.040
5	तेरु,पिता हेमा व काली वेवाहमा मोरी पता नि.महुडीपाडा भूमि स्वामी	153	0.320		0.320	0.070		0.070
6	नन्दुडी पिता पुनिया भरिया जाति भील पता निवासी ग्राम माण्डन भूमि स्वामी	409		0.400	0.400		0.010	0.010
		410	0.550		0.550	0.150		0.150
		432		0.390	0.390		0.010	0.010
7	कालू पिता रालूजीहुरजी बेवा रालू जाति हटीला पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	416		0.400	0.400		0.070	0.070
		417		0.160	0.160		0.020	0.020
		452		0.120	0.120		0.020	0.020
8	गोर्धन पिता घुलिया जाति सिंगाड पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	420		0.630	0.630		0.090	0.090
9	सुन्दरबाई बैवा अम्बाराम गरवाल जाति भील पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	421	1.090		1.090	0.160		0.160
10	मोहन पिता पेमा ,धापू बेवा पेमा व मोती नंदु पिता सोमा गरवाल जाति भील पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	424		0.410	0.410		0.100	0.100
11	हदुडी पिता बाबरिया हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	453		0.710	0.710		0.110	0.110
12	सुखराम मडिया अम्बुडा पिता रणछोड व बदुडी बेवा रणछोड हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/1	0.410		0.410	0.080		0.080
13	नाथिया पिता बाबरिया हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	460		0.310	0.310		0.040	0.040
14	सुकला बदुडा पिता पुजा व गोविंद पिता मडिया व कमली बैवा मडिया कटारा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	161	2.060		2.060	0.070		0.070

15	मंगलिया पिता कालिया गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	425/1	0.300		0.300	0.080		0.080
16	नाथु पिता वागजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	423/2	0.340		0.340	0.070		0.070
17	चंदिया पिता बाबु हटीला जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	456/2	0.350		0.350	0.040		0.040
18	अम्बाराम भेरू पिता रादु नाथी बाई पति रादु हटीला जाति भील पता निवासी कोटडा भूमि स्वामी	456/3	0.160		0.160	0.040		0.040
19	सोहन पिता चन्दिया मुणिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/1	0.190		0.190	0.010		0.010
20	गोबा पिता रुपा पिता रुपा जाति कटारा भील पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	152	0.250		0.250	0.020		0.020

21	मानजी पिता वागजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	423/1	0.340		0.340	0.020		0.020
22	विका पति नरसिंह गामड़ जाति भील पता निवासी मांडन भूमि स्वामी उंकार पिता हेमराज गरवाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/6	0.180		0.180	0.010		0.010
23	दुर्गा, लीला, पिता मिलजी ना0बा0 पा0क0माता सुगना व सुगना बेवा मिलजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	425/2	0.150		0.150	0.010		0.010
24	कोदा पिता बाबरिया हटीला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व	456/4	0.160		0.160	0.030		0.030
योग :-			9.180	2.410	11.590	1.320	0.260	1.580

प्रकरण क्रमांक 359-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013))

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - गोदड़िया

तहसील - पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ माईनर नहर	0.12	-	0.12

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	फूलजी पिता नन्दिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/1	0.08	-	0.08	0.03	-	0.03
2	वरसिंह, हुकमीचन्द, सम्दुडी पिता गोतम, गेन्दुडी बैवा गौतम गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/2	0.08	-	0.08	0.07	-	0.07
3	वाला पिता नंदीया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/3	0.08	-	0.08	0.02	-	0.02
	योग	3	0.24	-	0.24	0.12	-	0.12

प्रकरण क्रमांक 380-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - सुल्तानपुरा

तहसील - पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि बडलीपाड़ा सब माईनर नहर	0.02	-	0.02

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्री विरजी पिता नानजी सोलंकी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/1	0.12	-	0.12	0.02	-	0.02
	योग	1	0.12	-	0.12	0.02	-	0.02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. भू-अर्जन-2016

चूकिं म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की हरसी बायपास परियोजना के लिये ग्राम हरसी में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कये किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला - ग्वालियर
तहसील - भितरवार
ग्राम - हरसी
क्षेत्रफल - 4.145 हेक्टेयर

स. क्र	भूमि स्वामि का नाम, पिता का नाम, एवं निवास स्थान	खसरा न.	कुल क्षेत्रफल	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	अन्य संपत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	बालकिशन पुत्र निरपत जाति वघेल नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	330/1/1	0.141	0.080	-	-
2	रामचरन पुत्र निरपत जाति वघेल नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	330/1/1/2	0.141	0.080	-	-
3	लच्छीराम पुत्र लालाराम जाति रावत नि. जखवार ग्रा.भूमि स्वामी।	330/1/2	0.627	0.240	-	-
		332/4	0.762	0.140	-	-
टोटल		2	1.389	0.380	-	-

4	धन्नो बेबा गोपीराम, महाराज सिंह, सतेन्द्र सिंह पुत्रगढ़ गोपीराम व विमला, सुरा, गुडडी, शीला, महादेवी, सुमन पुत्रियां गोपीराम भाग 544/1-306 जाति रावत नि.ग्रा.भूमि स्वामी व लक्ष्मीराम पुत्र लालाराम भाग 126/1-306 व राजावेटी पुत्री लालाराम भाग 218/1-306 जाति वघेल निवासी ग्राम उदयीपुरा पावी नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	331/1	0.867	0.060	-	-
		331/4	0.105	0.080	-	-
		332/3	0.105	0.105	-	-
टोटल		4	1.547	0.515	-	-
5	मु. धन्नो बेबा गोपीराम, महाराज सिंह, सतेन्द्र सिंह पुत्रगण गोपीराम व विमला, सुरा, गुडडी, शीला, महादेवी, सुमन पुत्रियां गोपीराम जाति रावत पता नि. ग्रा.भूमि स्वामी	585/2	0.199	0.020	-	-
6	मु. धन्नो बेबा गोपीराम, महाराज सिंह, सतेन्द्र सिंह पुत्रगण गोपीराम व विमला, सुरा, गुडडी, शीला, महादेवी, सुमन पुत्रियां गोपीराम जाति रावत समान भाग 1/2 व लक्ष्मण सिंह पुत्र आशाराम भाग 1/2 जाति रावत ठा. नि.ग्रा.भूमि स्वामी	588	0.470	0.140	-	-
7	अमिताप सिंह दत्तक पुत्र कोकसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमि स्वामी। (फोती नामांतरण होने से)	585/1	1.693	0.490	-	-

8	देवाराम, अमरसिंह पुत्रगण दामौदर सिंह जाति रावत निवासी जखवार ग्रा.भूमि स्वामी।	585/5	0.314	0.040	-	-
9	इन्द्रसिंह पुत्र अतिराज जाति रावत नि. जखवार ग्राम.नि.भूमि स्वामी	585/6	0.261	0.180	-	-
10	अमिताप सिंह दत्तक पुत्र कोकसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमि स्वामी।	567	0.261	0.030	-	-
11	हेमलता पुत्री कोकसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमि स्वामी।	565/1	0.324	0.240	-	-
		565/2	0.105	0.070	-	-
		561	0.899	0.420	-	-
		559	0.169	0.160	-	-
	टोटल	4	1.497	0.890	-	-
12	मुकेश, रोशन, मनोज पुत्रगण श्रीपत व मीना, ममता, सुरन, पुत्रियां श्रीपत जाति आदिवासी भाग 1/2 चुन्ना पुत्र मंशाराम भाग 1/2 जाति आदिवासी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	592	0.752	0.010	-	-

13	उदुवा, रामसिंह, परवत सिंह पुत्रगण श्यामलाल मु. जनको बेबा श्यामलाल जाति आदिवासी नि.ग्रा.भूमि स्वामी।	556/3	0.052	0.040	-	-
14	रामचन्दी, कमलसिंह पुत्रगण राधे जाति जाटव नि.ग्रा.भूमि स्वामी।	555/1	0.157	0.080	-	-
15	रामचन्दी पुत्र राधे जाति जाटव नि.ग्रा. भूमि स्वामी।	553/2/1	0.324	0.080	-	-
16	बाबूलाल पुत्र चेताराम जाति जाटव नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	553/2/2	0.329	0.160	-	-
		555/2	0.418	0.120	-	-
	टोटल	2	0.747	0.280	-	-
17	मलखान पुत्र केशरिया जाति जाटव नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	553/2/2	0.329	0.170	-	-
18	बाबूलाल पुत्र मेहरबान जाति रावत निवासी हरसी ग्राम भूमि स्वामि	541/1/2	0.512	0.160	-	-
19	रामजीत पुत्र हरदू जाति गडरिया नि. ग्रा.भूमि स्वामी।	594	0.846	0.450	-	-
20	मुन्नी बेबा देवीसिंह, शीला पत्नी भारत सिंह, रामश्री पत्नी कल्लू जाति वघेल नि.ग्रा.भूमि स्वामी।	595	0.888	0.030	-	-
	कुल योग	28	12.520	4.145	-	-

संजय गोयल, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक/एफ-6-2-2016-58:: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना 4 जुलाई 2016 एवं 27 जुलाई 2016 के अनुक्रम में चयनित बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में रेवेन्यू सर्कल अन्तर्गत 10 से 15 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थापित किये गये स्वचलित मौसम केन्द्र की सूची परिशिष्ट-5 अनुसार अधिसूचित की जाती है। बीमा कम्पनियों निम्न निर्देशों का पालन करेगी:-

1. स्वचलित मौसम केन्द्र के रख-रखाव हेतु मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एक मेकेनिक/आपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करावेगी जो सम्पर्क करने पर उपस्थित होकर देखरेख करेगा व खराब होने पर 48 घंटे के भीतर सुधार या बदलेगा।
2. प्रत्येक स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की मैपिंग सूची विभाग की वेबसाइट www.mphorticulture.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
3. किसी भी मौसम केन्द्र में गड़बड़ी आने पर या योजना के दिशा-निर्देशों व घोषणा/प्रमाण पत्र या दावा भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी पाये जाने पर मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एवं बीमा कम्पनी संबंधित के लिए जिम्मेदार होगी।
4. रेवेन्यू सर्कल के अन्तर्गत यदि कोई ग्राम किसी भी स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत ग्रामों की मैपिंग में शामिल नहीं हुआ है तो उस ग्राम के नजदीकी मौसम केन्द्र का डाटा उपयोग किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

परिशिष्ट-5

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016.17 से रबी वर्ष 2018.19 के कियान्वयन हेतु स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Disttct	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1	Alirajpur	Jobat	Jobat-02	Kanda	Nehtada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
2	Alirajpur	Alirajpur	Aaleeraajapur-02	khandala	Rajawat	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
3	Alirajpur	Alirajpur	Aaleeraajapur-02	Rajawat	Khandala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
4	Alirajpur	Jobat	Udayagadh-01	Chhoti juwari	Bada Itara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
5	Alirajpur	Jobat	Udayagadh-01	Bada itara	Chhoti Juwari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
6	Alirajpur	Bhabra	Chandrashekhar	Malweli	Malpur Badi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
7	Alirajpur	Bhabra	Chandrashekhar	Malpur badi (Kaliyawad)	Malweli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
8	Alirajpur	Jobat	Jobat-02	Hardaspur	Nehtada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
9	Alirajpur	Jobat	Jobat-02	Nehtada	Hardaspur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
10	Alirajpur	Kattiwara	Katteevaada-01	Havelikheda	Panala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
11	Alirajpur	Sodawa	Sondava-03	-Kuklat	Ojhad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
12	Alirajpur	Kattiwara	Katteevaada-01	Kalibel	Kail	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
13	Alirajpur	Kattiwara	Katteevaada-01	Kail	Kalibel	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
14	Alirajpur	Sodawa	Sondava-03	Borwala (Gulwant)	Ojhad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
15	Alirajpur	Sodawa	Sondava-03	Ojhad	Borwala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
16	Alirajpur	Sodawa	Sondava-03	Chilwat	Weswani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
17	Alirajpur	Kattiwara	Katteevaada-01	Panala	Alirajpur (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
18	Alirajpur	Alirajpur	Aaleeraajapur-02	Alirajpur (m)	Kanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
19	Alirajpur	Jobat	Udayagadh-01	Dedarwasa	Hardaspur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
20	Alirajpur	Alirajpur	Aaleeraajapur-02	Kanpur	Alirajpur (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
21	Alirajpur	Sodawa	Sondava-03	Weswani	Kalibel	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
22	Barwani	Rajpur	Raajapur-01	Narawala	Upla	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
23	Barwani	Rajpur	Raajapur-01	Bakwadi	Golpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
24	Barwani	Thikri	Theekaree-01	Hasankhedi	Bhatgawala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
25	Barwani	Rajpur	Raajapur-01	Golpura	Bakwadi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
26	Barwani	Rajpur	Raajapur-01	Gawha	Narawala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
27	Barwani	Barwani	01-badavaanee-01	Tangda	Vedpuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
28	Barwani	Pansemal	Paanasemal-01	Sakrali khurd	Piparani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
29	Barwani	Niwali	Nivaalee-01	Sakun	Morgun	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
30	Barwani	Niwali	Nivaalee-01	Sidadi	Salun	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
31	Barwani	Barwani	01-badavaanee-01	Vedpuri	Tangda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
32	Barwani	Sendhawa	Sendhava-01	Wanihar	Achhall	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
33	Barwani	Sendhawa	Varala-01	Juwaniya	Kamod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
34	Barwani	Sendhawa	Sendhava-01	Pipalyadev	Wanihar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
35	Barwani	Pati	01-paatee-01	Kalakheth	Newa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
36	Barwani	Barwani	01-badavaanee-01	Lonsara khurd	Chhapri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
37	Barwani	Pati	01-paatee-01	Newa	Osada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
38	Barwani	Pati	01-paatee-01	Baldi falya (Rosar)	Kalakheth	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
39	Barwani	Varla	Varala-01	Chirmiriya	Kamod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
40	Barwani	Varla	Varala-01	Kamod	Chirmiriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
41	Barwani	Varla	Varala-01	Hingwa	Mohan Padawa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
42	Barwani	Varla	Varala-01	Mohan padawa	Hingwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
43	Barwani	Sendhawa	Sendhava-01	Achhall	Wanihar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
44	Barwani	Pati	01-paatee-01	Osada	Newa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
45	Barwani	Rajpur	Raajapur-01	Upla	Narawala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
46	Barwani	Anjad	Nanjad-01	Chhapri	Surana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
47	Barwani	Thikri	Theekaree-01	Bhatgawala (Gati)	Hasankhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
48	Barwani	Anjad	Nanjad-01	Surana	Chhapri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
49	Barwani	Pansemal	Paanasemal-01	Kalaamba (Aamjhiri)	Piparani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
50	Barwani	Pansemal	Paanasemal-01	Piparani	Kalaamba	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
51	Barwani	Niwali	Nivaalee-01	Morgun	Chatli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
52	Barwani	Niwali	Nivaalee-01	Chatli	Morgun	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
53	Betul	Athner	Aathaner-05	Athner	Umari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
54	Betul	Athner	Saataner-06	Hiradehi	Theska	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
55	Betul	Athner	Aathaner-05	Theska	Hiradehi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
56	Betul	Athner	Saataner-06	Umari	Koylari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
57	Betul	Multai	Prabhaat pattan-01	Birolijihipa	Tiwerkhed	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्धित नौसम केन्द्र का नाम	सन्धित नौसम केन्द्र का बैकल्पिक नौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	नौसम के आंकड़े प्रदायक कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
58	Betul	Multai	Maasod-03	Hidly	Lihada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
59	Betul	Multai	Mulataee-02	Lihada	Hidly	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
60	Betul	Multai	Prabhaat pattan-01	Tiwarkhed	Birolijhilpa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
61	Betul	Multai	Dhunaava-04	Sipawa	Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
62	Betul	Multai	Dhunaava-04	pipariya	Sipawa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
63	Betul	Amla	Boradehee-02	Kujba	Dudriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
64	Betul	Multai	Mulataee-02	Hetikhapa	Nandpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
65	Betul	Amla	Boradehee-02	Dudriya	Kujba	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
66	Betul	Betul	Kheneesaavaleegadh-	Hiwarkhedi	Gehunras	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
67	Betul	Ghoda dongari	Ghodaadongaree-07	Malseoni	Baretha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
68	Betul	Betul	Kheneesaavaleegadh-	Gehunras	Hiwarkhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
69	Betul	Betul	Baitool baajaar-03	Sunarkhapa	Nayegaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
70	Betul	Betul	Baitool -2-09	Nayegaon	Sunarkhapa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
71	Betul	Shahpur	Shaahapur-01	Baretha	Malseoni	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
72	Betul	Shahpur	Shaahapur-01	Kajli	Handipani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
73	Betul	Shahpur	Shaahapur-01	Gurgunda	Chopna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
74	Betul	Shahpur	Shaahapur-01	Handipani	Path Vangram	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
75	Betul	Ghoda dongari	Chopana-14	Ghogri	Shaktigarh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
76	Betul	Ghoda dongari	Chopana-14	Shaktigarh	Ghogri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
77	Betul	Shahpur	Chicholee-06	Path vangram	Handipani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
78	Betul	Bhainsdehi	Bheemapur-01	Lapa	Gadakhar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
79	Betul	Chicholi	Chicholee-06	Driyaganj	Gawajhadap	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
80	Betul	Chicholi	Chicholee-06	Gawajhadap	Chicholi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
81	Betul	Bhainsdehi	Bheemapur-01	Gadakhar	Dhengna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
82	Betul	Bhainsdehi	Jhallaar-02	Jhallar	Koylari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
83	Betul	Bhainsdehi	Jhallaar-02	Koylari	Jhallar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
84	Betul	Bhainsdehi	Bheemapur-01	Chunalohma	Imlideh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
85	Betul	Bhainsdehi	Bhainsadehee-03	Sarandai	Goregaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
86	Betul	Bhainsdehi	Bhainsadehee-03	Ghugri	Burhanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
87	Betul	Bhainsdehi	Bhainsadehee-03	Burhanpur	Ghugri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
88	Betul	Bhainsdehi	Jhallaar-02	Goregaon	Sarandai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
89	Betul	Bhainsdehi	Bhainsadehee-03	Kukaru (lokaldari)	Burhanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
90	Betul	Multai	Maasod-03	Kinda ryt (gehubarsa)	Theska	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
91	Betul	Amla	Boradehee-02	Kothiya raiyat	Ranidongri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
92	Betul	Amla	Aamala-01	Ranidongri	Kothiya Raiyat	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
93	Betul	Amla	Aamala-01	Nandpur	Baghwad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
94	Betul	Ghoda dongari	Ghodaadongaree-07	Eata bata (loniya ryt.)	Kothiya Raiyat	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
95	Betul	Betul	Baitool -1-08	Baghwad	Nandpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
96	Betul	Ghoda dongari	Ghodaadongaree-07	Ranipur	Malseoni	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
97	Betul	Bhainsdehi	Chillaur-04	Pipariya	Dhengna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
98	Betul	Atner	Saataner-06	Tanki	Ghugri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
99	Betul	Bhainsdehi	Chillaur-04	Dhengna	Gadakhar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
100	Betul	Chicholi	Chicholee-06	Chicholi (Arya Vikas Nagar)	Gawajhadap	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
101	Betul	Bhainsdehi	Bheemapur-01	Imlideh (South Kheda)	Chunalohma	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
102	Betul	Bhainsdehi	Chillaur-04	Gosar bel	Dhengna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
103	Betul	Ghoda dongari	Chopana-14	Chopna	Gurgunda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
104	Bhind	ATER	ATERA-1	kanera	gormi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
105	Bhind	ATER	SURPURA	Duhagan	chhakarvari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
106	Bhind	BIND	PHOOP	baghpura	pulawali	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
107	Bhind	GORMI	GORMI-01	gormi	kanera	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
108	Bhind	GOHAD	ENDORI-01	chharenta	baroa	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
109	Bhind	GOHAD	GOHAD-02	baroa	chharenta	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
110	Bhind	MEHGAON	MEHGAON-02	baharpura	chhakarvari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
111	Bhind	BIND	PIPARI-01	Lawan	babedi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
112	Bhind	BIND	BHIND-02	babedi	chhakarvari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
113	Bhind	BIND	UMARI-04	pulawali	baghpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
114	Bhind	RONA	RONA-01	gorai	singpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायता कम्पनी
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
115	Bhind	RONA	RONA-01	bonapura	ranapura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
116	Bhind	MEHGAON	AMAYAN-03	depura	babedi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
117	Bhind	GOHAD	MOU-04	bamhroli	kheriya jallu	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
118	Bhind	GOHAD	MOU-04	kheriya jallu	bamhroli	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
119	Bhind	MIHONA	MIHONA-01	singpura	udotpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
120	Bhind	LAHAR	LAHAR-01	udotpura	singpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
121	Bhind	LAHAR	ASVAAR-02	ikmill	udotpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
122	Bhind	LAHAR	DAVOHA-03	gora	ikmill	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
123	Bhind	MIHONA	MIHONA	ranapura	bonapura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
124	Burhanpur	Burhanpur	Shahpur	Shahpur	Bahadarpur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
125	Burhanpur	Burhanpur	Shahpur	Ichhapur	Shahpur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
126	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Fopnar	Daryapur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
127	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Daryapur	Fopnar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
128	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Bahadarpur	Shahpur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
129	Burhanpur	Kakner	Aser	Basad	Sands	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
130	Burhanpur	Nepanagar	Aser	Dhulkot	Basad	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
131	Burhanpur	Nepanagar	Nepanagar	Nepanagar	Navra	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
132	Burhanpur	Nepanagar	Nepanagar	Navra	Nepanagar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
133	Burhanpur	Kakner	Kakner	Doiphodiya	Khaknar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
134	Burhanpur	Kakner	Kakner	Khaknar	Doiphodiya	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
135	Burhanpur	Kakner	Tukaitad	Tukaitad	Dedhtalai	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
136	Burhanpur	Kakner	Tukaitad	Dedhtalai	Tukaitad	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
137	Burhanpur	Kakner	Kakner	Sands	Daryapur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
138	Chhindwara	amarwara	अमरवाड़ा - 2-02	Khamra Aduku	Dagawani Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
139	Chhindwara	amarwara	अमरवाड़ा -1-01	Keolari Jagannath	Amabon	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
140	Chhindwara	bichua	बिछुआ-01	Surangi	Chandkapur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
141	Chhindwara	bichua	बिछुआ-01	Chandkapur	Patpada	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
142	Chhindwara	chaurai	चौरई-01	Amabon	Dagawani Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
143	Chhindwara	chaurai	चौरई-01	Loni Khurd	Surangi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
144	Chhindwara	chhindwara	छिन्दवाड़ा-2-02	Dagawani Pipariya	Amabon	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
145	Chhindwara	chhindwara	छिन्दवाड़ा-1-01	Chhindwara	Patpada	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
146	Chhindwara	Harrai	हरई-02	Singodi	Ghondi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
147	Chhindwara	Harrai	बटकाखापा-01	Kareli	Damkhoh	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
148	Chhindwara	Harrai	हरई-02	Ghondi	Singodi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
149	Chhindwara	Harrai	बटकाखापा-01	Damkhoh	Damua	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
150	Chhindwara	jamai	दमुआ-01	Barud	Gurrekhurai Mau	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
151	Chhindwara	jamai	दमुआ-01	Gurrekhurai Mau	Barud	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
152	Chhindwara	jamai	जुन्नारदेव-02	Tillwat	Gurrekhurai Mau	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
153	Chhindwara	jamai	जुन्नारदेव-02	Simariya Sogar	Pither Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
154	Chhindwara	mohkhed	सावरी-01	Bhudhena	Patpada	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
155	Chhindwara	mohkhed	इफल बिहरी-02	Gadhmau	Bhudhena	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
156	Chhindwara	pandhuma	नादनवाडी-01	Ponar	Ajangaon	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
157	Chhindwara	pandhuma	पांडुरना-02	Ajangaon	Razhadipipla	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
158	Chhindwara	parasias	सिरगौरा-02	Mathni	Damua	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
159	Chhindwara	sausan	साँसर-01	Kajalwani	Paradsinga	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
160	Chhindwara	sausan	साँसर-01	Razhadipipla	Ajangaon	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
161	Chhindwara	sausan	साँसर-01	Paradsinga	Kajalwani	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
162	Chhindwara	tamia	तामिया-01	Tekapar	Umariya	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
163	Chhindwara	tamia	तामिया-01	Umariya	Tekapar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
164	Chhindwara	umrath	उमरेठ-01	Patpada	Bhudhena	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
165	Chhindwara	parasias	परासिया-01	Damua	Mathni	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
166	Datia	Seondha	Mangroul	Rajapura	Basturi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
167	Datia	Seondha	Sevda	Basturi	Rajapura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
168	Datia	Seondha	Tharet	Tharet	senhri	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
169	Datia	Indergarh	Kudhari	senhri	Tharet	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
170	Datia	Indergarh	Indergarh	Netuapura	Bhalka	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
171	Datia	Bhander	Godan	Bhalka	Netuapura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आँकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
172	Datia	Bhander	Pandokar	salon bhitari	Kutauli	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
173	Datia	Indergarh	Indergarh	khirka	bamrol	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
174	Datia	Bhander	Bhadorasopan	Kutauli	salon bhitari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
175	Datia	Datia	Wadonikurd	bamrol	ramsagar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
176	Datia	Datia	Datia	Kumhedi	khirka	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
177	Datia	Datia	Emilia	Buhara	kamad	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
178	Datia	Datia	Udgumha	palothar	satari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
179	Datia	Datia	Bilharikhurd	satari	ramsagar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
180	Datia	Datia	rajapur	larayat	Kumhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
181	Datia	Datia	Unav	kamad	Buhara	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
182	Datia	Bhander	Pandokar	bedhari	kamad	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
183	Datia	Datia	Wadonikurd	ramsagar	satari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
184	Datia	datia	Tappa Vasai	Basai	palothar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
185	Dhar	Sardarpur	Dasee-04	Tanda kheda	Hatod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
186	Dhar	Dhar	Tirala-02	Anjnal	Bawdi Khodra	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
187	Dhar	Gandhwani	Gandhav-01	Bawdi khodra (Kasvi)	Anjnal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
188	Dhar	Dhar	Tirala-02	Chelai (chakalya)	Anjnal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
189	Dhar	Badnawar	Badanaavar-01	Sandla	Manglya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
190	Dhar	Badnawar	Badanaavar-01	Kheda	Manglya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
191	Dhar	Sardarpur	Baramandal-01	Sandala	Bodiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
192	Dhar	Sardarpur	Amajhera-03	Hatod	Chandwada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
193	Dhar	Sardarpur	Baramandal-01	Bodiya	Sandala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
194	Dhar	Dhar	Naalachha-03	Sodpur	Kachhwanya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
195	Dhar	Manavar	Baakaaner-02	Umarbankalan	Balipur Bujurg	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
196	Dhar	Sardarpur	Saradaarapur-02	Bimrod	Ringnod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
197	Dhar	Sardarpur	Saradaarapur-02	Ringnod	Bimrod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
198	Dhar	Sardarpur	Saradaarapur-02	Mahapura	Bimrod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
199	Dhar	Manavar	Baakaaner-02	Balipur bujurg	Patlawad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
200	Dhar	Dharampuri	Dharamapuree-01	Patlawad	Kachhwanya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
201	Dhar	Manavar	Baakaaner-02	Jhirmi	Bramhanpuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
202	Dhar	Gandhwani	Gandhav-01	Chunpiya (Khedi Hanumah)	Pipribag	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
203	Dhar	Kukshi	Baag-01	Karanpura (Jari)	Bimrod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
204	Dhar	Kukshi	Baag-01	Pipribag (Pimpari)	Lengsari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
205	Dhar	Kukshi	Kukshee-02	Roja	Piipiyapani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
206	Dhar	Manavar	Manaavar-01	Bramhanpuri	Malhera	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
207	Dhar	Gandhwani	Gandhav-01	Malhera (Malwara)	Bramhanpuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
208	Dhar	Kukshi	Nisarapur-03	Khandawa	Bhawriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
209	Dhar	Kukshi	Baag-01	Piipiyapani (Banda)	Roja	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
210	Dhar	Manavar	Manaavar-01	Mehta khedi	Bramhanpuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
211	Dhar	Dahi	Dahee-01	Gajgota (Chehdiya)	Siddi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
212	Dhar	Dhar	Dhaar-01	Bijoor	Patwada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
213	Dhar	Badnawar	Kaanavan-02	Palwada	Makka Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
214	Dhar	Badnawar	Kaanavan-02	Karod kalan	Makka Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
215	Dhar	Badnawar	Badanaavar-01	Manglya	Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
216	Dhar	Dharampuri	Dharamapuree-01	Kachhwanya (Gadiyadagad)	Patlawad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
217	Dhar	Dahi	Dahee-01	Siddi	Gajgota	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
218	Dhar	Kukshi	Nisarapur-03	Bhawriya	Khandawa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
219	Dhar	Kukshi	Kukshee-02	Lengsari	Pipribag	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
220	Dhar	Badnawar	Kaanavan-02	Makka khedi (kesarpura)	Karod Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
221	Dhar	Dhar	Naalachha-03	Gularjhiri (Kunjiroad)	Pipalya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
222	Dhar	Dhar	Saagor-04	Kunwarsi	Pipalya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
223	Dhar	Dhar	Dhaar-01	Utawad	Pipalya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
224	Dhar	Dhar	Dhaar-01	Tisgaon	Chandwada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
225	Dhar	Dhar	Tirala-02	Chandwada	Tisgaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
226	Dhar	Dhar	Saagor-04	Pipalya	Utawad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
227	Dindori	Bajag	Kanrajiya maal-11	Bijauri	Parsel Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
228	Dindori	Bajag	Bajaag maal-09	Gaura kanhari	Chandrani Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्बन्धित मौसम केंद्र का नाम	सम्बन्धित मौसम केंद्र का वैकल्पिक मौसम केंद्र	बीमा कंपनी का नाम	मौसम के आंकड़ों प्रदायकता कंपनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
229	Dindori	Bajag	Kanrajiya maal-11	Karanjiya ryt.	Bijauri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
230	Dindori	Dindori	Amarapur-05	Lakhanpur ryt.	Padariya Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
231	Dindori	Bajag	Gorakhapur-12	Tarach	Bhusanda Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
232	Dindori	Bajag	Kanrajiya maal-11	Parsel mal.	Bijauri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
233	Dindori	Dindori	Sakka maal-06	Bahera mal.	Samnapur Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
234	Dindori	Dindori	Bamhane-08	Saliwada (chandrani ryt.)	Padariya Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
235	Dindori	Shahpura	Rayapura-01	Majhgaon mal.	Kohani Mya Karondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
236	Dindori	Shahpura	Shahapura-03	Rachho mal.	Shahpura (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
237	Dindori	Dindori	Vikramapur-02	Baghara (duhaniya)	Keolari Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
238	Dindori	Shahpura	Amera-04	Amera	Rachho Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
239	Dindori	Shahpura	Rae-07	Murlapani(mudrapani ryt.)	Kharagwara Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
240	Dindori	Dindori	Amarapur-05	Samnapur ryt.	Bahera Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
241	Dindori	Shahpura	Shahapura-03	Shahpura (Mudki)	Rachho Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
242	Dindori	Shahpura	Rae-07	Kharagwara ryt.	Mudrapani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
243	Dindori	Shahpura	Kohaane devaree-	Sarwahi mal. (kohani mya	Shahpura (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
244	Dindori	Shahpura	Bichhiya-05	Mohni mal.	Khairda Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
245	Dindori	Shahpura	Menhadavaanee-06	Khairda ryt.	Dulhari Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
246	Dindori	Shahpura	Menhadavaanee-06	Dulhari ryt.	Khairda Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
247	Dindori	Dindori	Shaahapur-01	Fadki mal.	Keolari Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
248	Dindori	Dindori	Shaahapur-01	Sarastal ryt.	Mohgaon Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
249	Dindori	Dindori	Vikramapur-02	Keolari ryt.	Duhaniya Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
250	Dindori	Dindori	Nyausa-04	Mohgaon ryt.	Sarastal Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
251	Dindori	Bajag	Gaadaasaree-10	Kaudiya	Gannaguda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
252	Dindori	Dindori	Dindauree-03	Dindori (Khanuja Colony))	Mohgaon Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
253	Dindori	Dindori	Bamhane-08	Beetanpur ryt.	Ramhepur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
254	Dindori	Dindori	Samanaapur-07	Ramhepur	Beetanpur Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
255	Dindori	Bajag	Gaadaasaree-10	Gannaguda	Kaudiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
256	Dindori	Bajag	Gorakhapur-12	Bhusanda mal.	Parsel Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
257	Dindori	Dindori	Samanaapur-07	Padariya ryt.	Lakhanpur Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
258	Dindori	Bajag	Bajaag maal-09	Dullopur	Gaura Kanhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
259	GWALIOR	BHITARWAR	Aakhni	bamroul	Baraya	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
260	GWALIOR	BHITARWAR	Bhitarwar	baraya	Bamroul	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
261	GWALIOR	CHINOUR	Chinor	chinor	Sankarpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
262	GWALIOR	DABRA	Dawra	dabra	Kisoli	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
263	GWALIOR	CHINOUR	Karhiya	dubahi	Syau	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
264	GWALIOR	BHITARWAR	Devshikla	gadhot	Syau	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
265	GWALIOR	DABRA	Tekhanpur	ghamadpura	Lakhanpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
266	GWALIOR	DABRA	Kariyavati	kisoli	Sunwai	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
267	GWALIOR	DABRA	Shuklahari	kitora	Behat	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
268	GWALIOR	DABRA	Vilova	lakhanpura	Ghamadpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
269	GWALIOR	DABRA	Pichor	nibi	Kitora	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
270	GWALIOR	CHINOUR	Aathri	nihora	Purrasani	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
271	GWALIOR	CHINOUR	Sikhroda	sankarpura	Chinor	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
272	GWALIOR	DABRA	Chimak	sunwai	Kisoli	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
273	GWALIOR	BHITARWAR	Richrikala	syau	Gadhota	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
274	GWALIOR	GWALIOR	Utila	gurri	Syawari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
275	GWALIOR	GWALIOR	Ghatigaon	aron	Ajappur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
276	GWALIOR	GWALIOR	Mehra	DONGARPUR	Lalitpur Colony	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
277	GWALIOR	GWALIOR	Purani Chavni	rairu	Jamahir	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
278	GWALIOR	GWALIOR	Badagaon	Behata	Shekhpura	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
279	GWALIOR	GWALIOR	Barie	Jadidrai	Ajappur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
280	GWALIOR	GWALIOR	Bahodapur	jamahir	Rairu	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
281	GWALIOR	GWALIOR	Behat	BEHAT	Jakhara	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
282	GWALIOR	GWALIOR	Mahalgao	purrasani	Nihora	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
283	GWALIOR	GWALIOR	Murar	Methana	Behata	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
284	GWALIOR	GWALIOR	Rehat	dorar	Ummedgarh	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
285	GWALIOR	GWALIOR	Sirsod	syawari	Sumerpada	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्पत्ति मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आँकड़े प्रदायदाता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Crdle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
286	GWALIOR	GWALIOR	Supavali	sumerpada	Behata	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
287	GWALIOR	GWALIOR	Hastinapur	Jakhara	Syawari	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
288	GWALIOR	GWALIOR	Girvai	Ajaypur	Aron	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
289	GWALIOR	GWALIOR	Khuledh	Mehadpur	Rairu	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
290	GWALIOR	GWALIOR	Mohana	UmmedgarH	Dorar	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
291	GWALIOR	GWALIOR	Lashkar	Lalitpur Colony	Dongarpur	HDFC ERGO GIC LTD.	NCMSL
292	Harda	Handia	Handiya-01	Bichhola ryt	Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
293	Harda	Rehatgaon	Rahatagaavn-02	Bhuraili (Dugalia)	Kalakahu	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
294	Harda	Timarni	Timarane-02	Pokharni	Mannasa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
295	Harda	Timarni	Karataana-01	Mannasa (Tajpura)	Pokharni	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
296	Harda	Handia	Avagaavnakalaan-02	Rijgaon	Baidi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
297	Harda	Handia	Handiya-01	Kheda	Baidi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
298	Harda	Rahatgaov	Rahatagaavn-02	Temaru bahar	Amba	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
299	Harda	Handia	Avagaavnakalaan-02	Baidi	Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
300	Harda	Rahatgaov	Sodalapur-01	Nimiyygaon	Amba	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
301	Harda	Sirali	Siraale-01	Sirali	Bhagwanpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
302	Harda	Sirali	Deepagaavn kala-02	Bhagwanpura	Sirali	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
303	Harda	Sirali	Deepagaavn kala-02	Kalakahu (Jamnya)	Bhuraili	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
304	Harda	Harda	Magaradha-02	Sirkamba (Surkharba)	Bamhangaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
305	Harda	Rehatgaon	Rahatagaavn-02	Amba (khatamakheda)	Nimiyygaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
306	Harda	Harda	Magaradha-02	Bamhangaon	Sirali	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
307	Harda	Timarni	Rahatagaavn-02	Churni (Badziri)	Bhuraili	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
308	Harda	Khirkiya	Chaarooava-02	Sangwa Cir (Jatpura Khirkiya)	Bhagwanpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
309	Harda	Khirkiya	Khirkiya-01	Sarangpur	Bhagwanpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
310	Harda	Harda	Harada-01	Harda (uda)	Rijgaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
311	Hoshangabad	Sohagpur	Dhapaadaakalaan-01	Rani gohan	Bareli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
312	Hoshangabad	Sohagpur	Shobhaapur-03	Bareli	Ghurela	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
313	Hoshangabad	Sohagpur	Sohaagapur-02	Dunda khapa	Bineka	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
314	Hoshangabad	Sohagpur	Sohaagapur-02	Chitor pattan	Bineka	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
315	Hoshangabad	Bankhedi	Umaradha-01	Nibhora	Mahgawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
316	Hoshangabad	Bankhedi	Banakhedee-03	Padrai thakur	Pipar Pani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
317	Hoshangabad	Bankhedi	Chaandaun-02	Mahgawan	Nibhora	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
318	Hoshangabad	Bankhedi	Banakhedee-03	Pipar pani	Padrai Thakur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
319	Hoshangabad	Pipariya	Taronakala-03	Bodna thakur	Pipariya Chandan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
320	Hoshangabad	Pipariya	Matakulee-04	Pipariya chandan (matkulee)	Bodna Thakur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
321	Hoshangabad	Seoni malwa	Satavaasa-05	Jatamau	Pipalgota	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
322	Hoshangabad	Seoni malwa	Satavaasa-05	Bhamedi	Pipalgota	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
323	Hoshangabad	Seoni malwa	Satavaasa-05	Pipalgota	Jatamau	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
324	Hoshangabad	Seoni malwa	Pagadhaal-02	Faridpur	Palasi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
325	Hoshangabad	Seoni malwa	Pagadhaal-02	Palasi	Faridpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
326	Hoshangabad	Itarsi	Kesala-03	Bhargada	Kohda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
327	Hoshangabad	Itarsi	Kesala-03	Pipariya kalan	Silari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
328	Hoshangabad	Itarsi	Kesala-03	Kohda	Bhargada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
329	Hoshangabad	Itarsi	Itaarasee-01	Jamani	Itarsi (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
330	Hoshangabad	Itarsi	Raampur-02	Silari	Pipariya Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
331	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangaabaad-02	Chandpura	Ari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
332	Hoshangabad	Itarsi	Itaarasee-01	Itarsi (m)	Jamani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
333	Hoshangabad	Babai	Baabee-02	Guradiyakalan	Furtala	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
334	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangaabaad-01	Barodiya kalan	Dolariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
335	Hoshangabad	Seoni malwa	Shivapur-01	Shivpur (Bhainsadeh)	Faridpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
336	Hoshangabad	Pipariya	Saandiya-01	Jhalon (dhasnsari)	Ghurela	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
337	Hoshangabad	Dolria	Dolariya 1-01	Misrod	Dolariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
338	Hoshangabad	Seoni malwa	Sivaneer maalava-03	Dhapadiya	Bhamedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
339	Hoshangabad	Seoni malwa	Khapariya-04	Khapariya	Misrod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
340	Hoshangabad	Dolria	Dolariya 2-02	Dolariya	Jamani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
341	Hoshangabad	Pipariya	Pipariya-02	Ghurela	Jhalon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
342	Hoshangabad	Babai	Aaree-01	Dondhai	Ari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित भीसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित भीसम केन्द्र का वैकल्पिक भीसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	भीसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
343	Hoshangabad	Babai	Aaree-01	Ari	Dondhal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
344	Hoshangabad	Piparia	Matakulee-04	Pachamari (Bari aam)	Nimkhan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
345	Hoshangabad	Babai	Ganera-03	Furtala	Guradiyakalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
346	Hoshangabad	Piparia	Matakulee-04	Nimkhan (Pagara)	Chitor Pattan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
347	Hoshangabad	Sohagpur	sohaagapur-02	Madai (Khapa)	Churna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
348	Jabalpur	Shahpura	02 shahapura-02	Bhamki	Dulhan Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
349	Jabalpur	Shahpura	01 pipariyaakalaan-	Pipariya kalan	Gadaghat	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
350	Jabalpur	Shahpura	01 pipariyaakalaan-	Singpur	Pipariya Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
351	Jabalpur	Shahpura	03 charagavaan-03	Dulhan kheda	Bhamki	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
352	Jabalpur	Kundam	Imalee-01	Kalyanpur	Rampuri Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
353	Jabalpur	Kundam	Kundam-02	Karaghat	Mahgawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
354	Jabalpur	Kundam	Kundam-02	Sandhi (sadh)	Mahgawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
355	Jabalpur	Kundam	Imalee-01	Kolmuhi	Pondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
356	Jabalpur	Sihora	01 khitaula-01	Budhuwa	Bhatuli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
357	Jabalpur	Sihora	02 majhagavaan-02	Bhatuli	Budhuwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
358	Jabalpur	Sihora	01 khitaula-01	Khajuri	Harsingi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
359	Jabalpur	Majhouli	Majhalee-01	Tagbaihar	Suhjani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
360	Jabalpur	Majhouli	Majhalee-01	Suhjani	Harsingi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
361	Jabalpur	Majhouli	Poda-02	Harsingi	Khajuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
362	Jabalpur	Majhouli	Poda-02	Khudawal	Budhuwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
363	Jabalpur	Majhouli	Poda-02	Dhangawan	Khudawal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
364	Jabalpur	Patan	Paatan-02	Gadaghat	Pipariya Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
365	Jabalpur	Patan	Kantagee-01	Ghatera	Karondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
366	Jabalpur	Patan	Paatan-02	Jarond	Tewar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
367	Jabalpur	Patan	Kantagee-01	Karondi	Ghatera	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
368	Jabalpur	Kundam	Imalee-01	Rampuri khurd	Kalyanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
369	Jabalpur	Kundam	Kundam-02	Mahgawan	Rampuri Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
370	Jabalpur	Sihora	02 majhagavaan-02	Pondi (Sundarpur)	Kolmuhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
371	Jabalpur	Shahpura	03 charagavaan-03	Urram	Dulhan Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
372	Jabalpur	Jabalpur	Khamhariya-04	Gadarkheda	Kolmuhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
373	Jabalpur	Jabalpur	Khamhariya-04	Kalgodi	Gadarkheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
374	Jabalpur	Panagar	Panaagar-01	Padri	Pondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
375	Jabalpur	Panagar	Panaagar-01	Singod	Padri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
376	Jabalpur	Panagar	Mahaaraajapur-02	Gcf jabalpur (ct)	Padri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
377	Jabalpur	Panagar	Mahaaraajapur-02	Kathoda	GCF Jabalpur (CT)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
378	Jabalpur	Jabalpur	Jabalapur-2-02	Tewar	Jotpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
379	Jabalpur	Jabalpur	Jabalapur-2-02	Jotpur	Tewar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
380	Jabalpur	Jabalpur	Baragee-03	Kaladehi	Gangdha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
381	Jabalpur	Jabalpur	Baragee-03	Gangdha	Kaladehi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
382	Jabalpur	Jabalpur	Baragee-03	Churiya	Jotpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
383	Jhabua	Jhabua	Thaandala-01	Semaliya khawasa	Chhota Naharpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
384	Jhabua	Thandla	Thaandala-01	Udepuriya	Goriya Khandan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
385	Jhabua	Ranapur	Raanaapur-01	Buchadungari	Dewalfaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
386	Jhabua	Petlavad	Raama-02	Golabadi	Jhabua (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
387	Jhabua	Jhabua	Jhaabua-01	Mod	Nawapada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
388	Jhabua	1 thandala	Raayapuriya-02	Salarpada	Garwa Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
389	Jhabua	1 thandala	Raama-02	Narsinghpura	Golabadi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
390	Jhabua	Rama	Raama-01	Sad	Jambu Kundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
391	Jhabua	Jhabua	Raanaapur-01	Dhamni ktara	Dewalfaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
392	Jhabua	Jhabua	Petalaavad-01	Ramgarh	Mandan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
393	Jhabua	1 thandala	Jhaabua-01	Nawapada (Taduli Falia)	Mod	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
394	Jhabua	Jhabua	Thaandala-01	Chhota naharpura	Jamda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
395	Jhabua	Jhabua	Raama-02	Jambu kundi (Jhiri)	Sad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
396	Jhabua	Ranapur	Raayapuriya-02	Garwa khedi	Jambu Kundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
397	Jhabua	Jhabua	Petalaavad-01	Mandan	Ramgarh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
398	Jhabua	1 thandala	Raanaapur-01	Dewalfaliya (Jungaon)	Buchadungari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
399	Jhabua	Meghnagar	Meghnagar	Kachaldara	Goriya Khandan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित नौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित नौसम केन्द्र का वैकल्पिक नौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	नौसम के अंकिते प्रदायदाता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
400	Jhabua	Petlavad	Meghnagar	Sajeli surji mogjisath	Nawapada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
401	Jhabua	Meghnagar	Meghnagar	Semalpada	Jamda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
402	Jhabua	Jhabua	Raayapuriya-02	Rafyawan (Mahankot)	Ramgarh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
403	Jhabua	Jhabua	Meghnagar	Jamda	Semalpada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
404	Jhabua	Petlavad	Thaandala-01	Goriya khandan	Udepuriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
405	Jhabua	Meghnagar	Jhaabua-01	Jhabua (m)	Nawapada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
406	Katni	Rithi	Reethee-01	Basubha	Nitarra	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
407	Katni	Vijayraghavgarh	Vijayraghavgarh-01	Baktha	Patwara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
408	Katni	Barhi	Barahee-01	Machhmachha	Karela	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
409	Katni	Vijayraghavgarh	Sinagaudee-02	Kundrehi	Bagaiha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
410	Katni	Badwara	Badavaara-01	Basadi	Bhadawar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
411	Katni	Dhimarkheda	Dheemarakheda-02	Kothi	Ghana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
412	Katni	Dhimarkheda	Dheemarakheda-02	Ghana	Kothi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
413	Katni	Dhimarkheda	Dheemarakheda-02	Khamtara	Jhiriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
414	Katni	Badwara	Badavaara-01	Bhadawar	Basadi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
415	Katni	Rithi	Vilaharee-02	Nitarra	Baryarpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
416	Katni	Rithi	Vilaharee-02	Baryarpur	Nitarra	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
417	Katni	Rithi	Reethee-01	Barji	Ghaniya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
418	Katni	Rithi	Reethee-01	Ghaniya	Basudha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
419	Katni	Vijayraghavgarh	Vijayraghavgarh-01	Kusma	Kundrehi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
420	Katni	Barhi	Barahee-01	Karela	Machhmachha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
421	Katni	Barhi	Barahee-01	Bagaiha	Machhmachha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
422	Katni	Katni	Mudavaara-1-02	Murwara (Chhahri)	Khajuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
423	Katni	Bahoriband	Sleemanaabaad-03	Kaudiya	Tewari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
424	Katni	Katni	Mudavaara-2-01	Patwara	Murwara (Katni) (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
425	Katni	Bahoriband	Baakal-01	Chhapari	Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
426	Katni	Bahoriband	Sleemanaabaad-03	Tewari	Kaudiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
427	Katni	Bahoriband	Bahoreeband-02	Bamhauri	Pathradi Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
428	Katni	Bahoriband	Bahoreeband-02	Pathradi pipariya	Bamhauri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
429	Katni	Bahoriband	Baakal-01	Baghraj khurd	Chhapari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
430	Katni	Dhimarkheda	Umariaapaan-01	Pipariya	Chhapari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
431	Katni	Dhimarkheda	Umariaapaan-01	Jhiriya	Pipariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
432	Katni	Bahoriband	Baakal-01	Pipariya	Jhiriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
433	Katni	Vijayraghavgarh	Sinagaudee-02	Vijayraghavgarh (np)	Kusma	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
434	Katni	Katni	Pahaadee-03	Khajuri(tarka tank)	Murwara (Katni) (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
435	Khandwa	Khandwa	Pipalod khaas-07	Chandpur ryt	Piplod Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
436	Khandwa	Khandwa	Singot-06	Gandhwa	Piplod Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
437	Khandwa	Pandhana	Boragaarv bujurg-03	Takali kalan	Borgaon Buzurg	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
438	Khandwa	Khandwa	Khandava -2-05	Lohari	Khandwa (M Corp.)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
439	Khandwa	Pandhana	Hulhaar-01	Koladit	Chhaigaon Makhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
440	Khandwa	Pandhana	Pandhaana-02	Mohanpur	Kusambiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
441	Khandwa	Pandhana	Pandhaana-02	Kusambiya	Mohanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
442	Khandwa	Khandwa	Singot-06	Bhagwanpura	Manpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
443	Khandwa	Khalwa	Khaalava-01	Kala aam mafi	Saliya Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
444	Khandwa	Khalwa	Roshanee-02	Mahelu	Mohalkhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
445	Khandwa	Harsud	Khaalava-01	Barmalaya ryt.	Killod Mal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
446	Khandwa	Harsud	Khaalava-01	Kukdhal	Malood	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
447	Khandwa	Harsud	Killod-01	Malood	Killod Mal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
448	Khandwa	Punasa	Maandhaata-01	Kelwa buzurg	Bayfal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
449	Khandwa	Punasa	Mohana-02	Piplani	Teliyamal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
450	Khandwa	Punasa	Punaasa-03	Pamakhedi	Chikhaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
451	Khandwa	Khalwa	Khandava -2-05	Buti	Khari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
452	Khandwa	Harsud	Chhanera-03	Saktapur ryt	Nandgaon Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
453	Khandwa	Harsud	Chhanera-03	Nandgaon khurd	Saktapur Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
454	Khandwa	Harsud	Harasood-02	Brhmdhad mal	Saktapur Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
455	Khandwa	Khandwa	Jaavar-03	Khutpal	Pipalkota	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
456	Khandwa	Khandwa	Jaavar-03	Pipalkota	Khutpal	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित बौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
457	Khandwa	Khandwa	Khandava-1-04	Siwana	Khandwa (M Corp.)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
458	Khandwa	Punasa	Maandhaata-01	Bayfal	Kelwa Buzurg	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
459	Khandwa	Khandwa	Mohana-02	Sali ryt	Bamjhar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
460	Khandwa	Punasa	Chichagohan-01	Bawadia	Mathela	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
461	Khandwa	Khandwa	Chhaigaanv maakhan-	Bhigawan nankari	Chhaigaon Makhan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
462	Khandwa	Punasa	Chichagohan-01	Mathela	Bawadia	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
463	Khandwa	Punasa	Maandhaata-01	Dhawadiya	Mathela	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
464	Khandwa	Khandwa	Khandava-1-04	Khandwa (m corp.)	Lohari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
465	Khandwa	Khandwa	Mohana-02	Bamjhar	Sali Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
466	Khandwa	Khalwa	Khandava-2-05	Jhirpa	Mohalkhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
467	Khandwa	Khalwa	Roshanee-02	Gulardhana	Kala Aam Mafi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
468	Khandwa	Punasa	Punaasa-03	Chikhaliya	Piplani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
469	Khandwa	Khalwa	Khaalava-01	Manpura	Saliya Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
470	Khandwa	Khalwa	Roshanee-02	Mohalkhari	Jhirpa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
471	Khandwa	Khalwa	Khandava-2-05	Chattu battu	Samasgarh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
472	Khandwa	Punasa	Khandava-1-04	Karond	Sali Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
473	Khandwa	Khalwa	Khandava-2-05	Taliyadhad	Manpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
474	Khandwa	Khalwa	Khaalava-01	Saliya kheda	Kala Aam Mafi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
475	Khandwa	Punasa	Mohana-02	Teliyamal	Piplani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
476	Khandwa	Khandwa	Chhaigaanv maakhan-	Chhaigaon makhan	Bhigawan Nankari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
477	Khandwa	Khandwa	Pipalod khaas-07	Pipalod khas	Chandpur Ryt	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
478	Khandwa	Punasa	Moondee-02	Mohanya kalan	Malood	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
479	Khandwa	Punasa	Mohana-04	Mundi (np)	Pipalkota	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
480	Khandwa	Khalwa	Khandava-2-05	Khari	Buti	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
481	Khandwa	Pandhana	Boragaanv bujurg-03	Borgaanv buzurg	Takali Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
482	Khandwa	Harsud	Killod-01	Killod mal	Malood	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
483	Khargone	Kasrawad	Kasrawad	Gawla	Chandanpuri	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
484	Khargone	Kasrawad	Kasrawad	Bhoinda	Motapura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
485	Khargone	Kasrawad	Kasrawad	Jahangirpura	Motapura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
486	Khargone	Maheswar	Karhi	Wani	Somakhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
487	Khargone	Bhikangaon	Bhikangaon	Chaundi	Sangvi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
488	Khargone	Jhiranya	Jhiranya	Nahaidari	Bagdari	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
489	Khargone	Kasrawad	Multan	Mohali (Pipalgone)	Mardanya (Jalud)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
490	Khargone	Kasrawad	Multan	Chandanpuri	Gawla	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
491	Khargone	Maheswar	Maheswar	Ashapur	Somakhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
492	Khargone	Segaon	Segaon	Jamnya	Jahangirpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
493	Khargone	Bhagwanpura	Bhagwanpura	Dhulkhot (Chainipura)	Khaparjamli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
494	Khargone	Sanawad	Biadiya	Dawalgaon	Chaundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
495	Khargone	Barwaha	Barwaha	Julwanya	Surpala	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
496	Khargone	Khargone	Khargone	Motapura	Jahangirpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
497	Khargone	Bhikangaon	Bhikangaon	Nuriya Khedi	Junapani	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
498	Khargone	Bhikangaon	Bhikangaon	Jamnya Buzurg	Bagdari	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
499	Khargone	Barwaha	Barwaha	Surpala	Julwanya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
500	Khargone	Jhiranya	Jhiranya	Bagdari	Jamnya Buzurg	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
501	Khargone	Khargone	Khargone	Dalka	Sangvi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
502	Khargone	Barwaha	Barwaha	Mundla	Kundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
503	Khargone	Maheswar	Maheswar	Somakhedi	Mardanya (Jalud)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
504	Khargone	Maheswar	Mandleshwar	Mardanya (Jalud)	Somakhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
505	Khargone	Sanawad	Sanawad	Sanawad (Ali Bujurg)	Junapani	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
506	Khargone	Bhagwanpura	Bhagwanpura	Sirwel	Khaparjamli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
507	Khargone	Barwaha	Barwaha	Kundi	Mundla	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
508	Khargone	Segaon	Segaon	Sangvi	Dalka	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
509	Khargone	Segaon	Segaon	Devli	Dalka	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
510	Khargone	Bhagwanpura	Bhagwanpura	Khaparjamli	Sirwel	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
511	Khargone	Sanawad	Sanawad	Junapani	Sanawad (Ali Bujurg)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
512	Mandla	Ghughari	Mohagaanv-01	Sakri	Mudadih Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
513	Mandla	Mandla	Mandala ba-03	Mudadih ryt.	Jantipur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केंद्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केंद्र का वैकल्पिक मौसम केंद्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
514	Mandla	Niwas	Niwas	Ghurner	Niwas (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
515	Mandla	Mandla	Mahaaraajapur--02	Pondi	Malpathar F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
516	Mandla	Bichhiya	Khatiya naarangee--	Khuksar	Kakaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
517	Mandla	Mandla	Bamhane--01	Limarua	Oghat Khapri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
518	Mandla	Naipur	Nainapur--01	Gokalthana	Dhamangaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
519	Mandla	Mawal	Mavee--04	Anjani mal (amgahan f.v.)	Surajpura F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
520	Mandla	Mandla	Mandala ba--03	Jantipur	Mudadih Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
521	Mandla	Niwas	Niwas	Niwas (Gajidebi)	Ghurner	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
522	Mandla	Ghughari	Mohagaanv--01	Pondi mal (Jhugri Pondi)	Sakri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
523	Mandla	Ghughari	Mohagaanv--01	Mirchakheda f.v.	Banehari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
524	Mandla	Ghughari	Ghugharee--02	Chauba	Mahli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
525	Mandla	Ghughari	Ghugharee--02	Chhata mal.	Mahli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
526	Mandla	Ghughari	Ghugharee--02	Mahli	Chhata Mal.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
527	Mandla	Ghughari	Ghugharee--02	Banehari	Mahli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
528	Mandla	Narayanganj	Naaraayanaganj--02	Dehra	Khamhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
529	Mandla	Narayanganj	Beejaadaandee--01	Bijadandi	Gujar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
530	Mandla	Niwas	Niwas	Bhadari	Dahna Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
531	Mandla	Niwas	Niwas	Dahna ryt.	Bhadari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
532	Mandla	Niwas	Babaliya--02	Narayanganj (simariya ryt)	Niwas (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
533	Mandla	Niwas	Babaliya--02	Salhepani (dobhi)	Malara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
534	Mandla	Mandla	Bamhane--01	Oghat khapri	Limarua	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
535	Mandla	Bichhiya	Anjaniya--01	Kharrajhar	Dei	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
536	Mandla	Bichhiya	Bichhiya--02	Dei	Kharrajhar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
537	Mandla	Bichhiya	Ghutaas--03	Sahajpuri ryt.	Pipri Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
538	Mandla	Bichhiya	Ghutaas--03	Pipri ryt.	Sahajpuri Ryt.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
539	Mandla	Bichhiya	Mavee--04	Surajpura f.v.	Amgahan F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
540	Mandla	Bichhiya	Mavee--04	Madhwa ryt.	Amgahan F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
541	Mandla	Bichhiya	Bichhiya--02	Dharampuri mal.	Manoharpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
542	Mandla	Bichhiya	Bichhiya--02	Manoharpur	Kanha Kiski F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
543	Mandla	Bichhiya	Anjaniya--01	Kakaliya	Oghat Khapri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
544	Mandla	Narayanganj	Beejaadaandee--01	Gujar	Bijadandi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
545	Mandla	Naraayanganj	Naaraayanaganj--02	Malara	Salhepani (Dobhi)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
546	Mandla	Bijadandi	Beejaadaandee--01	Khamhi	Gujar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
547	Mandla	Mandla	Mahaaraajapur--02	Malpathar f.v.	Pondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
548	Mandla	Nainpur	Nainapur--01	Tikariya	Dungariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
549	Mandla	Nainpur	Nainapur--01	Dungariya	Tikariya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
550	Mandla	Nainpur	Chireedongaree--02	Dhamangaon	Gokalthana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
551	Mandla	Nainpur	Chireedongaree--02	Pondi	Gokalthana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
552	Mandla	Nainpur	Chireedongaree--02	Amjhar mal.	Pondi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
553	Mandla	Bichhiya	Khatiya naarangee--	Kanha kiski (Khatia)	Jarga F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
554	Mandla	Narayanganj	Beejaadaandee--01	Lawar mundiya mal.	Bijadandi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
555	Mandla	Bichhiya	Khatiya naarangee--	Katangi (Bara Tola.)	Kanha Kiski F.V.	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
556	Mandsaur	Malhaargarh	Budha	Kamliya (Borkheri)	Bardiya uncha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
557	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Bugaliya	Damdarn	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
558	Mandsaur	Sitamau	Kayampur	Risthal	Bardiya uncha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
559	Mandsaur	Malhaargarh	Malhaargarh	Janya Khedi	Dorwada	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
560	Mandsaur	Garoth	Garoth	Dhalmu	Sapanya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
561	Mandsaur	Suwasara	Suwasara	Bangli	Lakhwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
562	Mandsaur	Dalauda	Akodada	Tajkhedi	Dhundhadka	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
563	Mandsaur	Shamgarh	Shamgarh	Makdawan	Bangli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
564	Mandsaur	Bhanpura	Bhanpura	Dhawad Bujurg	Neemthur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
565	Mandsaur	Shamgarh	Shamgarh	Bardiya uncha	Risthal	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
566	Mandsaur	Bhanpura	Bhanpura	Neemthur	Kudi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
567	Mandsaur	Bhanpura	Bhanpura	Kudi	Neemthur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
568	Mandsaur	Suwasara	Suwasara	Lakhwa	Bangli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
569	Mandsaur	Malhaargarh	Malhaargarh	Khankharai	Bugaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
570	Mandsaur	Garoth	Garoth	Sapanya	Makdawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित गीसन केन्द्र का नाम	सन्दर्भित गीसन केन्द्र का वैकल्पिक गीसन केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	गीसन के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
571	Mandsaur	Sitamau	Sitamau	Titrod	Bhuwangarh	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
572	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Banskhedi	Dorwada	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
573	Mandsaur	Malhaargarh	Budha	Dorwada	Banskhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
574	Mandsaur	Sitamau	Sitamau	Bhuwangarh	Titrod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
575	Mandsaur	Mandsaur	Dhundhadka	Dhundhadka	Tajkhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
576	Mandsaur	Mandsaur	Dhundhadka	Damdarn	Bugaliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
577	Morena	Ambah	Shihonia	Shihonia	Bamhrauli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
578	Morena	Sabalgrah	Jhundpura	Gurena	Devpur Maphi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
579	Morena	Jaura	Pahadagada	Areti	Pali	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
580	Morena	Sabalgrah	Mamngaorala	Ponchhari	Devpur Maphi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
581	Morena	Jaura	Jaura	Mai	Mainabasai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
582	Morena	Morena	Navalibadagaon	Sirimiti	Piparseva	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
583	Morena	Porsa	Mahua	Rakhed	Porsa	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
584	Morena	Jaura	Sumavali	Bagiyapura	Mainabasai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
585	Morena	Jaura	Bagchini	Bagwan Ka Pura	Mai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
586	Morena	Sabalgrah	Tentra	Manpur	Ponchhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
587	Morena	Morena	Muraina Sehar	Muraina	Nawali	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
588	Morena	Morena	Ritorakala	Piparseva	Pamaya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
589	Morena	Ambah	Ambah	Nawali	Muraina	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
590	Morena	Morena	Bamrauli	Bamhrauli	Kishanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
591	Morena	Ambah	Dimni	Johar	Gospur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
592	Morena	Kailras	Mamacauna	Konda	Kutrawali	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
593	Morena	Kailras	Kailras	Malibajana	Ahroli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
594	Morena	Porsa	Rajodha	Dondari	Porsa	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
595	Morena	Jaura	Brra	Ahroli	Malibajana	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
596	Morena	Kailras	Sujarma	Kutrawali	Gurena	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
597	Morena	Morena	Bamour	Pamaya	Jarerua	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
598	Morena	Sabalgrah	Rampura	Bamsoli	Devpur Maphi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
599	Morena	Jaura	Pahadagada	Pali	Areti	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
600	Morena	Morena	Nurabad	Jarerua	Kishanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
601	Morena	Morena	Jingani	Kishanpur	Jarerua	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
602	Morena	Jaura	Pahadagada	Mainabasai	Bagiyapura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
603	Morena	Sabalgrah	Sabalgrah	Devpur Maphi	Ponchhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
604	Morena	Morena	Mundawali	Jarah	Gospur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
605	Morena	Porsa	Porsa	Porsa	Dondari	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
606	Morena	Morena	Mrigipura	Gospur	Jarah	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
607	Narsinghpur	Gotegaon	Shreenagar-03	Dungariya	Batka	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
608	Narsinghpur	Gotegaon	Goteganaav-02	Kanjai	Majni	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
609	Narsinghpur	Gotegaon	Barahata-04	Ronsara	Batka	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
610	Narsinghpur	Gotegaon	Shreenagar-03	Majni	Kanjai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
611	Narsinghpur	Gotegaon	Barahata-04	Batka	Ronsara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
612	Narsinghpur	Kareli	Karelee-02	Kathotiya	Singhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
613	Narsinghpur	Tendukheda	Tendookheda-01	Guwari	Imjhira	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
614	Narsinghpur	Tendukheda	Chovarapaatha-02	Chhatarpur	Barman Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
615	Narsinghpur	Tendukheda	Tendookheda-01	Imjhira	Guwari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
616	Narsinghpur	Tendukheda	Chovarapaatha-02	Bilhara	Kumhroda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
617	Narsinghpur	Kareli	Baramaan-01	Kumhroda	Bilhara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
618	Narsinghpur	Kareli	Aamagov-03	Baheriya	Nanori	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
619	Narsinghpur	Kareli	Aamagov-03	Nanori	Singhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
620	Narsinghpur	Gadarwara	Vohaanee-05	Nayegaon	Chamchon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
621	Narsinghpur	Gadarwara	Devaree-06	Pali	Rampura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
622	Narsinghpur	Gadarwara	Saaneenkhedha-02	Rampura	Sansar Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
623	Narsinghpur	Gadarwara	Saaneenkhedha-02	Sansar kheda	Rampura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
624	Narsinghpur	Gadarwara	Baabeekala-08	Maregaon	Guwari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
625	Narsinghpur	Gadarwara	Ekarapagaanv-07	Saori	Dhameta	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
626	Narsinghpur	Gadarwara	Sihora-04	Barman khurd	Chhatarpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
627	Narsinghpur	Gadarwara	Gaadaravaara-01	Chamchon	Nayagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
628	Narsinghpur	Gadarwara	Ekarapagaanv-07	Dhameta	Saori	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
629	Narsinghpur	Gadarwara	Sihora-04	Mahguwan	Nayagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
630	Narsinghpur	Gadarwara	Cheechalee-03	Badagaon(gotitoriya)	Guwari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
631	Narsinghpur	Gadarwara	Cheechalee-03	Bandar barru (Gagai)	Badagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
632	Narsinghpur	Gadarwara	Baabekala-08	Guwari	Maregaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
633	Narsinghpur	Narsingpur	Narasinhapur-01	Hadikat (sarsala)	Malkuhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
634	Narsinghpur	Narsingpur	Narasinhapur-01	Malkuhi (indira nagar)	Hadikat	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
635	Narsinghpur	Narsingpur	Narasinhapur-02	Singpur	Barurewa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
636	Narsinghpur	Narsingpur	Mugavaanee-04	Pindrai	Gorakhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
637	Narsinghpur	Narsingpur	Mugavaanee-04	Gorakhpur	Pindrai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
638	Narsinghpur	Narsingpur	Mugavaanee-04	Dungariya	Gorakhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
639	Narsinghpur	Narsingpur	Narasinhapur-01	Dhamna	Chhidamani	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
640	Narsinghpur	Gotegaon	Karakabel-01	Chhidamani	Ronsara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
641	Narsinghpur	Narsingpur	Bachee-03	Barurewa	Singhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
642	Neemuch	Manasa	Kukdeshwar	Shivpuriya Kua	Talau	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
643	Neemuch	Singoli	Singoli	Parlai	Pipalrawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
644	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Dudarsi	Borkhedikalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
645	Neemuch	Singoli	Singoli	Singholi	Pipalrawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
646	Neemuch	Manasa	Manasa	Bawada	Gafarda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
647	Neemuch	Jiran	Jiran	Amawalijagir	Banskheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
648	Neemuch	Jiran	Jiran	Banskheda	Amawalijagir	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
649	Neemuch	Javad	Javad	Guthlai	Melankheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
650	Neemuch	Javad	Javad	Melankheda	Samel	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
651	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Borkhedikalan	Dudarsi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
652	Neemuch	Manasa	Manasa	Mahagarh	Talau	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
653	Neemuch	Singoli	Jhantala	Pipalrawan	Singholi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
654	Neemuch	Javad	Morwan	Samel	Melankheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
655	Neemuch	Neemuch	Sawan	Jawasa	Bawada	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
656	Neemuch	Singoli	Ratangarh	Nim Ka Kheda	Guda parihar(jivapura)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
657	Neemuch	Singoli	Ratangarh	Daulatpura	Guthlai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
658	Neemuch	Javad	Morwan	Guda parihar(jivapura)	Samel	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
659	Neemuch	Manasa	Kukdeshwar	Gafarda	Bawada	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
660	Neemuch	Manasa	Kukdeshwar	Talau	Deoran	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
661	Neemuch	Rampura	Rampura	Deoran	Talau	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
662	Neemuch	Rampura	Rampura	Boojh	Shivpuriya Kua	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
663	Ratlam	Piploda	Kalukheda	Ranigaon	Chandavata	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
664	Ratlam	Piploda	Piploda	Chandavata	Ranigaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
665	Ratlam	Jaora	Dhodhar	Rola	Marmya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
666	Ratlam	Piploda	Piploda	Machun	Barpati	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
667	Ratlam	Alot	Alot	Jalodiya	Joyan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
668	Ratlam	Alot	Alot	Joyan	Jalodiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
669	Ratlam	Sailana	Sailana	Sailana	Barpati	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
670	Ratlam	Tall	Tall	Karwa Khedi	Batwadiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
671	Ratlam	Jaora	Jaora	Hiru Khedi	Batwadiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
672	Ratlam	Ratlam	Namli	Namli	Nagra	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
673	Ratlam	Bajna	Bajna	Salardoja	Longarji (Rampuriya)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
674	Ratlam	Rawti	Rawti	Gangavtapada	Bibdod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
675	Ratlam	Jaora	Dhodhar	Marmya	Karwa Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
676	Ratlam	Sailana	Sailana	Barpati	Sailana	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
677	Ratlam	Tall	Tall	Bilawali	Batwadiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
678	Ratlam	Ratlam	Ratlam Sahar	Ratlam Sahar	Bibdod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
679	Ratlam	Ratlam	Ratlam Gram	Nagra	Namli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
680	Ratlam	Ratlam	Ratlam Gram	Bibdod	Ratlam Sahar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
681	Ratlam	Sailana	Shivgarh	Longarji (Rampuriya Gurjan)	Salardoja	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
682	Ratlam	Jaora	Jaora	Batwadiya	Karwa Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
683	Ratlam	Ratlam	Biplok	Kotadi	Umar Thana	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
684	Ratlam	Ratlam	Biplok	Umar Thana	Kotadi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्बन्धित नौसम केन्द्र का नाम	सम्बन्धित नौसम केन्द्र का वैकल्पिक नौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	नौसम के डाटा प्रदायता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
685	Ratlam	Ratlam	Mundi	Uni	Umar Thana	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
686	Shahdol	Gohparu	Khannaudhee-01	Jannaudi	Deora	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
687	Shahdol	Gohparu	Chuhiree-02	Maharoai	Bharri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
688	Shahdol	Gohparu	Chuhiree-02	Bharri	Maharoai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
689	Shahdol	Gohparu	Gohapaaroo-03	Dewodaha (Karua)	Son Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
690	Shahdol	Sohagpur	Sinhapur-07	Jodhpur	Shahdol (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
691	Shahdol	Sohagpur	Kanchanapur-05	Nawalpur	Shahdol (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
692	Shahdol	Burhar	Khairaha-03	Koilaha (Baigin)	Bagpar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
693	Shahdol	Burhar	Budhaar-01	Jarwahi	Khairbana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
694	Shahdol	Burhar	Dhanapuree-02	Bagpar	Koilaha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
695	Shahdol	Burhar	Budhaar-01	Khairbana	Jarwahi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
696	Shahdol	Jaitpur	Roopaula-04	Kothital (Kudeli)	Koti	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
697	Shahdol	Jaitpur	Roopaula-04	Koti (Rupoula)	Kothital	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
698	Shahdol	Vyohari	Papaundh-01	Baraththa (Alhara)	Khaira	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
699	Shahdol	Beohari	Papaundh-01	Hirwar	Baraththa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
700	Shahdol	Beohari	Papaundh-01	Jamuniha (Papodh)	Hirwar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
701	Shahdol	Beohari	Byauhaaree-02	Khaira	Kalhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
702	Shahdol	Beohari	Budava-04	Magardaha (Dhari No.1)	Sejhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
703	Shahdol	Beohari	Khaand-03	Sejhari	Kalhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
704	Shahdol	Beohari	Byauhaaree-02	Kalhari	Khaira	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
705	Shahdol	Jai singh nagar	Tihakee-01	Basahi	Deolihan Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
706	Shahdol	Jaitpur	Bijuree-03	Jhik		HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
707	Shahdol	Jai singh nagar	Aamadeeh 02-02	Balodi west	Malauti	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
708	Shahdol	Jai singh nagar	Jayasinhanagar-04	Deora	Jannaudi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
709	Shahdol	Jai singh nagar	Kanaadeekhurd-03	Nadna	Kanadi Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
710	Shahdol	Jai singh nagar	Kanaadeekhurd-03	Kanadi kalan	Nadna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
711	Shahdol	Jai singh nagar	Aamadeeh 02-02	Malauti	Pahadiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
712	Shahdol	Jai singh nagar	Banasukalee-05	Pahadiya	Kunda Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
713	Shahdol	Jai singh nagar	Banasukalee-05	Kunda tola	Pahadiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
714	Shahdol	Jai singh nagar	Amajhor-06	Kudari	Kunda Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
715	Shahdol	Sohagpur	Sohaagapur nan. 2--	Son tola	Dewodaha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
716	Shahdol	Gohparu	Laphada-04	Bhadras (Bhaga)	Dongariya Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
717	Shahdol	Jaitpur	Rasamohane-01	Rasmohani	Bharri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
718	Shahdol	Jaitpur	Jaitpur-02	Karhi tola	Kothital	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
719	Shahdol	Jaitpur	Keshavaahee-06	Kumhari	Koti	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
720	Shahdol	Sohagpur	Sohaagapur nan.1-06	Lamro	Shahdol (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
721	Shahdol	Sohagpur	Sohaagapur nan.1-06	Shahdol (m) (Gortara)	Jodhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
722	Shahdol	Sohagpur	Amaraha-08	Nipaniya	Jodhpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
723	Shahdol	Gohparu	Khannaudhee-01	Palso	Maharoai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
724	Shahdol	Jai singh nagar	Tihakee-01	Deolihan tola	Basahi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
725	Shahdol	Jai singh nagar	Jayasinhanagar-04	Chandela	Deora	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
726	Shahdol	Vyohari	Aakhetapur-05	Akhetpur	Kalhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
727	Shahdol	Burhar	Channaudee-05	Channoudi (dongariya tola)	Bhadras	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
728	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Barwal	Pipaliya Naulay	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
729	Shajapur	Kalapipal	Arniya Kala	Jawadiya Dharwas	Sadan Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
730	Shajapur	Avantipur Badodiya	Avantipur Badodiya	Awantipur Badodia	Mugod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
731	Shajapur	Polay Kalan	Sundarsi	Khamkheda Sundarsi	Mugod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
732	Shajapur	Kalapipal	Kalapipal	Khardon Kalan	Sadan Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
733	Shajapur	Gulana	Gulana	Salsalai	Shadipura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
734	Shajapur	Moman Badodiya	Moman Badodiya	Kadula	Shadipura	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
735	Shajapur	Shujalpur	Shujalpur	Madavar	Mugod	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
736	Shajapur	Kalapipal	Kalapipal	Sadan Khedi	Jawadiya Dharwas	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
737	Shajapur	Moman Badodiya	Moman Badodiya	Pipaliya Naulay	Barwal	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
738	Shajapur	Moman Badodiya	Moman Badodiya	Shadipura	Salsalai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
739	Shajapur	Polay Kalan	Avantipur Badodiya	Mugod	Awantipur Badodia	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
740	Shajapur	Shajapur	Maksi	Siroliya	Berchha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
741	Shajapur	Shajapur	Bercha	Berchha	Siroliya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्बंधित मौसम केंद्र का नाम	सम्बंधित मौसम केंद्र का वैकल्पिक मौसम केंद्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के डाटा प्रदायता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
742	Sheopur	Sheorpur	Manpur	Bahrawada	Heerapur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
743	Sheopur	Sheorpur	Manpur	Bagdiya	Heerapur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
744	Sheopur	Sheorpur	Premisar	Sitakhedi	Sheopur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
745	Sheopur	Karhal	Goras	Dob	Moravan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
746	Sheopur	Beerpur	Raghupur	Tarra kalan	Ochha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
747	Sheopur	Karhal	Goras	Heerapur	Bahrawada	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
748	Sheopur	Vijaypur	Agara	Agara	Aroda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
749	Sheopur	Baroda	Pandola	Pandoli	Bhilwadia	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
750	Sheopur	Beerpur	Raghupur	Ochha	Tarra kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
751	Sheopur	Karhal	Goras	Goras	Karahal	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
752	Sheopur	Vijaypur	Agara	Aroda	Sunwai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
753	Sheopur	Vijaypur	Nagaswani	Simrai	Budhera	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
754	Sheopur	Beerpur	Beerpur	Telipura	Upcha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
755	Sheopur	Vijaypur	Vijaypur	Sunwai	Upcha	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
756	Sheopur	Karhal	Phela	Malipura	Pandoli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
757	Sheopur	Vijaypur	Vijaypur	Upcha	Sunwai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
758	Sheopur	Karhal	Phela	Jhiranya	Ratodan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
759	Sheopur	Karhal	Karhal	Karahal	Goras	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
760	Sheopur	Baroda	Baroda	Ratodan	Bhilwadia	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
761	Sheopur	Karhal	Karhal	Moravan	Karahal	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
762	Sheopur	Baroda	Baroda	Bhilwadia	Ratodan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
763	Sheopur	Sheorpur	Sheorpur	Sheopur	Pandoli	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
764	Sheopur	Vijaypur	Nagaswani	Budhera	Simrai	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
765	Shivpuri	Shivpuri	Shubhashpura	GOPALPUR	Mudkheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
766	Shivpuri	Shivpuri	Shubhashpura	Bijrawan	Badagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
767	Shivpuri	Narwar	Karhi	Bahagawan	Silra	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
768	Shivpuri	Narwar	Karhi	Silra	Bahagawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
769	Shivpuri	Narwar	Karhi	Sunari	Bahagawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
770	Shivpuri	Karera	Dinara	Chandwara	NICHRAULI	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
771	Shivpuri	Bairad	Bairad	Bhim Lad	Jariya Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
772	Shivpuri	Karera	Karera	Rajgarh	Khairaghat	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
773	Shivpuri	Narwar	Narwar	Kisanpur	Barkhadi(Amarpur)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
774	Shivpuri	Kolaras	Kolaras	Karhahi	Ram Nagar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
775	Shivpuri	Bairad	Bairad	Ummedpura(Narayanpura)	Jariya Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
776	Shivpuri	Pichhore	Khod	Naguli(Papawali)	GADHOIYA	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
777	Shivpuri	Khaniyadhana	Khaniyadhana	Loharchha (Badli)	Bhagwan	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
778	Shivpuri	Narwar	Narwar	Barkhadi(Amarpur)	Kisanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
779	Shivpuri	Badarwas	Badarwas	Salon	Daulatpur (Barud)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
780	Shivpuri	Kolaras	Kolaras	Ram Nagar	Badagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
781	Shivpuri	Shivpuri	Shubhashpura	Bamhari	Kisanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
782	Shivpuri	Pichhore	Khod	GADHOIYA	Naguli(Papawali)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
783	Shivpuri	Karera	Karera	Khairaghat	NICHRAULI	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
784	Shivpuri	Shivpuri	Shubhashpura	Mudkheda	GOPALPUR	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
785	Shivpuri	Badarwas	Badarwas	Daulatpur (Barud)	Salon	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
786	Shivpuri	Khaniyadhana	Khaniyadhana	Chamrauwa	Kafar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
787	Shivpuri	Bairad	Gowardhan	Jariya Khurd	Bhim Lad	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
788	Shivpuri	Kolaras	Lukawas	Chandoriya	Kherona dang	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
789	Shivpuri	Kolaras	Lukawas	Kherona dang	Chandoriya	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
790	Shivpuri	Badarwas	Ranoud	Amhara	Akoda	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
791	Shivpuri	Pichhore	Manpura	BHONTI	Himmatpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
792	Shivpuri	Pichhore	Manpura	Nayakheda	Chamrauwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
793	Shivpuri	Badarwas	Ranoud	Akoda	Amhara	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
794	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Karai	Badagaon	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
795	Shivpuri	Karera	Dinara	NICHRAULI	Khairaghat	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
796	Shivpuri	Pichhore	Manpura	Himmatpur	BHONTI	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
797	Shivpuri	Khaniyadhana	Muhari	Kafar	Chamrauwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
798	Shivpuri	Pohri	Pohri	Bhatnawat	Piparghar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
799	Shivpuri	Pichhore	Pichhore	Bhagwan	Loharchha (Badli)	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
800	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Badagaon	Ram Nagar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
801	Shivpuri	Khaniyadhana	Muhari	Niboda	Kafar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
802	Shivpuri	Pichhore	Manpura	Bilrai	BHONTI	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
803	Shivpuri	Pohri	Charkha	Piparghar	Bhatnawat	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
804	Shivpuri	Pohri	Charkha	Chharch	Piparghar	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
805	Tikamgarh	Jatara	Jataara-02	Jatara (np)	Piprat	HDFC ERGO GIC LTD.	Ingen
806	Tikamgarh	Palera	Palera-03	Guda najdik (Palli)	Jatara (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
807	Tikamgarh	Lithaura	Lidhaura-01	Lidhora	Dhamna Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
808	Tikamgarh	Khargapur	Kudeela-02	Patti rampalsingh	Bhanpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
809	Tikamgarh	Niwadi	Nivaadee-02	Beejour	Tarichar Kalan (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
810	Tikamgarh	Khargapur	Kharagaapur-01	Khargapur (np)	Guda Najdik Palli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
811	Tikamgarh	Prithvipur	Naigunva-01	Chandrapura khas	Orchha (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
812	Tikamgarh	Lithaura	Syaavane-02	Madori	Nuna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
813	Tikamgarh	Lithaura	Syaavane-02	Nuna	Madori	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
814	Tikamgarh	Niwadi	Nivaadee-02	Baraipura	Nuna	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
815	Tikamgarh	Mohangad	Mohanagadh-01	Gyaajeetpura	Nandanpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
816	Tikamgarh	Jatara	Digoda-01	Dhamna khas (Deokha)	Lidhora	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
817	Tikamgarh	Mohangad	Gor-02	Nandanpur (Madkhera)	Dhamna Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
818	Tikamgarh	Niwadi	Tareecharakala-01	Tarichar kalan (np)	Durgapur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
819	Tikamgarh	Khargapur	Kudeela-02	Bhanpura	Patti Rampalsingh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
820	Tikamgarh	Tikamgarh	Teekamagadh-01	Mavai	Baisa Ugad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
821	Tikamgarh	Tikamgarh	Teekamagadh-01	Uttampura	Mavai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
822	Tikamgarh	Tikamgarh	Badaagaanv-03	Dunda toro	Bhaisawari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
823	Tikamgarh	Tikamgarh	Badaagaanv-03	Bhaisawari	Dunda Toro	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
824	Tikamgarh	Palera	Varaana-02	Touriya ugad	Palera (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
825	Tikamgarh	Orchha	Orchha-01	Orchha (np)	Chandrapura Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
826	Tikamgarh	Tikamgarh	Samarra-02	Nachanwara	Basgoi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
827	Tikamgarh	Tikamgarh	Samarra-02	Basgoi	Nachanwara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
828	Tikamgarh	Palera	Palera-03	Palera (np)	Touriya Ugad	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
829	Tikamgarh	Jatara	Jataara-02	Piprat	Jatara (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
830	Tikamgarh	Palera	Varaana-02	Alipur	Jatara (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
831	Tikamgarh	Orchha	Orchha-01	Pathari	Orchha (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
832	Tikamgarh	Prathavipur	Prthveepur-03	Birora pahad bhata	Birora Khet	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
833	Tikamgarh	Niwadi	Tareecharakala-01	Durgapur	Tarichar Kalan (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
834	Tikamgarh	Baldevgad	Baldevagadh-01	Baisa ugad	Rampura Naj Sebar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
835	Tikamgarh	Baldevgad	Baldevagadh-01	Rampura nathsevar	Hata	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
836	Tikamgarh	Baldevgad	Daaragunva-02	Hata	Rampura Naj Sebar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
837	Tikamgarh	Baldevgad	Daaragunva-02	Gujrayatan khas	Hata	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
838	Tikamgarh	Prathavipur	Simara-02	Todi	Birora Khet	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
839	Tikamgarh	Niwadi	Nivaadee-02	Naya khera	Chandrapura Khas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
840	Tikamgarh	Prathavipur	Prthveepur-03	Birora khet	Birora Pahad Bhata	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
841	Ujjain	Ujjain	Chintaaman javaasiya-	Sabalpur(Khemasa)	Jastikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
842	Ujjain	Badnagar	Badanagar-03	Jhalaria	Baledi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
843	Ujjain	Ujjain	Ujjain-02	Jastikhedi	Kokalakhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
844	Ujjain	Badnagar	Badanagar-03	Dhaturiya (Bangred)	Jhalaria	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
845	Ujjain	Khachrod	Ghinoda-01	Sendri	Akyajagir	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
846	Ujjain	Khachrod	Khaacharaud-02	Bhat khedi	Ghudawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
847	Ujjain	Khachrod	Ghinoda-01	Akyajagir	Sendri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
848	Ujjain	Mahidpur	Jhaarada-01	Sagwali	Binpura	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
849	Ujjain	Nagda	Naagada-01	Rohal kalan	Nagda (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
850	Ujjain	Nagda	Naagada-01	Banbana	Nagda (M)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
851	Ujjain	Mahidpur	Mahidapur-02	Kanakhedi harbans	Alakheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
852	Ujjain	Mahidpur	Mahidapur-02	Binpura	Kanakhedi Harbans	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
853	Ujjain	Ghattiya	Ghattiya-02	Malikhedi	Lakhaheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
854	Ujjain	Khachrod	Madaavada-03	Barthun	Narsingharh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
855	Ujjain	Badnagar	Roonajja-01	Balodalakha	Kharsodkalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का बैकअप मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
856	Ujjain	Khachrod	Madaavada-03	Narsingharh	Barthun	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
857	Ujjain	Mahidpur	Jhaarada-01	Aranyabagda	Indokh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
858	Ujjain	Mahidpur	Jhaarada-01	Indokh	Aranyabagda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
859	Ujjain	Tarana	Maakadon-01	Lalakhedi	Malikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
860	Ujjain	Tarana	Maakadon-01	Chakya	Kadodiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
861	Ujjain	Tarana	Maakadon-01	Kadodiya	Chakya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
862	Ujjain	Mahidpur	Mahidapur-02	Alakheda	Kanakhedi Harbans	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
863	Ujjain	Ujjain	Naravar-04	Semaliyanasar	Kokalakhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
864	Ujjain	Tarana	Taraana-02	Jawaharnagar (Kanardi)	Mundli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
865	Ujjain	Tarana	Taraana-02	Mundli	Jawaharnagar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
866	Ujjain	Ujjain	Ujjain-02	Kokalakhedi	Jastikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
867	Ujjain	Badnagar	Baledee-02	Baledi	Jhalaria	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
868	Ujjain	Badnagar	Roinaja-01	Kharsodkalan	Balodalakha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
869	Ujjain	Nagda	Unhel-02	Unhel (np)	Bedawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
870	Ujjain	Khachrod	Badaagaarv-04	Badagaon	Barthun	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
871	Ujjain	Nagda	Naagada-01	Nagda (m)	Banbana	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
872	Ujjain	Ujjain	Kotheemahal-03	Ujjain (m corp.)	Harsodan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
873	Ujjain	Tarana	Taraana-02	Kathbadoda	Mundli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
874	Ujjain	Nagda	Unhel-02	Bedawan	Unhel (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
875	Ujjain	Nagda	Unhel-02	Pagara	Bedawan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
876	Ujjain	Ghattiya	Paanabihaar-01	Sipawara	Jhirniya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
877	Ujjain	Ghattiya	Paanabihaar-01	Jhirniya	Sipawara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
878	Ujjain	Khachrod	Khaacharaud-02	Ghudawan	Bhat Khedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
879	Ujjain	Ujjain	Kotheemahal-03	Harsodan	Ujjain (M Corp.)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
880	Ujjain	Ghattiya	Ghattiya-02	Lakhaheda	Sipawara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
881	Ujjain	Badnagar	Baledee-02	Jahangirpur (Murarkhedi)	Baledi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
882	Umariya	Bandhavgad	Karakelee-02	Karri (Bhanpura)	Dulhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
883	Umariya	Manpur	Indavaar-01	Bharewa	Chillhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
884	Umariya	Manpur	Maanapur-04	Raksha	Malhara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
885	Umariya	Naurojabad	Naurojaabaad-01	Dulhari	Karri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
886	Umariya	Manpur	Raayapur-05	Chhatan tola	Mainwah	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
887	Umariya	Manpur	Taala-03	Bamera	Ranchha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
888	Umariya	Bandhavgad	Karakelee-02	Bhundi	Dewgawa Khurd	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
889	Umariya	Manpur	Taala-03	Ranchha	Bamera	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
890	Umariya	Pali	Paalee-01	Beli	Kurkucha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
891	Umariya	Manpur	Raayapur-05	Mainwah	Chhatan Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
892	Umariya	Naurojabad	Naurojaabaad-01	Dewgawa khurd	Bhundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
893	Umariya	Chandiy	Bilaasapur-02	Majhauhi	Basadhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
894	Umariya	Manpur	Raayapur-05	Malhara	Mainwah	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
895	Umariya	Chandiy	Bilaasapur-02	Basadhi	Majhauhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
896	Umariya	Pali	Paalee-01	Kurkucha	Beli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
897	Umariya	Pali	Amiliha-02	Marwa tola	Maman	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
898	Umariya	Bandhavgad	Umariya-01	Kohka	Bhundi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
899	Umariya	Bandhavgad	Umariya-01	Dabarauha	Chandia (NP)	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
900	Umariya	Pali	Amiliha-02	Chorha	Malhara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
901	Umariya	Pali	Amiliha-02	Maman	Marwa Tola	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
902	Umariya	Manpur	Taala-03	Parasi	Ranchha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
903	Umariya	Manpur	Chilhaaree-02	Kothiya	Chillhari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
904	Umariya	Manpur	Chilhaaree-02	Chillhari	Bharewa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
905	Umariya	Chandiy	Chandiy-01	Chandia (np)	Dabarauha	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
906	Umariya	Manpur	Maanapur-04	Dhakhodar	Kothiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
907	Vidisha	Sironj	Bhagavantapur-02	Kajikhedi	Bamuliya Uda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
908	Vidisha	Lateri	Lateree 02-02	Lalchiya (Madankhedi)	Ratanbarri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
909	Vidisha	Kurwai	Kuravaee 01-01	Mehluwa	Nawara	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
910	Vidisha	Sironj	Siyalapur-05	Karai kheda (Patheria)	Bamuliya Uda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
911	Vidisha	Kurwai	Kuravaee 01-01	Nawara (Mandi Bamora)	Mehluwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
912	Vidisha	Sironj	Sironj-01	Guwari	Kajikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित गीसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित गीसम केन्द्र का वैकल्पिक गीसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	गीसम के डाटाके प्रदायका कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
913	Vidisha	Lateri	Shaharakheda 03-03	Jamoniya kalan	Agara Pathar	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
914	Vidisha	Nateran	Nateran-01	Khader	Mundrapitamber	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
915	Vidisha	Basauda	Ambaanagar-01	Biladhana	Khader	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
916	Vidisha	Shamshabad	Shamashaavaad-01	Pegyai	Binjh Jagir	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
917	Vidisha	Nateran	Nateran-01	Mundrapitamber	Khader	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
918	Vidisha	Gulabganj	Gulaabagannj-01	Santapur	Mahagaur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
919	Vidisha	Gyaraspur	Gyaarasapur-01	Manora	Mahua Khera	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
920	Vidisha	Vidisha	Varkalod 03-03	Mundra harisingh	Parsora Haweli	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
921	Vidisha	Vidisha	Vidisha 02-02	Himoda	Mundra Harisingh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
922	Vidisha	Sironj	Bhagavantapur-02	Ratanbarri (Maharajkhedi)	Kajikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
923	Vidisha	Sironj	Deepana kheda-04	Barnuliya uda	Karai Kheda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
924	Vidisha	Basauda	Ambaanagar-01	Kaji kiroda (Pathari)	Dughawari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
925	Vidisha	Shamshabad	Shamashaavaad-01	Binjh jagir	Pegyai	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
926	Vidisha	Basauda	Baasauda-02	Mahagaur	Kakrawada	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
927	Vidisha	Basauda	Baasauda-02	Kakrawada	Mahagaur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
928	Vidisha	Lateri	Aananndapur 01-01	Titarbarri (Kaladen)	Ratanbarri	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
929	Vidisha	Sironj	Deepana kheda-04	Jagthar	Gopalpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
930	Vidisha	Sironj	Mugalasaraay-03	Gopalpur	Kajikhedi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
931	Vidisha	Lateri	Lateree 02-02	Mahaban	Laichiya	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
932	Vidisha	Lateri	Shaharakheda 03-03	Agara pathar	Jamoniya Kalan	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
933	Vidisha	Shamshabad	Shamashaavaad-01	Baroda (Samsabad)	Binjh Jagir	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
934	Vidisha	Gulabganj	Gulaabagannj-01	Naulas	Kasba Ahmadpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
935	Vidisha	Kurwai	Kuravaee 01-01	Naukund (Nanukheda)	Mehluwa	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
936	Vidisha	Pathari	Pathaaree-01	Saidpur	Dughawari	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
937	Vidisha	Vidisha	Peepalakhedaa01-01	Khejada sultan	Hirnoda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
938	Vidisha	Vidisha	Peepalakhedaa01-01	Dupariya	Hirnoda	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
939	Vidisha	Vidisha	Vidisha 02-02	Kasba ahmadpur	Naulas	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
940	Vidisha	Gyaraspur	Gyaarasapur-01	Mahua khera	Manora	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
941	Vidisha	Gyaraspur	Gyaarasapur-01	Sinduriya	Mahua Khera	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
942	Vidisha	Pathari	Pathaaree-01	Dughawari	Saidpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
943	Vidisha	Tayonda	Tyonda-01	Rasoolpur	Danmadhi	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
944	Vidisha	Vidisha	Vidisha 02-02	Parsora haweli	Mundra Harisingh	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
945	Vidisha	Tayonda	Tyonda-01	Danmadhi	Rasoolpur	HDFC ERGO GIC LTD.	Skymet
946	Sagar	Bina	राहतगढ-01	NIBODA	SIRONJIPUR	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
947	Sagar	Malthon	मालथोन-01	BESRA	DARI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
948	Sagar	Malthon	देवरी-01	DARI(Bikor kalan)	BESRA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
949	Sagar	Shahgarh	रहली-01	HARRAI (HASRAI)	TIGODA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
950	Sagar	Shahgarh	शाहगढ-03	TIGODA	HARRAI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
951	Sagar	Banda	बन्डा-01	CHEKK BHEDA	KULLA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
952	Sagar	Banda	बहरील-02	KULLA	DARI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
953	Sagar	Khurai	गढाकोटा-01	CHAINPURA(gohaola Jagir)	BESRA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
954	Sagar	Bina	बीना-01	SIRONJIPUR	NIBODA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
955	Sagar	Rahatgarh	राहतगढ-01	MIRKHEDI	MARDANPUR	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
956	Sagar	Rahatgarh	राहतगढ-01	MARDANPUR	MIRKHEDI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
957	Sagar	Sagar	देवरी-01	MASANJHIRI	KULLA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
958	Sagar	Rehli	रहली-01	MARPANI	JHAGRI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
959	Sagar	Garhakota	बन्डा-01	JHAGRI	MARPANI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
960	Sagar	Rehli	रहली-01	KUDPURA	JHAGRI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
961	Sagar	Deori	गौरडामर-03	CHORDHAWAI	DEORI PARTAL	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
962	Sagar	Kesli	01 केसली-01	SEMARA	ANGHORI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
963	Sagar	Kesli	शाहगढ-03	ANGHORI	SEMARA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
964	Sagar	Deori	देवरी-01	DEORI PARTAL	CHORDHAWAI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
965	Panna	Ajaigarh	अजयगढ-01	MAJGAON	Sarangpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
966	Panna	Ajaigarh	धरमपुर-02	SIDHPUR	Sarangpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
967	Panna	Panna	बिसानी-02	NAIGAWAN	Sidhpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
968	Panna	Panna	ब्रजपुर-02	SARANGPUR	Sidhpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
969	Panna	Panna	पन्ना-01	BARACHH	Sarangpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्बन्धित मौसम केन्द्र का नाम	सम्बन्धित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आँकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
970	Panna	Panna	पन्ना-01	BADGADI KALAN	Mahuwa Dand	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
971	Panna	Amanganj	शाहनगर-01	MAHUWA DAND	Badgadi Kalan	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
972	Panna	Amanganj	शाहनगर-01	MAHEBA	Datunha	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
973	Panna	Gunnor	गुनौर-01	DATUNHA(lumkush)	Maheba	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
974	Panna	Shahnagar	बिसानी-02	DARWAI	Tala	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
975	Panna	Shahnagar	बिसानी-02	TALA	Darwai	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
976	Panna	Shahnagar	शाहनगर-01	SUNPURA	Tala	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
977	Panna	Raipura	हरदुआ पटेल-01	RAIYA SAT	Puralni	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
978	Panna	Raipura	रेपुरा-02	PURAINI	Raiya Sat	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
979	Balaghat	Balaghat	चांगोटोला-01	MOHGAONRYT	Korja	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
980	Balaghat	Paraswada	कटगी-01	KORJA	Jaldidad	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
981	Balaghat	Baihar	01 गढी-01	RAMHEPUR(khajiri)	Chhilpura	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
982	Balaghat	Baihar	03 मण्डेरी-03	CHHILPURA	Ramhepur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
983	Balaghat	Lalbarra	उकवा-03	CHIKHALIBADI(bhagoli)	Kategaon	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
984	Balaghat	Balaghat	बालाघाट-1-04	KATEGAON	Bhamodi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
985	Balaghat	Baihar	03 मण्डेरी-03	JALDIDAD(Ukwa)	Korja	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
986	Balaghat	Baihar	01 बिरसा-01	BIRSA	Ramhepur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
987	Balaghat	Tirodi	तिरोडी-01	HIRAPUR(Tirodi)	Gajpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
988	Balaghat	Khairlanji	सालेबडी-01	GAJPUR	Hirapur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
989	Balaghat	Balaghat	हटा-02	BHAMODI	Kategaon	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
990	Balaghat	Kimapur	माटे-02	GODRI	Bondari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
991	Balaghat	Baihar	03 मण्डेरी-03	BONDARI	Godri	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
992	Balaghat	Lanji	रजेगोंव-01	SIHARI	Mataghat	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
993	Balaghat	Lanji	चांगोटोला-01	MATAGH(neondura)	Sihari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
994	Raisen	Begamgunj	बेगमगंज-01	DEOLAPUR	Rahatwas	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
995	Raisen	Begamgunj	बेगमगंज-01	BHILONI(kakarghuwa)nea	Deolapur Munzapta	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
996	Raisen	silwani	2 सिलवानी-02	SAHAJPURI	Bhiloni(kakarghuwa)ne	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
997	Raisen	silwani	कोडा जमुनिया-04	BHILONI(kakarghuwa)nea	Sahajpuri	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
998	Raisen	Gairatganj	रायसेन-03	RAISEN	Pathari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
999	Raisen	raisen	रायसेन-03	AMBARI	raisen	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1000	Raisen	raisen	दीवानगंज-01	RAISEN	Ambari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1001	Raisen	Gohargunj	मण्डीदीप-01	NASIPUR (BAMNAI)	itaya kalan	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1002	Raisen	Gohargunj	ओबेदुल्लागंज-02	KHERI CHOLA	Nasipur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1003	Raisen	Gohargunj	ओबेदुल्लागंज-02	NASIPUR (BAMNAI)	Kherichouka	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1004	Raisen	Bareli	भारकच्छ कला-03	BARI	deharikalan	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1005	Raisen	Gohargunj	सुल्तानपुर-01	KHERI CHOLA	Jait	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1006	Raisen	Bareli	बेगमगंज-01	DEHARI KALAN	Bari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1007	Raisen	Bareli	खरगोन-02	SAHAJPURI	Rajwada	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1008	Raisen	Udaipura	सुल्तानपुर-01	SIMARIYA(GHANA	Ghaba thunda (GHANA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1009	Raisen	Udaipura	छातेर-01	GHABA	Simariya(GHANA	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1010	Sehore	Shyampura	इछवर -02	HIRA KHEDI	Raipura	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1011	Sehore	Sehore	सीहोर (01)-01	RAIPURA	Gaji Khedi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1012	Sehore	Jawar	जावर-01	ATRALIYA	Mubarakpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1013	Sehore	Ashta	कोठरी (04)-02	MUBARAKPUR	Atraliya	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1014	Sehore	Ichhwar	इछवर -02	GAJI KHEDI	Lawa Khedi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1015	Sehore	Ichhwar	इछवर -02	LAWA KHEDI	Gaji Khedi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1016	Sehore	Narsullaganj	आष्टा (03)-01	CHHAPARI	Gaji Khedi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1017	Sehore	Rehti	नसरुल्लागंज-02	KOSMI	Budhni	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1018	Sehore	Budhi	01 बुदनी-01	BHUDUNI	Kosmi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1019	Sehore	Budhi	01 बुदनी-01	NANDER	Budhni	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1020	Damoh	Batiyagarh	फतेहपुर-01	BORDA	Pali	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1021	Damoh	Hatta	मडियादो-02	PALI	Borda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1022	Damoh	Patharia	सूखा-02	MIHALWARA	Bardhari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1023	Damoh	Patharia	नरसिंहगढ-04	MANKORA	Pathariyapatera	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1024	Damoh	Patera	खडेरी-04	PATHARIYAPATERA	Mankora	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1025	Damoh	Patharia	सदगुवा-03	BARDHARI	Mihalwara	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1026	Damoh	Damoh	अभाना-06	GUWARI	Bardhari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आँकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1027	Damoh	Jabera	01 बनवार-01	BANWAR	Guwari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1028	Damoh	Tendukheda	झलोन-02	DUDHIYARYT	Mahka	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1029	Damoh	Tendukheda	झलोन-02	GUBRA	Hanumatbago	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1030	Damoh	Jabera	झलोन-02	BHAINSA	Banwar	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1031	Damoh	Tendukheda	तारादेही-04	MAHKA	Dudhiyaryt	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1032	Damoh	Tendukheda	तारादेही-04	HANUMAT BAGO	Mahka	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1033	Indore	Depalpur	कनाडिया-03	JHALARIYA LAT (mothla)	paladi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1034	Indore	Indore	इन्दौर -2-02	DHANVANTRI NAGAR LAT	Sindoda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1035	Indore	Indore	खुडैल -5-05	PHALI LAT	Bisan Kheda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1036	Indore	Mhow	मानपुर-02	KANKRIYA LAT	Richhabard	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1037	Indore	Mhow	सिमरौल-03	SENDAL LAT	Mendi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1038	Indore	DEPALPUR	गौतमपुरा-01	PALSODA	depalpura	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1039	Indore	DEPALPUR	देपालपुर-02	DEEPALPUR	paladi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1040	Indore	HATOD	भिचौली -4-04	PALADI	depalpura	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1041	Indore	SANWER	सावेर -01	LALA KHEDA	Ajnod	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1042	Indore	SANWER	सावेर -01	AJNOD	lalakheda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1043	Indore	SANWER	क्षिप्रा-03	BARLAI JAGIR	Bisan Kheda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1044	Indore	HATOD	हातोद-02	BUDHANIYA	Kankriya Lat	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1045	Indore			SINDODA	Phali Lat	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1046	Indore	INDORE	कनाडिया-03	BISAN KHEDA	Mendi	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1047	Indore			RICHHABARD	Kevadiya	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1048	Indore	INDORE	भिचौली -4-04	KEVADIA	Dhanvantri Nagar Lat	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1049	Indore	MHOW	खुडैल -5-05	MEMDI	Sindoda	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1050	Anuppur	Pushparajgarh	भेजरी-04	MEKAL PAHAD	Shyam Duwari	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1051	Anuppur	Anuppur	गिरारी-02	BAMHNI	Manikpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1052	Anuppur	Kotma	02 -- बिजरी	MENTOLA	Bamhni	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1053	Anuppur	Pushparajgarh	खमरोध-01	SHYAM DUWARI(Andhar	Ledhara	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1054	Anuppur	Pushparajgarh	भेजरी-04	LEDHARA (Dudmaniya)	Bilaspur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1055	Anuppur	Jaithari	01 -- जैतहरी	MANIKPUR	Umargohan	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1056	Anuppur	Pushparajgarh	04 -- भेजरी	BILASPUR	Ledhara	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1057	Anuppur	Pushparajgarh	भेजरी-04	UMARGOHAN	Manikpur	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1058	BHOPAL	Berasia	02 -- बैरसिया	DEVKI BHARKHEDI	PIPAL KHEDI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1059	BHOPAL	Berasia	हरा खेडा-03	PIPAL KHEDI	DEVKI BHARKHEDI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1060	BHOPAL	Berasia	हरा खेडा-03	KALARA	DEVKI BHARKHEDI	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1061	BHOPAL	Huzur	फन्दा-04	MINGALIA CHHAP	Sagona Kalan	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1062	BHOPAL	Huzur	बिलखिरिया खुर्द-02	SANGONI KALA	MINGALIA CHHAP	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1063	Chattarpur	Nowgong	यिजावर-01	BODI	Simardha	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1064	Chattarpur	laundi	01 -- पल	DIDWARA	Gorihar	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1065	Chattarpur	Gaurihar	गौरिहार-02	GOURIHAR	Chandla	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1066	Chattarpur	Nowgong	01 -- नौगांव	SIMARDHA	Malhara	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1067	Chattarpur	Maharajpur	गड्डीमलहरा-01	MALHARA	Simardha	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1068	Chattarpur	Rajnagar	वक्सवाहा 01-01	KISHUNPURA	Pira	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1069	Chattarpur	Chandla	चंदला-01	CHANDLA	Gorihar	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1070	Chattarpur	Bijawar	यिजावर-01	GADHA	Bharwani	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1071	Chattarpur	Rajnagar	03 -- बसारी	SILAWAT	Pira	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1072	Chattarpur	Rajnagar	बडामलहरा-01	PIRA	Kishunpura	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1073	Chattarpur	Ghuwara	भगवाँ-02	BHOYRA	Bharwani	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1074	Chattarpur	Bada Malhera	सडवा-02	BHARWANI(pragasapura)	Gadha	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1075	Chattarpur	Bijawar	देवरा-02	KUDAPANI	Patori	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1076	Chattarpur	Buxwaha	यिजावर-01	BAMHORI	Bhurkhera	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1077	Chattarpur	Buxwaha	वक्सवाहा 01-01	BHURKHERA	Bamhori	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1078	Chattarpur	Bijawar	देवरा-02	PATORI (Grada)	Kudapani	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1079	Chattarpur	Chattarpur	महेवा-01	Devpur	Simardha	Chola MS GIC LTD.	NCMSL
1080	Dewas	Bagli	Bagali 1	Guradiakla	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1081	Dewas	Bagli	Bagali 1	Kamalapur	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1082	Dewas	Dewas	Dewas 1	Mudka	Salmkedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1083	Dewas	Dewas	Dewas 1	Salmkedi	Mudka	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सम्पत्ति मौसम केंद्र का नाम	सम्पत्ति मौसम केंद्र का बैकअप मौसम केंद्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आँकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1084	Dewas	Dewas	Dewas 2	Bhangarh	Ptadi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1085	Dewas	Dewas	Dewas 2	Ptadi	Bhangarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1086	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Arlavda	Avrajasani	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1087	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Avrajasani	Arlavda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1088	Dewas	Kannod	Kannaud	Bagankedha	Kothmeer	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1089	Dewas	Kannod	Kannaud	Kothmeer	Bagankedha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1090	Dewas	Khategaon	Haranaganv	Bhukia	Kalibal	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1091	Dewas	Khategaon	Haranaganv	Kalibal	Bhukia	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1092	Dewas	Khategaon	Khateganv	Dhundyakedi	Ninvora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1093	Dewas	Khategaon	Khateganv	Ninvora	Dhundyakedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1094	Dewas	Satavas	Satavas	Baijagvadha	Jansur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1095	Dewas	Satavas	Satavas	Jansur	Baijagvadha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1096	Dewas	Sonkach	Bhaurasa	Sarsoda	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1097	Dewas	Sonkach	Sonkachchh	Chaubarajagir	Kachannaria	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1098	Dewas	Sonkach	Sonkachchh	Kachannaria	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1099	Dewas	Tonkkhurd	Chaubaradhira	Kamalapur_1	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1100	Dewas	Tonkkhurd	Tonkakhurd	Barwakedi	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1101	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Imlipura	Pipri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1102	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Pipri	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1103	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Singla Deh	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1104	Guna	Aaron	Aaron 2	Bakaan	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1105	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Boodhaakheda	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1106	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Sagaavarakheda	Boodhaakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1107	Guna	Aaron	Pnwadihat-3	Karonda	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1108	Guna	Bamori	Bamori	Paanchora	Paatan	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1109	Guna	Bamori	Bamori	Paatan	Paanchora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1110	Guna	Bamori	Fathegarh-2	Jageshree	PATHARIYA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1111	Guna	Bamori	Fathegarh-2	Paaronda	JAGESHREE	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1112	Guna	Bamori	Fathegarh-2	Pathariya	JAGESHREE	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1113	Guna	Chachaura	Chachaura	Dorayaapura	Chopanakhurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1114	Guna	Chachaura	Pechi-3	Mairayaakhedeekania	Chopanakhurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1115	Guna	Chachaura	Ramdi-2	Chopanakhurd	Dorayaapura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1116	Guna	Guna	Guna	Jhir	Bhenroghaatee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1117	Guna	Guna	Mayana-1	Chidaroo	Tinasyaee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1118	Guna	Guna	Mayana-1	Tinasyaee	Chidaroo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1119	Guna	Guna	Umri-2	Ahamadapur	Bhenroghaatee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1120	Guna	Guna	Umri-2	Bhenroghaatee	Ahamadapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1121	Guna	Kumbharaj	Kumbharaj-2	Kunjaakheda	Bhoomalaakhedee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1122	Guna	Kumbharaj	Murgwas-1	Bhoomalaakhedee	Kunjaakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1123	Guna	Makasudangarh	Jaamaner-1	Mohanapur	BAAROD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1124	Guna	Makasudangarh	Makasudangarh-2	Baarod	Mohanapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1125	Guna	Radhaugarh	Karamaakhedee-1	Pagaara	Goojarahedee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1126	Guna	Radhaugarh	Radhaugarh-2	Godiya	Goojarahedee	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1127	Guna	Radhaugarh	Radhaugarh-2	Goojarahedee	Godiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1128	Seoni	Barghat	Baraghat-1	Chhapara	Nandaura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1129	Seoni	Barghat	Baraghat-1	Nandaura	Chhapara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1130	Seoni	Chapara	Chamari Khurd-2	Bhendki	Pipariya (Tilwadi)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1131	Seoni	Chapara	Chamari Khurd-2	Pipariya (Tiwari)	Bhorghondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1132	Seoni	Chapara	Chapara	Malhanwada	Pipariya (Tilwadi)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1133	Seoni	Dhanora	Dhanaura-1	Bhim Kund Mal	Ghoghri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1134	Seoni	Dhanora	Dhanaura-1	Ghoghri	Bhim Kund Mal	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1135	Seoni	Ghansaur	Ghansor-2	Kukri	Manak Sarra	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1136	Seoni	Ghansaur	Ghansor-2	Manak Sarra	Kukri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1137	Seoni	Ghansaur	Kahani-1	Durjanpur	Rajgadhi Ryt.	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1138	Seoni	Ghansaur	Kahani-1	Rajgadhi Ryt.	Durjanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1139	Seoni	Kevalari	Kevalari	Sahajpuri	Bhorghondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1140	Seoni	Kevalari	Palari	Bichuwa	Sahajpuri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1141	Seoni	Kevalari	Ugli-3	Bhorghondi	Pipariya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1142	Seoni	Kevalari	Ugli-3	Pipariya	Bhorghondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1143	Seoni	Kurai	Kurai-1	Beesapur Ryt.	Nayegaon Banjar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1144	Seoni	Kurai	Kurai-1	Nayegaon Banjar	Beesapur Ryt.	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1145	Seoni	Kurai	Suktra-2	Ambadi	Thawar Jholi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1146	Seoni	Kurai	Suktra-2	Thawar Jholi	Ambadi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1147	Seoni	Lakhnadon	Aadegaon	Simariya	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1148	Seoni	Lakhnadon	Ghuma-2	Pondi	Rahlon Khurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1149	Seoni	Lakhnadon	Ghuma-2	Rahlon Khurd	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1150	Seoni	Lakhnadon	Lakhanadaun	Mohgaon Khurd	Rahlon Khurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1151	Seoni	Seoni	Bandol	Kudwari	Simariya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1152	Seoni	Seoni	Bhooma	Jatalapur	Simariya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1153	Seoni	Seoni	Shivni-1-3	Simariya_1	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1154	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi-3	Chitrangi	Dhawai	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1155	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi-3	Dhawai	Chitrangi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1156	Singrauli	Chitrangi	Dudhamaniya	Saketi	Bagdewa	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1157	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Khamhariya	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1158	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Pondi	Rahlon Khurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1159	Singrauli	Chitrangi	Mauhariya	Bagdewa	Saketi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1160	Singrauli	Devasar	Baragavan	Jobgarh	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1161	Singrauli	Devasar	Devasar Gird	Amo	Jobgarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1162	Singrauli	Devasar	Saraudha	Khandhauli	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1163	Singrauli	Manda	Amiliya	Karsualal	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1164	Singrauli	Manda	Manda-2	Kumhiya	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1165	Singrauli	Manda	Manda-2	Pondi Path	Kumhiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1166	Singrauli	Sarai	Khanuaa Naya	Gorwani	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1167	Singrauli	Sarai	Niwas	Rajania	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1168	Singrauli	Sarai	Sarai	Dudhiyatola	Rajania	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1169	Singrauli	Singrauli	Baidhan	Itma (Waidhan)	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1170	Singrauli	Singrauli	Khutar	Bihara	Pipara Kurund	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1171	Singrauli	Singrauli	Shashan	Pipara Kurund	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1172	Aagar Malwa	Aagar	Agar	Nipaniya Baijnath	Tanodiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1173	Aagar Malwa	Aagar	Agar	Tanodiya	Nipaniya Baijnath	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1174	Aagar Malwa	Aagar	Kanad	Raipuriya	Tanodiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1175	Aagar Malwa	Baraud	Badod	Janhagirpura	Nipaniya Hanuman	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1176	Aagar Malwa	Baraud	Bija Nagri	Bhadwasa	Janhagirpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1177	Aagar Malwa	Baraud	Jhunta	Nipaniya Hanuman	Janhagirpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1178	Aagar Malwa	Nalkheda	Badagaon	Basya	Padana	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen
1179	Aagar Malwa	Nalkheda	Nalkheda	Padana	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1180	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Banda	Soyatkalan (NP)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1181	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Soyatkalan (NP)	Banda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1182	Aagar Malwa	Susaner	Susner	Maina	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1183	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Bansa Khedi	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1184	Ashoknagar	Ashoknagar	Kachnar	Jhagar Kachnar	Dongra	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1185	Ashoknagar	Ashoknagar	Rajpur	Dongra	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1186	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Chanderi	Setpaiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1187	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Satpaiya	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1188	Ashoknagar	Chanderi	Thoban	Nawni	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1189	Ashoknagar	Ishagarh	Ishagarh	Behata Alias Ganesh Kheda	Khamkhedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1190	Ashoknagar	Ishagarh	Saraskheda	Khamkhedi	Behata Alias Ganesh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1191	Ashoknagar	Mungawali	Athaikheda	Tetore	Bhimkheda (OG)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1192	Ashoknagar	Mungawali	Bahadurpur	Bhimkheda (OG) (Part)_1	Tetore	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1193	Ashoknagar	Mungawali	Mungali	Mundra	Bahadurpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1194	Ashoknagar	Naisarai	Mahidpur	Ajleshwar	Dungasara (Pitampur)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1195	Ashoknagar	Naisarai	Nisray	Pitampur	Ajleshwar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1196	Ashoknagar	Piparai	Piprai	Bamanua	Manihari Muhal	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1197	Ashoknagar	Piparai	Tari	Manihari Muhal	Bamanua	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित नौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित नौसम केन्द्र का बैकल्पिक नौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	नौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1198	Ashoknagar	Shadhora	Shahidora	Bhimkheda (OG) (Part)_2	Bansa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1199	Rajgarh	Byavara	Biaora	Moi	Shahpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1200	Rajgarh	Byavara	Biaora	Shahpura	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1201	Rajgarh	Byavara	Malawar	Dhakora	Semlapar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1202	Rajgarh	Byavara	Malawar	Semlapar	Dhakora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1203	Rajgarh	Byavara	Suthaliya	Mothbadli	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1204	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Gordhanpura	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1205	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Kahar Kheda	Gordhanpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1206	Rajgarh	Jirapur	Machalpur	Nandri	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1207	Rajgarh	Khilacipur	Bhojpur	Kotda	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1208	Rajgarh	Khilacipur	Chhaphiheda	Shekhanpur	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1209	Rajgarh	Khilacipur	Khilchpur	Khilchipur	Shekhanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1210	Rajgarh	Narsinghgarh	Boda	Mandawar	Sagpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1211	Rajgarh	Narsinghgarh	Kurawar	Sahu Khedi	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1212	Rajgarh	Narsinghgarh	Narsinghgarh	Sagpur	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1213	Rajgarh	Pachor	Pachore	Kalyanpur	Dhuwa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1214	Rajgarh	Pachor	Talan	Dhuwa Khedi	Kalyanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1215	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Golyabey	Kherabe (Meriyakhedi)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1216	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Meriyakhedi	Chopanakhurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1217	Rajgarh	Rajgarh 1	Khujner	Lakhya	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1218	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Bamlabe	Fatehpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1219	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Fatehpur	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1220	Rajgarh	Sarangpur	Padiya Mata	Padiya Mata	Bhumka	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1221	Rajgarh	Sarangpur	Sandota	Bhumka	Padiya Mataji	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1222	Rajgarh	Sarangpur	Sarangpur	Dhanora	Padiya Mataji	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1223	Rewa	Gudh	Duaari	Gurhaba	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1224	Rewa	Gudh	Gudh	Gurhaba	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1225	Rewa	Hanumana	Hanumana	Patulkhi	Devari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1226	Rewa	Hanumana	Khatakhari	Devari	Patulkhi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1227	Rewa	Hanumana	Pahari	Patulkhi	Devari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1228	Rewa	Huzur	Govindgarh	CHOPKHARI	CHHIPATA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1229	Rewa	Huzur	Rewa	CHHIPATA	CHOPKHARI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1230	Rewa	Huzur	Van Kuiyan	CHHIPATA	CHOPKHARI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1231	Rewa	Java	Antaraila	Kanchanpur	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1232	Rewa	Java	Dabhaura	Kanchanpur	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1233	Rewa	Java	Java	Kanchanpur	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1234	Rewa	Mangawa	Delhi	Harrai Khurd	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1235	Rewa	Mangawa	Gadh	Harrai Khurd	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1236	Rewa	Mangawa	Mangawa	Harrai Khurd	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1237	Rewa	Mangawa	Sura	Harrai Khurd	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1238	Rewa	Mauganj	Devatalab	Banbarar	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1239	Rewa	Mauganj	Mauganj	Banbarar	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1240	Rewa	Mauganj	Sitapur	Banbarar	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1241	Rewa	Naigarhi	Khara	SIGTI	Banbarar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1242	Rewa	Naigarhi	Naigarhi	SIGTI	Banbarar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1243	Rewa	Naigarhi	Rampur	Banbarar	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1244	Rewa	Raipur Kchruliyar	Manikavar	Beohara	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1245	Rewa	Raipur Kchruliyar	Raipur Kchruliyar	Beohara	Gurhaba (GUDHUWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1246	Rewa	Semariya	Semariya	Umari	KATAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1247	Rewa	Semariya	Shahapur	Umari	KATAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1248	Rewa	Siramaur	Baikunthapur	KATAHA	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1249	Rewa	Siramaur	Lalgaon	KATAHA	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1250	Rewa	Siramaur	Siramaur	KATAHA	Umari	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1251	Rewa	Tynothar	Chak	DIH	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1252	Rewa	Tynothar	Garhi	KAITHI	DIH	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1253	Rewa	Tynothar	Raipur Sonauri	DIH	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1254	Rewa	Tynothar	Tynothar	KAITHI	DIH	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायकता कम्पनी
S. No.	Disttict	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
1255	Satna	Amarpatan	Amarpatan	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1256	Satna	Amarpatan	Mauhari Katara	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1257	Satna	Amarpatan	Tala	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1258	Satna	Kotar	Bihara	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1259	Satna	Kotar	Kotar	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1260	Satna	Maghaganva	Baraundha	NARDAHA	KAILASHPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1261	Satna	Maghaganva	Chitrakut	PALDEV	NARDAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1262	Satna	Maghaganva	Maghaganva	KAILASHPUR	NARDAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1263	Satna	Maihar	Amadara	GUGRI	BHERA (BHENDA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1264	Satna	Maihar	Badera	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1265	Satna	Maihar	Bhadanpur	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1266	Satna	Maihar	Kusedi	DHABRAL	LATAGAON	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1267	Satna	Maihar	Maihar	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1268	Satna	Maihar	Nadan	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1269	Satna	Maihar	Tilaura	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1270	Satna	Nagaud	Damha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1271	Satna	Nagaud	Jasha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1272	Satna	Nagaud	Nagaud	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1273	Satna	Nagaud	Rahijawre	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1274	Satna	Nagaud	Shivrajpur	AMA	NAGOD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1275	Satna	Nagaud	Singhpur	AMA	NAGOD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1276	Satna	Raghurajnagar	Hati	BAIRGALA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1277	Satna	Raghurajnagar	Kothi	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1278	Satna	Raghurajnagar	Raigaon	BAIRGALA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1279	Satna	Raghurajnagar	Ramsthan	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1280	Satna	Raghurajnagar	Satna	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1281	Satna	Raghurajnagar	Sohaval	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1282	Satna	Ramnagar	Badavar	BABUPUR	ATUHA (HATWA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1283	Satna	Ramnagar	Jhinna	ATUHA	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1284	Satna	Ramnagar	Ramnagar	ATUHA	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1285	Satna	Rampur Baghelan	Chibaura	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1286	Satna	Rampur Baghelan	Chorahata	GURHURA	BARDADIH (BAGHAI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1287	Satna	Rampur Baghelan	Rampur Baghelan	GURHURA	BARDADIH (BAGHAI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1288	Satna	Rampur Baghelan	Sajjanpur	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1289	Satna	Uchehara	Atara	PITHAURABAD	DEVGANA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL
1290	Satna	Uchehara	Lagaragaon	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1291	Satna	Uchehara	Parasamniya	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1292	Satna	Uchehara	Uchehara	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1293	Satna	Virsinghpur	Dharakundi	BARERA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1294	Satna	Virsinghpur	Jaitvara	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1295	Satna	Virsinghpur	Virsinghpur	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1296	Sidhi	Bahari	Devganv	BHITARI	POKHARI DOL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1297	Sidhi	Churahat	Chunhat	TIKAT KALAN	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1298	Sidhi	Gopad Banas	Semariya1	KATARIKANRI	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1299	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird1	BISUNITOLA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1300	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird2	PARARA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1301	Sidhi	Kushami	Kusumi	BELDIHA	PONRI (PONDI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1302	Sidhi	Kushami	Paudi	PONRI	BELDIHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1303	Sidhi	Majhauri	Madwas	HARWAR	BAGHAILA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1304	Sidhi	Majhauri	Majholi	BAGHAILA	HARWAR (Majhauri)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1305	Sidhi	Rampur Naik	Hanumangarh	MARWA	BELKASARI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1306	Sidhi	Rampur Naik	Rampur Naikin	BELKASARI	MARWA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet
1307	Sidhi	Sihaval	Amiliya 2	POKHARI DOL	BHITARI (KUBEARI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. 177-मंडी निर्वाचन-2016-17.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, निशांत वरवड़े, कलेक्टर, जिला भोपाल, मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत भोपाल जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समिति के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्रमांक	मंडी समिति का नाम	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम 1972 की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	श्री केवल सिंह संचालक, भोपाल को-ऑपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड ग्राम कोलुआकलां, तहसील हुजूर.	धारा 11(1) (ज)

निशांत वरवड़े, कलेक्टर.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र.-नोअविप-विपप्र-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत कुल 09 विषयों में विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 से 16 मार्च, 2017 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा के —1. प्रकरण अध्ययन, 2. सिविल विधि एवं प्रक्रिया, 3. राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, 4. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, 6. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 7. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया, 8. लेखा एवं वित्त विषयों में निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सलोनी सिडाना	सहायक कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 321-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2017.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2017 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को

प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना कटारा हिल्स की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक.— नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

दो.— सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है	सारणी स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/वार्ड क्र.	बंदोबस्त नं. वार्ड क्र.	
(1)	(2)	(3)	(3)
पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसील हुजूर जिला भोपाल.	1. कटारा हिल्स 2. बागमुगालिया एक्सपेन्शन 3. संत आशाराम नगर फेस-03 4. पार्क सिटी 5. स्प्रिंग वैली	55 55 55 85 85	पुलिस थाना कटारा हिल्स तहसील हुजूर, जिला भोपाल
पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसील हुजूर जिला भोपाल.	6. स्वर्णकुंज कालोनी 7. प्राईड सिटी 8. सिग्नेचर सिटी 9. एटलांटिस सिटी 10. एबी स्मार्ट सिटी 11. फारच्यून सिटी 12. सौम्या गोल्डन 13. रामायण सिटी 14. त्रिभुवन कालोनी 15. हेवन्स लाईफ 16. बर्राई गांव 17. लहारपुर गांव	85 85 85 85 85 85 85 85 83 85 85 85	
पुलिस थाना मिसरोद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	1. ग्राम रापड़िया 2. ग्राम बगली 3. ग्राम बगरौदा	85 85 85	पुलिस थाना कटारा हिल्स तहसील हुजूर, जिला भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 321-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 321-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2017.— दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal the 28th April 2017

No. 321-J.C.1-COLLECTOR-BHOPAL-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F2(K)-15-99-B-3-two dated 11th October 2004 and number F2(K)-9-08-B-3-two dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of District Collector/SP/DPO. in meeting Dated 28th April 2017 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Katara Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.—

- 1 Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and
- 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)	LOCAL AREA Name of Villages, and Settlement No., Ward No. (2)		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included (3)
	S.No	Name of Villages Settlement No.	
Police Station Bagsevnia Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	1.	Katara Hills Ward No. 55	Police Station Katara Hills Tehsil Hujur, Distt. Bhopal
	2.	Bagmugalia extension Ward No. 55	
	3.	Sant Asaram Nagar Phase-3 Ward No. 55	
	4.	Park City Ward No. 55	
	5.	Spring Vally Ward No. 85	
	6.	Swarn Kunj Colony Ward No. 85	
	7.	Pried City Ward No. 85	
	8.	Signature City Ward No. 85	
	9.	Atlantic City Ward No. 85	
	10.	AB Smart City Ward No. 85	
	11.	Fortune City Ward No. 85	
	12.	Saumya Golden Ward No. 85	
	13.	Ramayan City Ward No. 85	
	14.	Tribuvan Colony Ward No. 83	
	15.	Havans life Ward No. 85	
	16.	Barai Gram. Ward No. 85	
	17.	Laharpur Gram Ward No. 85	
Police Station Misrod Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	1.	Rapadiya Gram Ward No. 85	
	2.	Bagli Gram Ward No. 85	
	3.	Bagroda Gram Ward No. 85	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 319-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2017.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2017 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को

प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना ईटखेड़ी की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

एक.— नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है.

दो.— सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्र ग्राम मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/ वार्ड क्रमांक	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
पुलिस थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल.	क्र. ग्राम/मोहल्ले का नाम बंदोबस्त नं. वार्ड क्र.	पुलिस थाना ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल
	1. ईटखेड़ी 10	
	2. बीनापुर 12	
	3. निपानिया जाट 11	
	4. रायपुर 11	
	5. अरवलिया 9	
	6. खजूरी 8	
	7. खामखेड़ा 14	
	8. अचारपुरा 9	
	9. परवालिया सानी 9	
	10. रासलाखेड़ी 13	
	11. गोलखेड़ी 12	
	12. राताताल 8	
	13. करधई 6	
	14. करोद खुर्द 13	
	15. कनेरा 13	
	16. कढैया 13	
	17. अगरिया 13	
	18. घासीपुरा 10	
	19. बरखेड़ी हज्जाम 8	
	20. भैरोपुरा 12	
	21. मनीखेड़ी कोट 6	
	22. मोमनपुर 13	
	23. सुमेरखेड़ी 13	
	24. सूखा निपानिया 6	
	25. हज्जामपुरा 9	
	26. हिनौतिया जागीर 8	
	27. चीलखेड़ा वेचिराग	
	28. मस्तीपुरा 12	
	29. खीचीताल 13	

(1)	(2)	(3)
पुलिस थाना सूखी सेवनिया	30. इस्लामनगर	12
तहसील हुजूर जिला भोपाल	31. कल्याणपुरा पठार	15
पुलिस थाना गांधीनगर	32. पेवाखेड़ा	9
तहसील हुजूर जिला भोपाल	33. विसनखेड़ी	5
	34. चांदपुर	5
	35. डोबरा	5
पुलिस थाना निशातपुरा	36. लांबाखेड़ा	वार्ड नं.79
तहसील हुजूर जिला भोपाल		(विधानसभा
		बैरसिया से
		नवीबाग)
पुलिस थाना परवलिया सड़क	37. खेजड़ादेव	5
तहसील हुजूर जिला भोपाल	38. गुराड़िया	6

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 319-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 319-जे.सी.-1-भोपाल-2017.—दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal the 28th April 2017

No. 319-1-J.C.1-COLLECTOR-BHOPAL-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F2(K)- 15-99-B-3-two dated 11th October 2004 and number F-2(K)-9-08-B-3-two dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 28th April 2017 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station ETT-KHEDI Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.—

- 1 Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) there of and
- 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)	LOCAL AREA Name of Villages, and Settlement No. Ward No. (2)	Name of police station (with tehsil and distt.) from which included (3)
Police Station Gunga Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	S. No. Name of Villages 1. Etkhedi 2. Binapur	Settlement No. 10 12
		Police Station ETT-KHEDI Tehsil Hujur, Distt. Bhopal

(1)	(2)	(3)
	3. NipaniyaJaat	11
	4. Raipur	11
	5. Arwaliya	9
	6. Khajuri	8
	7. Khamkheda	14
	8. Acharpura	9
	9. Parwaliya Saani	9
	10. Raslakhedi	13
	11. Golkhedi	12
	12. Raatataal	8
	13. Kardhai	6
	14. Karond Khurd	13
	15. Kanera	13
	16. Kadahiya	13
	17. Agariya	13
	18. Ghashipura	10
	19. Berkhedi Hazzam	8
	20. Bheropura	12
	21. Manikhedi Kot	6
	22. Momenpura	13
	23. Sumerkhedi	13
	24. Shukha Nipaniya	6
	25. Hazzampura	9
	26. Hinotiya Jageer	8
	27. Cheelkhedi	Bechirag
	28. Mastipura	12
	29. Khichitaal	13
Police Station Sukhi-Sewania Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	30. Islaamnagar	12
	31. Kalyanpura Pathar	15
Police Station Gandhi nagar Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	32. Pareba Kheda	9
	33. Vishnkhedi	5
	34. Chandpur	5
	35. Dobra	5
Police Station Nishatpura Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	36. Lambakheda	Ward No. 79 (Vidhanshabha Berasiya to Nabibag)
Police Station Parwalia Sadak Tehsil Hujur, Distt. Bhopal	37. Khejradev	5
	38. Guradiya	6

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82) 2016-17-1393.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
डिण्डौरी	शहपुरा	शक्तिभगदू रैयत प.ह.नं. 47	135	0.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
			131	0.16		
			133	0.19		
			130	0.16		
			127	0.30		
			126	0.08		
			47/1	0.11		
			49	0.06		
			48	0.20		
			46	0.07		
			45	0.03		
			29	0.41		
			31	0.24		
			33	0.10		
			योग . .	2.33		
		शासकीय भूमि	118	0.02		
			32	0.01		
			योग . .	0.03		
			सकल योग . .	2.36		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2016-17-1397.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक

समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बडखेरा	613	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
		नं. 01	532	0.06		
		प.ह.नं. 46.	614	0.03		
			533	0.05		
			525	0.03		
			524/1	0.01		
			524/2	0.01		
			534	0.01		
			216	0.11		
			491	0.03		
			495	0.03		
			492	0.03		
			494/1/1	0.04		
			494/1/2	0.02		
			84	0.05		
			493	0.02		
			345	0.02		
			388/1	0.01		
			387	0.01		
			383	0.04		
			384	0.01		
			381	0.07		
			378	0.01		
			380	0.01		
			373	0.01		
			372	0.03		
			362	0.04		
			363/1	0.01		
			363/2	0.01		
			363/3	0.01		
			214	0.02		
			215	0.06		
			213/1	0.01		
			213/2	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			213/3	0.01		
			212	0.02		
			115	0.12		
			114	0.13		
			113	0.08		
			87	0.05		
			88	0.02		
			89	0.02		
			86/2	0.02		
			85	0.06		
			494/2	0.01		
			388/2	0.01		
			योग . .	1.51		
	शासकीय भूमि		334	0.01		
			147	0.02		
			योग . .	0.03		
			सकल योग . .	1.54		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2016-17-1395.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	समनपुरा रैयत प.ह.नं. 47.	161/1	0.01	कार्यपालन यंत्र,	बिलगाँव परियोजना का
			161/2	0.01	जल संसाधन संभाग,	नहर कार्य.
			162	0.01	डिण्डौरी.	
			142/1	0.05		
			142/2	0.03		
			142/3	0.03		
			163/1	0.01		
			योग . .	0.15		
	शासकीय भूमि					
			योग . .	0.00		
			सकल योग . .	0.15		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2016-17-1390.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
डिण्डौरी	शहपुरा	टिकरा खम्हरिया प.ह.नं. 48.	38	0.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.		
			39/1	0.11				
			39/2	0.11				
			40	0.20				
			31	0.28				
			32	0.13				
			34	0.09				
			35	0.08				
			36/3	0.04				
			36/11	0.04				
			36/10	0.04				
			36/2	0.05				
			योग . .	1.30				
			शासकीय भूमि					
			योग . .	0.00				
			सकल योग . .	1.30				

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2016-17-1401.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मुड़की रैयत नं. 01 प.ह.नं. 45.	85/1	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
			85/2	0.14		
			101/3	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			124	0.01		
			173	0.13		
			102	0.19		
			योग . .	<u>0.67</u>		
	शासकीय भूमि		126	0.01		
			123	0.01		
			योग . .	<u>0.02</u>		
			सकल योग . .	<u>0.69</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2016-17-1383.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		सर्वे		भू-अर्जन हेतु	निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	टिकरिया प.ह.नं. 15.	341	0.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
			342	0.03		
			343/1	0.03		
			343/2	0.03		
			344	0.02		
			352/1	0.01		
			352/2	0.01		
			369	0.05		
			554	0.03		
			355	0.02		
			365	0.03		
			377	0.03		
			376/1	0.02		
			376/2	0.02		
			376/3	0.02		
			376/4	0.02		
			370	0.07		
			21/1	0.01		
			21/3	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			21/4	0.01		
			21/6	0.01		
			21/2	0.01		
			21/5	0.01		
			21/7	0.01		
			21/8	0.01		
			24/1	0.02		
			24/2	0.02		
			26/1	0.02		
			26/3	0.02		
			26/5	0.02		
			26/2	0.02		
			26/4	0.02		
			26/6	0.02		
			27	0.03		
			29/1	0.02		
			29/2	0.02		
			29/3	0.01		
			29/4	0.01		
			35	0.05		
			64/1	0.02		
			68/1/1	0.06		
			64	0.07		
			68/1/2	0.06		
			68/2	0.06		
			64/3	0.01		
			64/5	0.03		
			64/2	0.03		
			64/6	0.02		
			65	0.02		
			66	0.03		
			67	0.05		
			69/1	0.04		
			59	0.14		
			58/1	0.02		
			58/2	0.05		
			58/3	0.05		
			64/3	0.05		
			58/5	0.05		
			58/6	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			58/7	0.02		
			57/1	0.02		
			57/2	0.02		
			योग . .	1.81		
	शासकीय भूमि		339	0.12		
			366	0.02		
			20	0.02		
			योग . .	0.16		
			सकल योग . .	1.97		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2016-17-1382.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ नगर/ग्राम तालुक	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा बिजौरी सबमाइनर नं. 01 प.ह.नं. 45.	263/1	0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
		428/1	0.01		
		263/2	0.01		
		428/2	0.01		
		263/3	0.01		
		428/3	0.01		
		426/4	0.02		
		414/1	0.01		
		262	0.06		
		256	0.14		
		261/1	0.04		
		261/2	0.04		
		261/3	0.04		
		245	0.04		
		248/1	0.01		
		248/2	0.02		
		248/3	0.02		
		248/4	0.01		
		248/5	0.01		
		248/6	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			247	0.04		
			246	0.05		
			198/1	0.04		
			306/1	0.01		
			195/1	0.04		
			195/2	0.03		
			196/3	0.02		
			196/2	0.02		
			197/1	0.02		
			197/2	0.02		
			198/2	0.04		
			199	0.02		
			183/1	0.04		
			183/2	0.03		
			200	0.03		
			163/1	0.04		
			163/4	0.02		
			182	0.07		
			181/1	0.03		
			181/2	0.02		
			181/3	0.02		
			181/4	0.01		
			165	0.02		
			169	0.06		
			166/1	0.05		
			162	0.02		
			166/2	0.04		
			168	0.01		
			167/1	0.01		
			167/2	0.01		
			104/3	0.03		
			131	0.12		
			161	0.02		
			149/1	0.01		
			132	0.05		
			128/1	0.02		
			128/2	0.02		
			128/3	0.02		
			129	0.03		
			115	0.01		
			योग . . .	1.76		
		शासकीय भूमि	427	0.03		
			277	0.01		
			250	0.01		
			278	0.01		
			योग . . .	0.06		
			सकल योग . . .	1.82		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2016-17-1394.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	गुरैया माइनर नं. 02 प.ह.नं. 47.	24/1 23/1 23/2 18/1 24/2	0.10 0.11 0.07 0.07 0.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
शासकीय भूमि				योग . . . 0.46		
				योग . . . 0.00		
				सकल योग . . . 0.46		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2016-17-1392.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मंगेला सबमाइनर	149	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
शासकीय भूमि				योग . . . 0.04		
				418	0.08	
				427	0.04	
				421	0.05	
				426	0.01	
				योग . . . 0.18		
				सकल योग . . . 0.22		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2016-17-1391.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	समनपुरा माल प.ह.नं. 47	196 197 205/1 205/3 202 203 201	0.06 0.02 0.06 0.02 0.03 0.03 0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
शासकीय भूमि				योग . . .		
				0.23		
				योग . . .		
				0.00		
				सकल योग . . .		
				0.23		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82) 2016-17-1396.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरगाँव माइनर नं. 3, प.ह.नं. 20.	313 314 315/1 315/2 315/3	0.10 0.03 0.02 0.02 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			362/1	0.01		
			361	0.02		
			380	0.02		
			363/1	0.12		
			892	0.06		
			172	0		
			379	0.02		
			385	0.30		
			509	0.08		
			508	0.02		
			545	0.01		
			546	0.01		
			547/1	0.01		
			548	0.01		
			551	0.01		
			552	0.01		
			553	0.01		
			554	0.02		
			556	0.02		
			557/1	0.01		
			557/2	0.01		
			769	0.02		
			767	0.03		
			766	0.03		
			764/1	0.04		
			764/2	0.02		
			764/3	0.02		
			558	0.07		
			559	0.01		
			560	0.02		
			562	0.02		
			561	0.02		
			498/1	0.02		
			589/4	0.02		
			498/2	0.02		
			589/3	0.02		
			498/3	0.02		
			589/2	0.02		
			496	0.03		
			587	0.01		
			586	0.01		
			584	0.01		
			582	0.01		
			576	0.01		
			577	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			589/1	0.02		
			498/4	0.01		
			592	0.02		
			402	0.06		
			591	0.08		
			637	0.08		
			636	0.02		
			645/1क	0.03		
			645/1ख	0.04		
			645/2	0.03		
			889	0.01		
			890	0.02		
			891	0.03		
			906	0.01		
			905	0.04		
			912/1	0.04		
			913	0.07		
			914	0.10		
			927	0.14		
			550/2	0.01		
			912/2	0.05		
			363/2	0.02		
			योग . .	2.41		
	शासकीय भूमि		510	0.01		
			555	0.01		
			499	0.02		
			590	0.01		
			870	0.02		
			588	0.01		
			योग . .	0.08		
			सकल योग . .	2.49		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 21 मार्च 2017

प्रारंभिक अधिसूचना

क्र. 08 अ-82-16-17-3409.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	शाहपुर	बरेठा (वनग्राम)	4.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म. प्र.)	मोखा जलाशय के डूब क्षेत्र में.

अनुसूची—2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ. क्र.	खसरा	रकबा (हे. में.)	अर्जन की भूमि का रकबा (हे.में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	57	4.177	0.970	फुन्दलाल, धनसिंग व. सुकलू जमना प्रसाद व सूरज सा देह
2	62	2.298	1.290	ज्ञामसिंह व मंगू गोंड सा देह
3	191/2	1.279	1.050	तुलसी व. रोवा गोंड सा देह
4	191/3	0.890	0.890	जबरसिंह व. रोवा गोंड सा देह
		योग . .	<u>4.200</u>	

- (1) चूंकि मोखा जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, पूरक अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर, (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. 864-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	कुम्हारी प.ह.नं. 12/54 रा.नि.म. बालाघाट.	रकबा 0.594 है. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट जिला बालाघाट.	बालाघाट से जबलपुर ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. 886-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	परसवाड़ा	ग्राम-झाराखेडा प.ह.नं. 40.	निजी भूमि 4.713 हे. सिंचित/असिंचित.	कार्यपालन यंत्री, बंजर परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट.	ग्राम झाराखेडा झारा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.
बालाघाट	परसवाड़ा	ग्राम-सहेजना प.ह.नं. 40/11	निजी भूमि 0.189 हे. सिंचित/असिंचित.	कार्यपालन यंत्री, बंजर परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट.	ग्राम-सहेजना झारा जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित भूमि.
बालाघाट	बैहर	ग्राम-बैहर प.ह.नं. 17/1	निजी भूमि 1.130 हे. सिंचित/असिंचित.	कार्यपालन यंत्री, बंजर परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट.	ग्राम-बैहर झारा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

कुल योग निजी भूमि . . . 6.032

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2017

पत्र क्र. 618-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	डिठौरा	5.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 22 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 620-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पगरा	4.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 24 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 622-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	करही लामी	1.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 30 एवं 31 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 624-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	वरदहा	2.100	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 30 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 626-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कोठार	2.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 26 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 628-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खुटहा	5.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 630-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वहेलिया-423	0.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 632-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कौवादान-114	4.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 634-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खम्हरिया-127	3.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 636-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हूजूर	खोखम-142	1.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 638-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हूजूर	मध्येपुर-507	10.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 640-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हूजूर	महिदल-509	7.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 642-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नरोरा-309	4.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 26 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 644-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	करौंदी	2.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 22 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 646-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	झिरिया कोठार	2.600	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 22 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 648-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइजर एवं सब-माइजर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हूजूर	धौचट-302	3.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बेला वितरक के माइजर क्र. 25 संभाग, जिला सतना (म. प्र.). के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 650-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइजर एवं सब-माइजर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वैजनाथ-457	3.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बेला वितरक के माइजर क्र. 25 संभाग, जिला सतना (म. प्र.). के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 652-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइजर एवं सब-माइजर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कपुरी-68	1.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बेला वितरक के माइजर क्र. 25 संभाग, जिला सतना (म. प्र.). के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 654-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	जोन्ही-213	8.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 656-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नौवस्ता-325	1.700	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 658-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दुवहाई-282	4.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 660-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माईनर एवं सब-माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भोलगढ़-483	7.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, जिला सतना (म. प्र.).	बेला वितरक के माईनर क्र. 25 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्र./2026/रीडर-भू-अर्जन/2017 रा.प्र.क्र. 33/अ-82/2016-17

शुद्धिपत्र

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी की प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 731-रीडर-भू-अर्जन 2017 दिनांक 16-2-2017
09-अ-82/2016-17 ग्राम राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी के संदर्भ में.—मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट)

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि						संशोधित प्रविष्टि					
स. क्र.	खसरा नं.	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता	स. क्र.	खसरा नं.	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	42/3	भूमि स्वामी	निजी भूमि	0.166	मनीष पिता हुकुचंद, वंदना पति मनीष गुप्ता महाजन पता निवासी, सेंधवा.	8	42/2	भूमि स्वामी	निजी भूमि	0.320	भरत कुमार पिता जगन्नाथ जाति महाजन निवासी ग्राम.
19	387/6	भूमि स्वामी	निजी भूमि	0.026	मोहन पिता गणस्या, भोलाराम जाति भारूड पता निवासी ग्राम.	19	387/6	भूमि स्वामी	निजी भूमि	0.026	मोहन पिता गणस्या, जाति भारूड पता निवासी ग्राम.

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
 राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82)2015-16-1380—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—डिण्डौरी
 (ग) ग्राम—झांकी माल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर. रा.नि.म. करंजिया,
 प.ह.नं.—

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

777/2

0.120

560/2

0.500

626

0.150

562/2

0.070

55

0.160

571/2

0.200

767/2

0.190

832

0.351

775/1/छ

0.190

835

0.800

775/1/ज

0.190

770/2

0.800

773/3

0.200

742/3

0.480

773/4

0.200

774/3

0.320

775/1/च

0.200

512/2/ख

0.800

654

0.210

498

0.400

562/1

0.070

557

0.41

571/1

0.210

824

0.810

367

0.290

751/1

0.830

550/2

0.400

685/1

0.870

773/2

0.400

740

0.880

147/2

0.080

468/2

0.880

(1)	(2)	(1)	(2)
541	0.940	758	1.100
481/2	1.000	27	0.450
563/1	0.240	306	0.130
563/2	0.800	455	0.610
759	1.060	49	0.230
760	1.060	50	0.720
51/1	1.080	100	0.010
101	0.010	430	0.950
554	0.080	700	0.350
769	1.180	505	2.300
547	1.210	17	0.950
834	0.600	522	0.210
682/1	1.220	601	2.120
762/1	1.370	609	0.090
762/3	1.520	653	0.070
762/2	1.530	658	0.180
517/1	1.600	509/2	0.120
528/2	0.310	511/2	0.180
599/2	0.770	518/2	0.220
613/2	0.050	525/2	0.480
670/2	0.070	616/2	0.180
676/2	0.280	617/2	0.030
763/2	0.220	642/2	0.020
528/3	0.310	742/2	1.140
599/3	0.770	774/2	0.310
613/3	0.050	556	0.340
670/3	0.070	655	0.490
676/3	0.280	738	1.560
763/3	0.220	849/545	0.400
528/1	0.310	512/3	2.800
599/1	0.770	783	0.432
613/1	0.050	512/2/क	1.740
670/1	0.080	614/2	0.050
676/1	0.290	749/2	1.230
763/1	0.210	755/2	0.140
458	0.280	23	1.490
481/3	1.400	31	0.570
549/2	0.090	40	0.370
589	0.530	112	0.250
679	1.180	465	0.540
739	0.340	52	0.800
29	1.950	54	0.820
94	0.505	90	0.080
757	1.100	103	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
553	1.320	829	0.380
701	0.350	596	1.950
611	0.140	597	1.070
766/2	2.420	633	0.140
826	0.950	734	1.300
510	0.400	580	4.220
619	0.250	660	0.080
649	0.700	836	0.090
751/2	0.820	837	0.380
766/3	1.340	529	0.930
18	0.970	598	1.940
21	0.680	604	1.150
24	0.670	605	0.020
30	0.630	612	1.140
41	0.410	671	0.220
111	0.140	764	0.660
113	0.100	520	1.640
53	1.010	607	0.200
78	0.070	748	2.410
157	2.540	771	0.990
500	0.650	524	1.960
545	0.400	614/1	0.050
623	0.340	741	1.630
807	1.040	749/1	1.220
811	1.350	755/1	0.470
148	0.230	483	1.110
441	1.680	490	0.300
444	1.141	502	1.860
703	1.400	728	2.060
539	0.640	16	0.225
588	1.700	521	0.080
602	0.700	538	0.630
648	1.160	587	3.070
631	0.050	590	0.810
659	0.110	639	0.180
678	2.500	664	0.790
733	0.710	509/1	0.330
754	0.420	511/1	0.520
828	0.570	518/1	0.670
632	0.180	525/1	1.470
680	2.510	616/1	0.530
732	0.710	617/1	0.100
753	0.090	642/1	0.090
756	0.520	742/1	1.910

(1)	(2)	(1)	(2)
774/1	0.310	820	0.560
22	0.147	729/1	1.500
288	0.320	825/1	1.600
390	1.390	823/1	0.800
391	0.290	76	0.300
392	0.160	27	1.510
393	0.260	726	0.910
463	0.250	774/2	0.310
489	0.540	23	1.670
492	0.460	31	0.570
712	0.570	31	0.570
727	0.650	52	0.800
731	1.300	781	3.450
581	1.810	775/2	2.350
593	2.870	447	1.280
594	0.200	446	1.260
629	0.150	826	0.950
641	0.050	818/2	0.620
647	2.040	21	0.680
667	0.400	24	0.670
507	2.080	703	1.400
508	0.610		0.800
628	0.290	728	2.060
645	2.210	26	2.110
672	2.370	774/1	0.310
559	1.210	710	1.010
643	0.370	782	4.180
723	2.110	712	0.570
735	3.790	727	0.650
736	0.890	731	1.300
833	0.890	711	0.630
	1.010	721	5.370
724	0.760	73	0.270
825/4	0.640	725	1.980
704	0.390		योग . . . 215.454
824	0.810		शासकीय भूमि . . . 52.245
822	0.820		कुल योग . . . 267.699
821	0.820		
51/1	1.080	(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी,
101	0.010		कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
554	0.080		
769	1.180		
825/2	1.200		
772	0.560		

क्र.-भू-अर्जन-39(अ-82)2015-16-1389—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना

में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—डिण्डौरी
 (ग) ग्राम—चुहचुही माल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—90.030 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर
 प.ह.नं.-141.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु
 प्रस्तावित रकबा
 (हे. में)

(1)

(2)

92/4

0.150

47/2

0.200

34

0.220

55

0.240

83

0.270

92/5

0.300

92/3

0.320

4

0.340

92/1

0.350

92/2

0.350

98

0.210

99

0.170

58

0.250

24

0.130

26

0.390

5

0.080

42

0.190

56

0.130

57

0.250

6

0.090

41

0.190

59

0.260

61

0.130

48

0.710

88

0.24

20

0.250

49

0.470

(1)

(2)

87

0.72

18

0.400

76

0.330

13

0.800

54

0.880

14

0.570

77

0.400

30

0.400

31

1.100

75

0.800

97

0.30

35

0.180

43

0.190

64

0.230

67

0.370

70

0.570

36

0.180

44

0.190

65

0.230

66

0.370

71

0.570

29

1.060

16/1

0.800

45/1

0.900

28

1.210

27

1.740

45/3

0.250

16/2

0.800

45/2

1.220

91

2.050

46

1.510

85

0.700

2

0.670

73

0.940

80

0.840

11

1.630

47/1

0.430

53

0.540

8

0.940

37

0.040

38

0.360

50

0.950

60

0.260

62

0.140

21

2.330

(1)	(2)	(1)	(2)
68	0.510	105	0.348
17	2.330	109	1.250
23	0.510	157	1.400
32	3.620	159	1.350
69	0.450	192	1.536
19	2.230	108	1.250
51	1.900	111	0.990
52	2.490	187	2.450
88	0.710	152	1.530
87	0.720	155	1.970
97	0.400	158	1.680
योग . .	54.770	189	3.190
शासकीय भूमि . .	35.26	191	4.500
कुल योग . .	90.03	163	0.730

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-41(अ-82)2015-16-1379—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—डिण्डौरी
 (ग) ग्राम—मनका रैयत
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—50.061 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर, प.ह.नं.-141.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
194/1	0.420
136/1	0.800
194/2	0.800
194/3	0.800

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-42 (अ-82)2015-16-1381—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा

योग . .	44.194
शासकीय भूमि . .	5.867
कुल योग . .	50.061

19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—चुहचही रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—149.960 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर,
प.ह.नं.—141.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)

(1)

(2)

223

0.050

202/3

0.060

240/1

0.100

113/1

0.150

154

0.180

174/2

0.180

192

0.200

226

0.140

236

0.060

228

0.200

86/3

0.200

50

0.210

96/2

0.250

209/1

0.260

209/2

0.260

189

0.270

123

0.330

134/1

0.34

231

0.35

62

0.36

116

0.370

115/2

0.380

114/1

0.400

143

0.400

73/1

0.400

114/4

0.400

221

0.410

114/2

0.400

202/1

0.040

(1)

(2)

106/2

0.440

54

0.450

78

0.460

114/3

0.400

202/2

0.060

153

0.460

44

0.500

34

0.520

1/2

0.280

100/2

0.240

117

0.370

152

0.170

128/1

0.560

128/2

0.560

155

0.590

126

0.620

134/3

0.670

119

0.330

197

0.160

208

0.180

134/2

0.670

174/4

0.680

120

0.330

196

0.170

206

0.180

118

0.330

198

0.180

113/2

0.210

114/5

0.400

174/3

0.170

175

0.790

73/2

0.390

114/6

0.400

222

0.810

156

0.840

229

0.130

233

0.780

168

0.930

95/2

0.230

105/2

0.750

95/3

0.230

(1)	(2)	(1)	(2)
105/3	0.750	225	0.240
32	0.220	162	0.530
102	0.810	165	1.150
160	0.970	214	0.720
170	0.260	227	0.290
171	0.600		0.020
172	0.200	121	1.800
52	0.370	182	0.820
213	0.910	45/2	0.250
37	1.520	48/2	0.460
53/2	0.260	51/2	0.090
93	0.170	56/2	0.450
145/2	0.850	65	0.280
42	1.610	74/3	0.330
101	0.810	107/2	0.230
141	0.810	108/2	0.230
19	0.440	29	0.170
49	0.220	30	1.690
63/2	0.500	70	0.540
74/2	0.350	193	0.150
76/2	0.320	91	0.260
167	0.930	103	0.910
216	0.930	157	0.590
20	0.540	159	0.960
40	0.540	173	0.200
71	1.510	179	1.280
69	0.760	194	0.230
166	0.540	112	1.780
232	0.920	158	1.100
161	0.600	178	0.300
164	1.150	239	0.240
215	0.660	45/1	0.250
97	1.100	48/1	0.450
99	0.160	51/1	0.090
127	0.870	56/1	0.450
139	0.200	63/1	0.500
38	0.160	64	0.280
130	0.800	74/1	0.330
131	0.240	108/1	0.240
185	0.120	109/1	0.210
220	1.010	110/1	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
111/1	0.210	39	0.410
53/1	0.260	55	1.090
68	0.160	59	1.840
95/1	0.470	81	0.270
105/1	1.500	43	1.060
133	0.570	176	0.780
145/1	0.860	181	0.810
22, 88	0.100	186	1.110
129	1.060	205	0.260
	1.460	212	1.250
60	0.330	234	0.540
86/1	0.630	235	0.180
86/2	0.240	122	3.320
87	0.100	148	2.800
104	1.430	31	4.540
106/1	0.950	36	0.460
149	1.760	72	1.040
163	1.070	83	0.310
230	0.830	46	3.350
238	0.190	146	2.170
247	0.370	150	0.970
58	1.600	151	1.780
75	1.400	184	0.730
80	0.380	188	0.230
89	0.090		
115/1	0.690		योग . . . 112.560
138	1.210		शासकीय भूमि . . . 37.400
35	1.780		कुल योग . . . 149.960
57	1.390		
140	0.580		
177	0.870		
190	0.560		
204	0.440		
92	0.170		
132	0.960		
135	2.820		
144	1.710		
21	2.100		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-43 (अ-82)2015-16-1384—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा

19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौर

(ख) तहसील—डिण्डौर

(ग) ग्राम—जाड़ासुरंग माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—85.016 हेक्टेयर रा.नि.म. करंजिया

प.ह.नं.-141.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

211/1

0.240

52

2.000

211/2

0.240

53

2.000

206

0.370

193

1.430

207

0.400

172

0.230

190

0.400

176

0.400

208

0.430

185

0.440

231/1

0.140

244

0.230

201

0.390

175

0.280

356

0.180

243

0.230

238

0.710

74/1

0.620

192

0.320

67

0.228

198

0.410

224

0.245

182/1

0.150

68

0.214

203/1

0.300

225

0.325

241

0.850

60, 65

0.160

180

0.300

234

1.320

226/3

0.280

171

0.230

226/5

0.280

177, 178

0.300

218

0.990

248

0.130

203/2

0.300

347

0.200

220

0.400

253

0.380

221

0.590

57/1

0.540

197

1.410

228

0.580

173

0.250

216/2, 227/2

0.530

245

0.320

212

1.100

187

1.570

223

0.760

74/2

0.250

229

0.320

202

2.690

(1)	(2)	(1)	(2)
184	1.190	191	0.530
247	1.190	204	5.220
58	0.130	254	0.890
57/3	0.540	183	0.950
57/2	0.540	217	1.610
213	0.470	236	1.160
51	2.000	237	1.260
52	2.000	249	0.790
53	2.000	66, 181	0.710
193	1.430	195	1.260
172	0.230	219	1.200
176	0.400	210	4.680
185	0.440	348	0.400
244	0.230	239	2.950
175	0.280	242	0.470
243	0.230	56	3.280
74/1	0.620	216	1.060
67	0.228	216/1	0.530
224	0.245	227/1	
68	0.214	335	
225	0.325	योग . . .	<u>57.376</u>
60, 65	0.160	शासकीय भूमि . . .	<u>27.640</u>
234	1.320	कुल योग . . .	<u>85.016</u>
171	0.230		
177, 178	0.300		
248	0.130		
347	0.200		
253	0.380		
57/1	0.540		
228	0.580		
216/2, 2272	0.530		
212	1.100		
223	0.760		
229	0.320		
202	2.690		
184	1.190		
247	1.190		
170	1.240		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-44 (अ-82)2015-16-1386—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी

		(1)	(2)
(ग)	ग्राम—बिठहदेह रैयत		
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—61.570 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर	313/3	0.400
	प.ह.नं.-141.	220	0.410
खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु	256/1	0.200
	प्रस्तावित रकबा	255	0.420
	(हे. में)	246	0.450
(1)	(2)	335	0.450
164	0.040	81/1	0.480
165	0.050	240/2	0.180
214	0.080	278/2	0.300
72/2	0.080	82/5	0.500
72/3	0.090	218/2	0.200
72/1	0.090	332/1	0.530
158	0.140	240/1	0.180
257/6	0.150	277	0.510
215	0.150	149/1	0.500
196	0.150	151/1	0.070
333/6	0.160	125	0.580
259	0.180	126	0.580
219/3	0.200	248/1	0.580
205	0.200	323/5	0.320
218/3	0.200	333/3	0.320
313/2	0.200	315	0.140
313/4	0.200	318	0.510
190	0.180	134/1	0.650
148/8	0.080	83	0.670
136	0.260	323/4	0.320
218/6	0.310	333/5	0.320
96/4	0.310	323/2	0.310
218/5	0.020	333/2	0.380
218/8	0.320	323/3	0.320
194	0.220	333/4	0.420
195	0.340	233	0.770
90	0.360	222	0.780
74	0.160	324	0.790
81/2	0.200	218/7	0.310
78	0.380	237	0.120
101/2	0.390	265	0.213
103/2	0.400	343/1	0.170
82/3	0.400	343/2	0.180
219/2	0.400	347/2	0.570
251/2	0.400	347/3	0.570

(1)	(2)	पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
347/5	0.570	
82/6	0.880	
347/1	0.580	
82/4	0.880	
323/1	0.310	
333/1	0.380	
99	0.900	
149/3	0.450	
149/4	0.250	
66	0.580	
280	0.940	
221	0.960	
242	0.990	
316	0.140	
319	0.480	
101/1	1.000	
148/1	0.360	
349	0.520	
348	0.520	
238	0.110	
282	0.740	
97	1.170	
281	1.180	
167/1	0.660	
336/1	0.230	
339/1	0.270	
167/2	0.660	
336/1	0.240	
339/2	0.270	
320	1.060	
260	0.120	
150	0.090	
225/2	1.260	
82/1	1.260	
योग . . .	45.173	
शासकीय भूमि . . .	16.397	
कुल योग . . .	61.570	
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		
क्र.-भू-अर्जन-46 (अ-82)2015-16-1378—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—डिण्डौरी
		(ख) तहसील—डिण्डौरी
		(ग) ग्राम—सढ़वाछापर
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—193.201 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर प.ह.नं.-141.
	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
	100	0.030
	58	0.060
	67	0.090
	18/4	0.100
	212/1	0.110
	212/2	0.700
	212/3	0.100
	69	0.140
	212/6	0.190
	165/2	0.290
	95/2	0.300
	212/10	0.110
	4/2	0.400
	18/5	0.360
	95/1	0.280
	103	0.120
	129	0.400
	194	0.200
	149	0.490
	9	0.500
	212/4	0.250

		(1)	(2)
144	0.480		
18/1	0.510	132	0.110
191/2	0.530	1/2	0.810
18/2	0.500	119/2	0.050
403/1	0.040	121	0.410
18/3	0.500	188/2	0.470
403/2	0.040	210	0.21
147	0.470	212/9	0.170
167/1	0.240	169	0.720
226/1	0.060	179	0.880
257/1	0.130	84/4	0.280
464/1	0.160	560	0.450
167/2	0.250	192	0.22
226/2	0.060	212/8	0.25
257/2	0.120	4/1	1.030
464/2	0.160	141	0.850
186	0.590	326/1	0.200
154/2	0.600	326/2	0.120
13	0.250	262/6	0.850
124	0.640	262/5	0.740
212/7	0.420	10/2	1.120
137	0.550	190/2	0.730
437	0.150	262/2	0.130
14	0.270	180	0.500
77	0.020	23	0.630
181	0.730	81	0.320
177	0.750	262/4	0.180
322	0.510	168	0.660
15	0.300	173	1.520
14	0.080	188/1, 212/5	1.310
269	0.410	154/1	0.490
		182	0.710
		187	0.440
		41	1.300
		190/1	0.720
		30	1.250
		94/4	0.10
		95/6	0.14
		130/4	0.520
		94/2	0.12
		95/4	0.150
		130/2	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
94/3	0.08	156	0.860
95/5	0.140	227	0.120
130/3	0.520	22/2	0.530
94/1	0.05	96/2	0.060
95/3	0.14	211/2	0.320
130/1	0.520	22/1	0.530
38/2	0.400	96/1	0.070
122	0.290	211/1	0.330
138/2	0.800	43	0.05
140	0.440	128	0.950
52	0.200	150	0.680
142	1.240	27	0.860
218	0.260	28	0.900
84/1	0.620	29	2.710
184	0.900	38/1	0.340
328	0.620	24	0.160
178	2.110	57	0.170
5/3	1.830	131	0.770
61	0.100	34	0.120
148	0.850	37	1.580
166	2.050	138/1	1.900
139	2.020	65	0.230
153	0.650	220	0.240
193/2, 219	0.610	327	0.690
136	1.050	330	2.400
5/1	2.250	11	4.000
176/2	0.070	19	0.44
5/2, 323	1.640	98	0.210
193/1	0.930	160	0.62
7	1.830	45	3.02
170/3	0.260	46	1.140
176/3	0.180	54	0.340
170/1	0.260	71	0.560
176/1	0.170	175	3.010
10/1	1.060	100	0.030
40	2.850	500/2	0.130
80	0.210	257/3	0.120
31	0.350	464/3	0.160
26	3.270	257/4	0.120
33	0.640		
53	0.160		

(1)	(2)	(1)	(2)
464/4	0.160	52	0.200
85/2	0.200	142	1.240
212/10	0.110	274	0.500
129	0.400	184	0.900
18/5	0.400	230	0.240
68	0.030	403/3	0.040
144	0.480	467	0.830
18/1	0.510	424	0.220
154/2	0.600	178	2.110
124	0.640	61	0.100
137	0.550	112	0.050
437	0.150	148	0.850
14	0.270	305	0.590
77	0.020	320	0.680
101	0.030	166	2.560
270	0.400	323	0.770
188/2	0.470	156	0.860
210	0.080	227	0.120
212/9	0.270	263	1.040
169	0.720	281	0.940
204	0.150	379	0.150
179	0.880	390	0.220
262/6	1.150	444	1.230
188/1	1.310	80	0.210
212/5	0.250	211/2	0.320
154/1	0.490	150	0.680
336	1.070	37	1.580
182	0.710	138/1	1.900
187	0.440	45	3.430
462	0.500	46	1.140
190/1	0.720	54	0.340
288/1	0.490	59	0.070
407	0.170	71	0.560
430/3	0.400	133	1.580
130/3	0.520	332/1	0.800
130/1	0.520	330	2.400
267/1	0.720		
272/1	0.100		
		योग . . .	<u>127.341</u>
		शासकीय भूमि . . .	<u>65.860</u>
		कुल योग . . .	<u>193.201</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		(1)	(2)
क्र.-भू-अर्जन-47 (अ-82)2015-16-1385—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		74/1	1.570
		107	1.610
		108	1.610
		15/1	1.640
		96	0.280
		100	1.390
		68/3	0.290
		65	0.224
		85	0.370
		86	0.380
		74/3	0.400
		84	0.490
		87	0.500
		19/3	0.300
		68/1	0.467
		74/2	0.610
		66	0.580
		68/2	0.660
		110/1	0.820
		104/1	1.000
		104/2	1.000
		67/2	0.350
		69/3	0.410
		69/4	0.370
		78	1.460
		74/1	1.570
		107	1.610
		108	1.610
		15/1	1.640
		96	0.280
		100	1.390
		17	2.080
		22	1.460
		97	0.410
		105	0.820
		72	1.880
		76	1.600
		88	0.370
		360	0.36
		122	1.080
		102	0.200

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—करौंदी रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—73.146 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर प.ह.नं.-141.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)

(1)

(2)

68/3

0.290

65

0.224

85

0.370

86

0.380

74/3

0.400

84

0.490

87

0.500

19/3

0.300

68/1

0.467

74/2

0.610

66

0.580

68/2

0.660

110/1

0.820

104/1

1.000

104/2

1.000

67/2

0.350

69/3

0.410

69/4

0.370

78

1.460

(1)	(2)	(ग) ग्राम—जाड़ासुरंग		
58/3	0.620	(घ) लगभग क्षेत्रफल—81.520 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी		
115/3	0.620	प.ह.नं.-141.		
113/1	0.930		खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु
69/1	0.960			प्रस्तावित रकबा
104/1	1.000			(हे. में)
69/3	0.410		(1)	(2)
143	1.150		335	0.320
119/4	1.470		332	0.340
104	1.610		329	0.350
138	1.330		327	0.400
113/1	1.990		356	0.420
14	1.990		326	0.500
24/2	2.000		376/1	0.540
111/1	2.100		376/2	0.550
70	0.800		360/2	0.560
71	1.770		364	0.580
142	3.500		303	0.520
18	2.100		370	0.590
94	1.220		366	0.680
17	2.080		306	0.720
22	1.460		391/2	0.500
97	0.410		369	0.870
105	0.820		339	0.970
54/1	1.320		361/1	1.030
	योग . . .		361/2	1.030
	शासकीय भूमि . . .		309/1	1.240
	कुल योग . . .		309/2	1.250
			345	1.250
			354	0.210
			385	0.800
			355	0.200
			367	0.880
			371	0.08
			333	0.490
			334	1.370
			390	1.870
			318	0.460
			320	0.740
			323	0.170

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-48 (अ-82)2015-16-1388—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(1)	(2)	(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
328	0.150	
363	0.360	
374	1.580	
305/2	1.000	
375/2	1.000	
308	2.020	
309	2.490	
360/1	0.570	
301	0.420	
365	0.570	
368	0.880	
377	1.600	
324	2.150	
305/1	0.400	
307	1.360	
346	0.440	
375/1	1.130	
343	4.760	
311	0.280	
312	0.800	
313	0.800	
315	0.430	
340	0.830	
344	0.150	
348	0.710	
349	0.850	
389	1.200	
376/2	0.550	
364	0.580	
303	0.650	
374	1.980	
305/2	1.000	
375/2	1.000	
166	0.570	
305/1	0.400	
346	0.440	
375/1	1.130	
343	4.760	
	योग . . .	
	54.470	
	शासकीय भूमि . . .	
	27.050	
	कुल योग . . .	
	81.520	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—डिण्डौरी
		(ख) तहसील—डिण्डौरी
		(ग) ग्राम—जुगंदई रै.
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—92.985 हेक्टेयर रा.नि.म. गोरखपुर प.ह.नं.-141.
		खसरा नं.
		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
		(1)
		(2)
		63
		0.080
		23
		0.130
		312/1
		0.120
		312/2
		0.140
		312/3
		0.180
		221
		0.250
		24
		0.260
		29/5
		0.150
		305/3
		0.400
		219/2
		0.370
		219/3
		0.140
		19/2
		0.080
		225/1
		0.320
		58/1
		0.290
		59/1
		0.280
		77/1
		0.020
		167/1
		0.200
		59/2
		0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
77/2	0.030	182/2	1.520
167/2	0.200	28	0.190
59/3	0.270	36/5	0.680
77/3	0.030	62	1.670
167/3	0.200	60	1.220
59/4	0.280	310	1.020
77/4	0.030	2/1	0.690
167/4	0.190	5/2	0.360
19/1	0.080	38/2	1.240
19/5	0.090	35	0.890
47/4	0.160	8	1.770
225/5	0.320	304/3/क	0.190
19/3	0.080	304/4	0.920
47/1	0.170	3	1.980
225/4	0.350	6/1	1.670
305/4	0.600	27	0.150
305/2	0.620	225/6	2.030
225/7	0.710	227	2.080
2/3	0.750	7	0.970
13/2	0.320	688/650	1.210
18/2	0.800	64	2.260
17/2	1.000	313	0.310
224	1.070	243, 309	0.320
17	1.150	2/2	0.690
240/2	0.680	2/4	0.750
18/4	1.200	5/1	0.360
13/1	0.520	6/2	2.260
61	1.220	20	0.440
305/1	1.220	38/1	1.240
222	1.260	16	2.130
18/1, 67/2	0.630	101	2.410
22	0.500	226/3	0.930
39	0.600	229/3	1.060
311	0.650	230/3	0.620
324	0.060	231/3	1.120
346	0.790	232/3	0.350
32/1	0.690	226/2	0.940
66/1	0.680	229/2	1.050

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बाहरपुर रैयत	
230/2	0.620	(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.590 हेक्टेयर. रा.नि.म. गोरखपुर,	
231/2	1.120	प.ह.नं.-141.	
232/2	0.340	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु
226/1	0.940		प्रस्तावित रकबा
229/1	1.050		(हे. में)
230/1	0.620	(1)	(2)
231/1	1.120	312	0.570
232/1	0.200	310	0.700
458	0.280	295	0.100
481/3	1.400	297	0.330
549/2	0.090	293	0.890
589	0.530	301/3	0.940
29	1.950	301/4	0.950
94	0.505	301/1	0.950
757	1.100	301/2	0.950
758	1.100	313	0.560
27	0.450	380/2	0.400
306	0.130	290	0.960
455	0.610	292	0.500
योग . .	<u>77.305</u>	34	0.020
शासकीय भूमि . .	<u>15.680</u>	299	3.900
कुल योग . .	<u>92.985</u>	300	3.150
		योग . .	<u>17.870</u>
		शासकीय भूमि . .	<u>34.720</u>
		कुल योग . .	<u>52.590</u>
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.	
डिण्डौरी, दिनांक 21 मार्च 2017			
क्र.-भू-अर्जन-45(अ-82)2015-16-1398—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—डिण्डौरी			
(ख) तहसील—डिण्डौरी			
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
		अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. C-1584.—श्री मोहम्मद इकबाल अंसारी, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 07--13-इक्कीस-ब(एक)-3855, भोपाल दिनांक 31-01-2014-01-02-2014 द्वारा सृजित टेक्नीकल असिस्टेंट (लायब्रेरी) के पद पर वेतनमान रुपये 9,300—34800+ग्रेड पे रुपये 4200/- पर विभागीय परीक्षा में चयन उपरांत परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर निम्न शर्तों की अधीन पदस्थ किया जाता है :-

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे.
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व नहीं हैं. यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा.
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे. यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा.
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13-4-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी.
5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.
6. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.
7. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी.
8. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिये आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा. बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.
9. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी.
10. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे. अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा.
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा सकेगा.
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी.

No. 593-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Induction Course (First Phase) (Second Batch)** for the newly appointed **Civil Judges Class II** from **2017 Batch from 24-04-2017 to 19-05-2017** in the Academy. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 24-04- 2017 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.E. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on the mobile number 09424958820 to **Shri K. L. Chourasia**, In case Shri Chourasia cannot be contacted, the participants may contact **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 or on

Office telephone No. 0761-2628679 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received ifrom the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course free of charge, as per the rules of the Academy.

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

क्र. 605-गोपनीय-2017-दो-2-1/2017.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, महोदय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अवधेश कुमार (गुप्ता), प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी.	कटनी	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	श्री समरेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तराना, जिला उज्जैन.	तराना	जबलपुर	उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्र. 611-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उच्च न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अरविंद रघुवंशी	मंदसौर	बेगमगंज	रायसेन	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री शेख सलीम	ब्यावरा	राजगढ़	राजगढ़	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 612-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती प्रेमा साहू	शहडोल	सोहागपुर	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 613-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में

स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती आरती शर्मा	टीकमगढ़	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री अक्षत तायल	चंदेरी	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 अशोकनगर के न्यायालय में तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
3.	श्री सचिन जैन	राजगढ़	जीरापुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

1. श्री अरविंद रघुवंशी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के अभ्यावेदन के आधार पर उन्हें जबलपुर से मंदसौर के स्थान पर, जबलपुर से बेगमगंज (रायसेन) हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी.
2. श्री शेख सलीम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा जिला राजगढ़.
3. श्रीमती प्रेमा साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल.
4. श्रीमती आरती शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़.
5. श्री अक्षत तायल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, चंदेरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चंदेरी जिला अशोकनगर. का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. E-2875-दो-2-6-2016.— श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 15 से 28 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2878-दो-2-34-2013.— श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 20 से 22 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. C-1653-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1655-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 से 13 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1657-दो-2-53-2016.—श्री आर. एन. चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 17 से दिनांक 22 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चौधरी वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1659-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1661-दो-2-15-2017.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 10 से 19 अप्रैल 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3006-दो-3-11-2002.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्र. B-2273-दो-3-3-2003.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1681-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 07 से 13 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश

स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1685-दो-2-50-2015.—श्री एस. सी. पाल, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 25 फरवरी से 3 मार्च 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. सी. पाल, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. सी. पाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1689-दो-2-28-2016.—श्री आर. के. वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 31 जनवरी 2017 से 10 फरवरी 2017 तक ग्यारह दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3012-दो-2-19-2013.—श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा को दिनांक 28 मार्च 2017 से दिनांक 4 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा को खंडवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3014-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 17 से दिनांक 20 अप्रैल 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

क्र. 607-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री ललित किशोर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर.	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

क्र. बी-2233-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/4503/तीन-10-40/78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 16 सितम्बर 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, 29वें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर, झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर.

No. B/2233-III-10-40/78 (Economic-Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. B/4503/III-10-40/78 (Economic-Offences), dated 16th September, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification, the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the following entry shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Shri Neetiraj Singh Sisodia, XXIX CJ-I & JMFC, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar & Alirazpur.

क्र. सी-1603-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक 2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. C/1603-III-6-4/72.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the column No. 3 of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. 2 of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in the column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Courts for the places mentioned in Column No. 2 of the table:—

ADJ Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court in a month (4)
(1) 1.	(2) Narayangarh (Mandsaur)	(3) VI ADJ, Mandsaur	10 days
2.	Saunsar (Chhindwara)	Shri Rajesh Kumar Rawatkar, III ADJ, Chhindwara.	2 weeks
3.	Khurai (Sagar)	Shri Mahendra Kumar Jain, VI ADJ, Sagar.	7 days

Civil Judge Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court in a month (4)
(1) 1.	(2) Bakswaha (Chhatarpur)	(3) Shri Shrikrishna Bukhariya, II Civil Judge Class-II, Bada Malahara.	15 days
2.	Tendukhera (Damoh)	Shri Varun Kumar Sharma, IV Civil Judge Class-II, Damoh.	10 days
3.	Khirkhya (Harda)	Shri Pradeep Soni, I Civil Judge Class-II, Harda.	10 days

क्र. सी-1605-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री मनीष अनुरागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, बिजावर, जिला छतरपुर, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, बिजावर के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये बक्सवाहा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, बिजावर में ही बैठक करेंगे. बिजावर-बक्सवाहा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है.

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री सतीश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, लौंडी, जिला छतरपुर, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, लौंडी के अतिरिक्त प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये नौगांव में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, लौंडी में ही बैठक करेंगे. लौंडी-नौगांव श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है.

No. C/1605-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Manish Anuragi, the I Civil Judge Class-II, Bijawar, District Chhatarpur, who was directed to hold sitting at Bakswaha in addition to his place of posting, Bijawar for the period of 15 days in a month, will now hold sitting at his place of posting, Bijawar only. The sitting of **Bijawar-Bakswaha** Link Court is hereby discontinued.

In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Satish Sharma, I Civil Judge Class 2, Laundi, who was directed to hold sitting at Nowgaon in addition to his place of posting, Laundi for the period of 1 week in a month, will now hold sitting at his place of posting, Laundi only. The sitting of **Laundi-Nowgaon** Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).